

प्रो० दामोदर राम त्रिपाठी, गंगानाथ झाँ शोधपीठ, संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय	प्रो० एच०पी० शुक्ल, निदेशक, भाषा विद्याशाखा ३०मु०वि०वि०, हल्द्वानी
प्रो०पुष्पा अवस्थी, संस्कृत विभाग एस०एस०जे०परिसर, कुमौऊ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा	डॉ० देवेश कुमार मिश्र सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग ३०मु०वि०वि०, हल्द्वानी
डॉ० ब्रजेश पाण्डेय, एस०प्रो० महिला डिग्री कालेज, हल्द्वानी	डॉ० संगीता बाजपेयी, अका० एसोसिएट संस्कृत विभाग ३०मु०वि०वि०, हल्द्वानी
डॉ० गोपाल दत्त त्रिपाठी, संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी	

पाठ्यक्रम सम्पादन एवं संयोजन

डॉ० देवेश कुमार मिश्र
सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग
३०मु०वि०वि०, हल्द्वानी

इकाई लेखन	खण्ड	इकाई संख्या
डॉ० भगवती पन्त, ३०मु०वि०	खण्ड एक	1, 2
डॉ० चन्द्र कान्त दीक्षित स० प० महावि० कुशीनगर	खण्ड एक	3, 4
डॉ० शिवबालक द्विवेदी प्राचार्य, बट्टीविशाल डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद	खण्ड दो, खण्ड तीन	
डा० उमेश शुक्ल, लाडदेवी शर्मा पंचोली संस्कृत महाविद्यालय, माण्डलगढ - बरून्दनी, भीलवाड़ा, राजस्थान	खण्ड चार	

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रोफे. सुभाष धूलिया कुलपति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	एल. एस. रावत कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
--	---

कापीराइट @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष : 2015

प्रकाशक: (३०मु०वि०वि०) -263139

पुस्तक का शीर्षक -- संस्कृत भाषाविज्ञान एवं व्याकरण MASL102

ISBN. 978-93-84632-22-9

मुद्रक:

अनुक्रम

प्रथम खण्ड – भाषा विज्ञान	पृष्ठ 01
इकाई 1: भाषा का उद्गम और विकास	2-21
इकाई 2: भाषा विज्ञान, स्वरूप अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध	22-39
इकाई 3: संस्कृत एवं प्रमुख भारोपीय भाषाएं	40-51
इकाई 4: -संस्कृत एवं प्राचीन आर्य भाषाएं	52-78
द्वितीय खण्ड – रूप विज्ञान	पृष्ठ 79
इकाई 1: संस्कृत पद संरचना	80- 96
इकाई 2: उपसर्ग तथा निपात	97-109
इकाई 3: आख्यात पद रचना	110- 129
तृतीय खण्ड – ध्वनि विज्ञान	पृष्ठ 130
इकाई 1: संस्कृत ध्वनियों का विकास क्रम	131- 151
इकाई 2 : ध्वनि परिवर्तन के कारण तथा दिशाये	152- 176
इकाई 3: ध्वनि नियम – ग्रिम , ग्रासमान , वर्नर	177-190
इकाई 4: वाक्य - रचना	191-199
चतुर्थ खण्ड - षड्लिंग प्रकरण	पृष्ठ 200
इकाई 1: अजन्त पुल्लिंग राम शब्द	201-211
इकाई 2: अजन्त पुल्लिंग राम शब्द द्वितीया- सप्तमी	212-142
इकाई 3: अजन्त पुल्लिंग सर्वादिगण	243-263
इकाई 4: अजन्त पुल्लिंग हरि एवं गुरु शब्द	264-283
इकाई 5: अजन्त पुल्लिंग पति एवं पितृ शब्द	284-302
इकाई 6: अजन्त स्त्रीलिंग रमा शब्द	303-314

खण्ड एक- भाषा विज्ञान

इकाई 1: भाषा का उद्गम और विकास

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 भाषा का अर्थ
- 1.4 भाषा की परिभाषा
- 1.5 भाषा की विशेषताएं
- 1.6 भाषा का उद्गम (विविध मतों के अनुसार)
 - 1.6.1 दिव्योत्पत्ति या देवी सिद्धान्त
 - 1.6.2 संकेत सिद्धान्त
 - 1.6.3 धातु सिद्धान्त या डिंगडांग सिद्धान्त
 - 1.6.4 ध्वनुकरण या अनुकरण सिद्धान्त
 - 1.6.5 मनोभावाभिव्यंजकता या आवेग सिद्धान्त
 - 1.6.6 श्रम-ध्वनि या यो-हे-हो सिद्धान्त
 - 1.6.7 इंगित सिद्धान्त
 - 1.6.8 सम्पर्क सिद्धान्त
 - 1.6.9 संगीत सिद्धान्त
 - 1.6.10 टा-टा सिद्धान्त
 - 1.6.11 समन्वय सिद्धान्त
- 1.7 भाषा का विकास
- 1.8 सारांश
- 1.9 शब्दावली
- 1.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 1.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 1.12 उपयोगी पुस्तकें
- 1.13 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

भाषा ही वह दिव्य ज्योति है, जो सम्पूर्ण संसार को एकसूत्र में बाँधने की शक्ति रखती है। जो परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करती है, भाषा रूपी दिव्य ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जाता है। भाषा के विषय में कहा गया है कि भाषा सतत् गत्वर एवं प्रवाहमान है।

भाषा क्या है ? आखिर मनुष्य को इसकी आवश्यकता क्यों हुई? प्रस्तुत इकाई में भिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा भाषा की परिभाषाओं व उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही साथ भाषा की उत्पत्ति व उसके विकास को भी आप समझ सकेंगे।

भाषा की उत्पत्ति को लेकर तो विद्वानों में कई मतभेद है। कुछ विद्वानों ने तो भाषा की उत्पत्ति के सिद्धान्त को ही भाषा विज्ञान के क्षेत्र से बाहर माना है। इस इकाई में आप भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन विविध मतों के आधार पर कर सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई में आप भाषा विज्ञान से सम्बन्धित विषय भाषा का अध्ययन करेंगे-

- भाषा के अर्थ को समझ सकेंगे।
- भाषा की परिभाषा से परिचित होंगे।
- भाषा की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- भाषा की उत्पत्ति व उसके विकास के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे।

1.3 भाषा का अर्थ

भाषा शब्द संस्कृत के भाष् धातु से बना है जिसका तात्पर्य स्पष्ट वाणी, मनुष्य की वाणी, बोलना या कहना है। भाषा का अर्थ सिर्फ बोलने से नहीं है बल्कि जो मनुष्य बोलता है उसके एक खास अर्थ से है। भाषा शब्द का प्रयोग पशु- पक्षियों की बोली के लिए भी होता है। इंगित को भी भाषा कहा जाता है, सिर, आँख, हाथ आदि को हिलाने आदि से भी कई अर्थों की अभिव्यक्ति की जाती है जिस प्रकार सिर नीचे करने हाँ और सिर को दाँये- बाँये हिलाने आदि से नहीं अर्थ प्रकट किया जाता है। देखा जाय तो अंगों के द्वारा किया गया अभिनय इंगित भाषा कहलाता है।

सामान्य रूप से देखा जाय तो सभी प्राणी ध्वनि संकेतों में ही बोलते हैं। केवल मनुष्य के मुख से

निकली ध्वनि जिसका एक खास अर्थ होता है, यही भाषा है, अध्ययन का विषय भी वही है। मनुष्य

आपस में जो विचार विमर्श करते हैं उसका साधन केवल भाषा ही है, सभी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम केवल भाषा ही है। देखा जाय तो संकुचित अर्थ में भाषा का अर्थ सिर्फ मनुष्य की भाषा से है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मौखिक भाषा उत्कृष्ट व लिखित भाषा निकृष्ट के अन्तर्गत आती है।

भाषा विज्ञान में जिस भाषा को ग्रहण किया गया है। वह केवल मानवीय भाषा ही है।

1.4 भाषा की परिभाषा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह आपस में अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं, वह कभी शब्दों या वाक्यों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तो कभी वह संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। वक्ता जो बोलता और श्रोता जो सुनकर भावों को ग्रहण करता है वही भाषा है। सामान्य रूप से देखा जाय तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जो बोला व सुना जाता है उसे भाषा कहते हैं।

भाषा विज्ञान के अन्तर्गत केवल स्पष्ट रूप से बोलने वाले मनुष्यों की वाणी ही आती है। भाषा शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से अपने व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें बोलने वाला भी भाषा बोलता है, सुनने वाला भी भाषा सुनता है और बोध भी भाषा रूप में होता है। देखा जाय तो एकान्त में रहने वाला व्यक्ति भी किसी भाषा का प्रयोग करता है, और एक सुविख्यात व्यक्ति भी किसी विशेष भाषा का प्रयोग करता है। विद्वानों ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है-

पाणिनी के अष्टाध्यायी के महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है-

‘व्यक्तां वचि वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः।’

यहां वर्णात्मक वाणी को ही भाषा कहा गया है।

डॉ० मंगलदेव शास्त्री के अनुसार- भाषा मनुष्यों की चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा में अर्थयुक्तता एवं प्रतीकात्मकता के निर्देश का अभाव है।

डॉ० बाबूराम सक्सेना के अनुसार- जिन ध्वनि-चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है

उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। डॉ० बाबूराम सक्सेना ने उच्चारण अवयवों का उल्लेख नहीं किया है।

डॉ० श्यामसुन्दर के अनुसार - मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।

भोलानाथ तिवारी के अनुसार- "भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा-समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

मैक्समूलर के अनुसार-भाषा और कुछ नहीं है केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है।

प्लेटो के अनुसार- "विचार आत्मा की मूक बातचीत है पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।"

स्वीट के अनुसार-ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।

संघटनात्मक रूप से देखा जाय तो भाषा-शास्त्रियों ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है- "भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है, जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करता है।" यदि हम इस परिभाषा को देखें तो इसमें चार बातों पर ध्यान दिया गया है।

1- **भाषा एक पद्धति है**- भाषा एक सुव्यवस्थित योजना है। जिसके अन्तर्गत कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप से आ सकते हैं, इसमें वक्ता जो कुछ भी कहता है श्रोता वही समझता है। इसमें पद रचना के कुछ वाक्य रचना के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। तृतीया एकवचन में न् का ण् किन् शब्दों में होगा, किन् शब्दों में नहीं होगा, और किन् शब्दों में तृतीया के एकवचन में आ लगेगा और कहां पर ना लगेगा, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ विश्लेषण किया जाता है।

2- **भाषा संकेतात्मक है**- किसी भी भाषा में जो ध्वनियां आती हैं, उनका किसी वस्तु या कार्य से सम्बन्ध होता है कोई भी ध्वनि किसी भाषा में किसी एक वस्तु का बोध कराती है। केवल हमें इस तथ्य पर ध्यान देना है कि भाषा की ध्वनियां केवल संकेतात्मक हैं।

3- **भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है**- मानव अपनी वागिन्द्रिय के द्वारा जिन संकेतों का उच्चारण

करता है, केवल वे ही भाषा के अन्तर्गत आते हैं, वाचिक ध्वनि संकेत सूक्ष्म से सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त, निर्वचनीय और अनिर्वचनीय, दृश्य-अदृश्य सभी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से समर्थ है, देखा जाय तो ध्वनियों की एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसका सूक्ष्म विश्लेषण सम्भव है।

4- भाषा यादृच्छिक संकेत है- यादृच्छिक का अर्थ है, जैसी इच्छा या इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न भाषाओं के अध्ययन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि किसी भी भाषा में जिन ध्वनि संकेतों का उपयोग किया जाता है, वे पूर्ण रूप से यादृच्छिक (ऐच्छिक) है।

यदि हम सामान्य रूप से बालक की भाषा-शिक्षण को ध्यान में रखकर विचार करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि बालक अपने माता-पिता व सम्बन्धियों के द्वारा कहे गये ध्वनि संकेतों का अनुकरण करता है, वह इसका विवेचन नहीं करता है कि गाय को गाय और घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं।

1.5 भाषा की विशेषताएं और प्रकृति

इससे पूर्व के पृष्ठों में आप भाषा की परिभाषाओं से परिचित हुए, इस अध्याय में आप

भाषा की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जो सामान्य रूप से देखा जाय तो विश्व की सभी भाषाओं में प्राप्त होती हैं।

1-भाषा अर्जित सम्पत्ति-भाषा मनुष्य को जन्म से नहीं आती है। समाज या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। योग्यता के अनुसार ही मनुष्य बचपन में भाषा को अर्जित करता है। जिस प्रकार भेड़िये के साथ रहने वाला बच्चा वातावरण के अभाव के कारण मनुष्य की भाषा नहीं सीख पाता वहीं दूसरी ओर वह भेड़िये की भाषा को सीखता है। भाषा सीखी व अर्जित की जाती है, इसलिए यह अर्जित सम्पत्ति है।

2- भाषा पैतृक सम्पत्ति नहीं है-मनुष्य को भाषा जन्म के साथ नहीं मिलती है। भाषा सीखनी पड़ती है, अर्जित की जाती है। लोगों का मानना है कि भाषा पैतृक सम्पत्ति की भाँति अनासाय ही प्राप्त हो जाती है यह कथन पूर्णतः गलत है। जिस प्रकार यदि कोई बच्चा बचपन से ही विदेश में रहेगा तो वह हिन्दी को न बोल सकेगा न ही समझ सकेगा विदेशी भाषा ही उसकी मातृभाषा होगी। यदि भाषा पैतृक सम्पत्ति होती तो बच्चा विदेश में रहकर भी हिन्दी भाषा सीख व बोल लेता।

3-भाषा सामाजिक वस्तु है- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज से ही वह अपने समस्त क्रिया कलापों को सीखता है। उसी प्रकार भाषा भी समाज से सीखता है। भाषा पूर्ण रूपेण आदि से अंत

तक समाज से सम्बन्धित है। भाषा के द्वारा ही हम सोचते विचारते हैं। देखा जाय तो जितनी विकसित भाषा होगी उतना ही विकसित वहां का समाज होगा। अतः भाषा एक सामाजिक वस्तु है।

4-भाषा सर्वव्यापक है- मनुष्य के प्रत्येक कार्यों का संचालन भाषा के द्वारा ही होता है। व्यक्ति का व्यक्ति से व व्यक्ति का समाज से सम्बन्ध भाषा के ही द्वारा स्थापित होता है। चिन्तन मनन और सामाजिक कार्यों के लिए मनुष्य भाषा का ही सहारा लेता है। आचार्य भर्तृहरि के अनुसार सभी लौकिक कार्यों का आधार भाषा को ही माना गया है। अपने वाक्यपदीय नामक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट किया है-

इतिकर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया”

5- भाषा मानव की अक्षय निधि है-मानव मात्र का अक्षय कोष भाषा ही है। भाषा ही मानव की पूँजी है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर मानव ने जो कुछ देखा, सोचा व अनुभव किया, वही पूँजी के रूप में विद्यमान है यही बहुमूल्य निधि है।

6- भाषा चिरपरिवर्तनशील है-सामान्य रूप से देखा जाय तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा का अनुकरण ही मौखिक रूप है। उसका लिखित रूप ही मौखिक पर आधारित है। देखा जाय तो मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है। दो मनुष्यों की भाषा में समानता नहीं पायी जाती है, मनुष्य अनुकरण प्राणी होने के कारण भी पूर्ण रूप से अनुकरण की कला में निपुण नहीं है। यही अनुकरण ही भाषा में परिवर्तन लाती है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है अतः भाषा परिवर्तशील है।

7- भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है-प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भाषा में थोड़ा अन्तर स्थान भेद से होता है। भाषा का वास्तविक क्षेत्र उसकी सीमा के भीतर ही होता है। जिस प्रकार अवधी, भोजपुरी व्रज हिन्दी के अर्न्तगत आते हैं, वहीं दूसरी ओर मराठी, बंगला व गुजराती आदि भाषाएं हिन्दी से अलग हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाय तो सबकी अपनी-अपनी भौगोलिक सीमा है।

8- भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं है-भाषा निरन्तर गत्वर एवं प्रवाहमान है, इसलिए इसका अन्तिम रूप नहीं हो सकता। जिस प्रकार समस्त वस्तुएं परिवर्तित होती हैं उसी प्रकार भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। मृत शरीर की भाँति मृत भाषा का अन्तिम स्वरूप हो सकता है पर जीवित भाषा का नहीं।

1.6 भाषा का उद्गम

स्वभावतः देखा जाय तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? यह विषय

अत्यन्त उलझा हुआ है, और इस विषय पर प्राचीन काल से ही विचार होता आया है, लेकिन वे अपूर्ण और अनिर्णयात्मक है।

भाषा की उत्पत्ति लाखों वर्ष पूर्व हो चुकी थी, इस पर केवल अनुमान ही किया जा सकता है। 1866 ई० में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति की स्थापना हुई थी। उन्होंने अपने अधिनियम में यह निर्देश दिया है कि यहां भाषा की उत्पत्ति और विश्वभाषा - निर्माण इन दो बातों पर विचार नहीं किया है, भाषा की उत्पत्ति के दो सिद्धान्त प्रमुख हैं-

1-प्रत्यक्ष मार्ग

2- परोक्ष मार्ग

प्रत्यक्ष मार्ग में भाषा की उत्पत्ति के मुख्य बिन्दुओं के आधार को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके विपरीत परोक्ष मार्ग में भाषा के वर्तमान रूप से भूतकालिक रूप का सर्वेक्षण किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति को कुछ विद्वान भाषा-विज्ञान का विषय मानते ही नहीं हैं। भाषा की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धान्त विद्वानों ने दिये हैं वे पूर्णरूपेण तर्क संगत नहीं हैं। इस अध्याय में हम भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन करेंगे-

1.6.1-दिव्योत्पत्ति सिद्धान्त-

भाषा की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीन मत है। जिस प्रकार परमपिता ब्रह्मा ने मानव सृष्टि की उसी प्रकार मानव को अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी, संस्कृत भाषा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। देवी शक्ति ने ही इस सृष्टि के प्रारम्भ में हमें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। मूल भाषा के रूप में वैदिक संस्कृत भाषा प्राप्त हुई, संस्कृत भाषा व उसके व्याकरण के मूल आधार पाणिनि के 14 सूत्र शिव के डमरू से निकले। वेद, उपनिषद, स्मृतियों और दर्शन ग्रंथों में वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से हुई इस विषय में प्रमाण प्राप्त है-

देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश्वो वदन्ति।(ऋग्वेद8-10)

संस्कृत वाग्देवी भाषा को देवों ने ही उत्पन्न किया है और उसे सभी प्राणी बोलते हैं। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवप'चवारम्। इस मंत्र में भी भाषा की दैवी उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है, अ इ उ ण् आदि 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति शिव के डमरू से मानी जाती है यह भी दैवी उत्पत्ति का सूचक है। संस्कृत भाषा को ईश्वर कृत होने के कारण विश्व की सभी भाषाओं को इसका मूल मानते हैं। बौद्ध, पाली को मूल भाषा मानते रहे हैं। जैनों के अनुसार अर्धमागधी केवल मनुष्यों की ही भाषा नहीं है बल्कि सभी जीवों की मूल भाषा है। ईसाइयों ने प्राचीन विधान की हिब्रू भाषा व मुसलमानों

ने अरबी को आदिभाषा घोषित किया है, जर्मन विद्वान सुसमिल्श भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त के विषय में कहते हैं कि 'भाषा मानवकृत नहीं है, अपितु परमात्मा से साक्षात् उपहार रूप में प्राप्त हुई है। जर्मनी जर्मन भाषा को आदि भाषा एव देव भाषा कहते हैं।

समीक्षा- देवी सिद्धान्त के विषय में कुछ आपत्तियां हैं-

1-यदि भाषा ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती तो जन्म से उसे प्राप्त हो जाती, उसे भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं होती।

2-देखा जाय तो यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त है, तो विभिन्न भाषाओं में इतना भेद क्यों है?

3-यदि भाषा ईश्वर कृत होती तो वह पूर्णरूपेण विकसित होती क्योंकि भाषा में विकास , परिवर्धन और परिवर्तन दिखाई देता है, अतः यह ईश्वर कृत नहीं मानी जा सकती है ।

1.6.2 संकेत

सिद्धान्त-संकेत सिद्धान्त को निर्णय-सिद्धान्त आदि नामों से भी जाना जाता है। संकेत सिद्धान्त के प्रवर्तक 18वीं शती के प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रूसो है, इनके अनुसार प्रारम्भ में मानव पशुओं के समान सिर हिलाने आदि आंगिक संकेतों से अपने भावों को व्यक्त करता था। धीरे-धीरे इन संकेतों से काम नहीं चला तत्पश्चात् एक सभा की और नामों को निर्धारित किया गया, देखा जाय तो यह एक सामाजिक समझौता है। इसके पश्चात् ध्वन्यात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई।

भामह के काव्यालंकार में प्रस्तुत है-

इयन्त ईदृशा वर्णा ईदृगर्थाभिधायिनः।

व्यवहाराय लोकस्य प्रागित्थं समयः कृतः॥(काव्यालंकार6-13)

समीक्षा-संकेतसिद्धान्त में कुछ स्पष्ट कमियां हैं-

1-यदि भाषा नहीं थी तो बिना भाषा के सभा का आयोजन कैसे हुआ?

2-विचारों को अभिव्यक्त करने की भाषा क्या थी।

3-विचार विमर्श के लिए बिना भाषा के सभा का आयोजन आदि कार्य असम्भव हैं।

1-6-3- धातु सिद्धान्त-

इस सिद्धान्त को रणन सिद्धान्त, अनुरणात्मक अनुकरण, अनुकरण सिद्धान्त, डिंग-डांग वाद आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धान्त के प्रवर्तक प्लेटो थे। जर्मन प्रोफेसर हेज ने इसे व्यवस्थित कर आगे बढ़ाया। मैक्समूलर ने पहले तो इस सिद्धान्त को अपनी पुस्तक में स्थान दिया किन्तु बाद में निरर्थक कहकर छोड़ दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार संसार की हर चीज में अपनी एक ध्वनि होती

है। यह विशेष ध्वनि ही उसकी विशेषता होती है। टिन, लोहा, लकड़ी व काँच आदि पर हम चोट मारते हैं तो एक विशेष ध्वनि (नाद) निकलती है इसे रणन कहा जाता है। रणन सिद्धान्त के आधार पर ही लोहा, लकड़ी, टिन व काँच आदि में अन्तर किया जाता है। जिस प्रकार नदी कल-कल या नद-नद ध्वनि करती है तो उसी के आधार पर रित उसका नाम नदी रखा गया। इसी प्रकार से यदि देखा जाय तो 400-500 मूल शब्दों या धातुओं का निर्माण किया गया।

समीक्षा- इस सिद्धान्त पर विचार करने पर कुछ दोष भी पाये गये-

- 1-भाषा केवल धातु से ही नहीं बनती है इसके लिए प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य घटकों की भी आवश्यकता पड़ती है।
- 2-इस सिद्धान्त पर विचार करने पर इसमें इतने दोष थे कि प्रो० मैक्समूलर ने इसे छोड़ दिया।
- 3-घण्टे में यह ध्वनि है, परन्तु सभी पदार्थों में यह ध्वनि नहीं है। देखा जाय तो अस्वीकृत होने के पश्चात् भी यह सिद्धान्त रोचकता के लिए प्रचलित है।
- 4-इसका कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। यह सिद्धान्त कल्पना पर आधारित है।

1-6-4 ध्वन्यनुकरण सिद्धान्त

इस सिद्धान्त को अनुरणनमूलकतावाद, अनुकरण-सिद्धान्त सामान्यतः अंग्रेजी में कुत्ते की ध्वनि को इवू-वू बाउ-वाउ कहते हैं देखा जाय तो हिन्दी में यह भों-भों वाद हुआ। वास्तव में इस सिद्धान्त का मूल नाम 'ओनोमेटोपोइक थ्योरी' है जिसका अर्थ है ध्वन्यनुकरण सिद्धान्त। प्रो० मैक्समूलर ने इस सिद्धान्त को उपहासास्पद बताया। इस सिद्धान्त के अनुसार पशु-पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण अलग-अलग वस्तुओं के नाम रखे गये हैं जो वस्तु जैसी ध्वनि करती है उसका वैसा ही नाम पड़ता है। जैसे-कू-कू से कोयल, काँव-काँव से कौवा और काक, पट्-पट् से पटाखा, झर-झर से झरना आदि हैं। ध्वनि साम्य के आधार पर भाषा में कुछ शब्द मिलते हैं। जैसे-गुर्गना, मिमियाना, थपथपाना, रंभाना, खटखटाना, पट-पट, खट-खट, झम-झम आदि। संस्कृत में नद-नद के आधार पर ही नद या नदी आदि शब्द हैं। इसी प्रकार पत् धातु के आधार पर पत् ध्वनि गिरना है।

समीक्षा- इस सिद्धान्त पर भी कुछ आपत्तियां हैं 1-यदि ध्वन्यनुकरण ही आधार होता तो सभी भाषाओं में अर्थों के लिए एक समान शब्द होते जैसे काक-कौवा, झरना-निर्झर आदि का ही भेद नहीं है अपितु अंग्रेजी, फ्रेंच आदि के लिए सर्वथा पृथक् शब्द है।

2-प्रो० रेनन ने इस सिद्धान्त का विरोध इस आधार पर किया है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के

बाद भी मनुष्य स्वयं में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सका।

3- आंशिक रूप से स्वीकार्य होते हुए भी यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए अस्वीकार्य है।

1.6.5 आवेग-सिद्धान्त

यह सिद्धान्त को मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोरागव्यंजक, मनोरागव्यंजक शब्दमूलकतावाद, पूह-पूहवाद आदिनामों से जाना जाता है। आवेग सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में मानव विचार-प्रधान प्राणी न होकर पशुओं की भाँति भाव प्रधान था। मनुष्य ने अपने दुःख, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों या ध्वनियों का उच्चारण किया। धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा बन गई। हर्ष या खुशी में अहो, वाह आदि, शोक या दुःख में आह, हाय, रे, क्रोध में आः आदि शब्द हैं। अंग्रेजी में मनोभावसूचक चववी(पूह) पिम(फाई) वी(ओह) आदि शब्द हैं। धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ।

समीक्षा- इस सिद्धान्त में कुछ दोष हैं

- 1-आवेग-शब्दों में चिन्तन का नाम भी नहीं है। जबकि भाषा चिन्तन प्रधान होती है।
- 2- आवेग ध्वनियां भाषा की अक्षमता को सूचित करती हैं, ये भाव भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किये जा सकते हैं अतः इस कारण इनसे भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। प्रो० बेन्फी ने इसका विरोध किया है।
- 3-आवेग सिद्धान्त आवेगात्मकता को ही प्रकट करते हैं, सामान्य भावों की अभिव्यक्ति को नहीं। इस कारण इनका सम्बन्ध भाषा के मुख्य अंग से नहीं है।
- 4-आवेग-शब्दों की संख्या नगण्य होने के कारण यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। इस कारण से यदि देखें तो यह सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति की समस्या को हल करने में सर्वथा असमर्थ है।

1.6.6 श्रम-ध्वनि-सिद्धान्त

इस सिद्धान्त को यो-हे-हो सिद्धान्त या श्रम-परिहरणमूलकतावाद सिद्धान्त भी कहते हैं। न्यारे नामक भाषा शास्त्री इस सिद्धान्त के जन्मदाता हैं। उनके अनुसार जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करता है तो उसकी सांस तेजी से बढ़ जाती है। मांसपेशियों में ही नहीं बल्कि स्वरतंत्रियों में भी संकोच-विस्तार बढ़ जाता है, इस कारण कुछ ध्वनियां अचानक निकल जाती हैं जिस कारण परिश्रम करने वाले को कुछ आराम का अनुभव होता है। जिस प्रकार धोबी कपड़े धोते समय 'हियो' या 'छियो' कहता है। मल्लाह थकान के कारण 'यो-हे-हो' कहते हैं।

समीक्षा- यह सिद्धान्त भी महत्वपूर्ण नहीं है इस सिद्धान्त में कई आपत्तियां हैं-

1- इन ध्वनियों का भाषा में कोई स्थान नहीं है।

2- भाषा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है शारीरिक श्रम से जन्मे ये शब्द निरर्थक हैं।

1.6.7 इंगित-सिद्धान्त

डॉ० राये इस सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। इसके पश्चात् डार्विन ने छह असम्बद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस सिद्धान्त को प्रमाणित किया। प्रो० रिचर्ड ने 1930 में इस सिद्धान्त को पुनः अपनी पुस्तक में मौखिक इंगित सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया। इस मत के अनुसार मनुष्य ने अपनी आंगिक अर्थात् अंगों की चेष्टाओं का वाणी के द्वारा अनुकरण किया और उसी से भाषा बनी।

समीक्षा- इस सिद्धान्त में भी कुछ आपत्तियां हैं-

1- मनुष्य की आंगिक चेष्टाओं जैसे हाथ, पैर, ओष्ठ आदि के आधार पर शब्द रचना सारहीन है।

2- इस सिद्धान्त पर बने सिद्धान्तों की संख्या बहुत कम है।

3- मनुष्य ने अपने ही अनुकरण पर शब्द रचना की है जो हास्यपद है। यदि दूसरे के अनुकरण पर शब्द रचना होती तो यह मान्य होती।

1-6-8 संपर्क सिद्धान्त

इस मत के प्रवर्तक जी० रेवेज नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इस मत के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसमें एक दूसरे के प्रति पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। देखा जाय तो जब मनुष्य एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो इसी आधार पर समाज बनता है। और उनमें प्रारम्भिक भावनाओं को जैसे भूख-प्यास आदि को एक दूसरे पर अभिव्यक्त करने के लिए तरह-तरह के सम्पर्क स्थापित किये जाते थे और साथ ही साथ मुखोच्चरित ध्वनियाँ भी सहायक रही होंगी भाषा उसी का विकसित रूप है। जैसे-जैसे संपर्क की आवश्यकता बढ़ती गई वैसे-वैसे उसकी स्पष्टता का अनुभव और ध्वनि का विकास भी होता गया।

सम्पर्क ध्वनि का विकास संसूचक ध्वनि से होता है। इसके अन्तर्गत चिल्लाना, पुकारना आदि सम्मिलित हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे विचारों के स्तर पर सम्पर्क बढ़ता गया वैसे-वैसे भाषा भी विकसित हुई। जिस प्रकार 'माँ' का अर्थ माँ दूध दो या पानी दो आदि। इस प्रकार देखा जाय तो क्रिया पहले आयी और संज्ञा बाद में व व्याकरणिक दृष्टि से ये शब्द न होकर वाक्य होंगे, तत्पश्चात् विकास होने

पर कई प्रकार के शब्दों को मिलाकर छोटे-छोटे वाक्य बने व निरन्तर संपर्क बढ़ने से भाषा का विकास हुआ।

समीक्षा:-1- यह सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों की अपेक्षा मानने योग्य है।

2- इस सिद्धान्त में मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति और विकास के सामान्य सिद्धान्त का ही विवेचन है।

3-कॉसिडी नामक प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी इस सिद्धान्त के अनुसार भी भाषा की उत्पत्ति की समस्या सुलझ नहीं सकी।

4- इस सिद्धान्त का आधार काल्पनिक व आनुमानिक है।

1.6.9 संगीत सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक डार्विन, स्पेंसर व येस्पर्सन हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धान्त प्रेम सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है। सम्भवतः यह रहा होगा कि आदिम मनुष्य अत्यधिक भावुक व संगीत प्रिय रहा होगा, वह अपने खाली समय में कुछ गुनगुनाता रहा होगा। उसी गुनगुनाने से जो ध्वनियाँ बनीं उसी से भाषा की उत्पत्ति है।

समीक्षा-

1-प्रारम्भ में मनुष्य गुनगुनाता था इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है।

2-गुनगुनाने मात्र से यदि भाषा की उत्पत्ति हुई ऐसा केवल अनुमान पर आश्रित है ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

3-इस सिद्धान्त का सम्बन्ध प्रेम से अधिक है इस कारण कुछ लोगों ने इसे प्रेम सिद्धान्त भी कहा है।

1.6.10 टा-टा सिद्धान्त

प्रारम्भ में जब आदिम मानव काम करते थे तो उस समय वे जाने अनजाने उच्चारण अवयवों से काम करने वाले अवयवों की गति का अनुकरण करते थे। बाद में इस अनुकरण से कुछ ध्वनियों और ध्वनि संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जाया करता था।

समीक्षा

1-देखा जाय तो भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न इस सिद्धान्त में भी सुलझता नहीं दिखाई देता है। आज का सभ्य मानव न ऐसा अनुकरण करता है और न ही अविकसित मानव।

2-बन्दरों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती जो कि हमारे तथाकथित जनक हैं।

3-प्रारम्भिक निरर्थक ध्वनियों से भाषा का विकास कैसे हुआ इसका कहीं भी उत्तर नहीं दिया गया है।

1.6.11 समन्वय सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के प्रवर्तक व समर्थक हेनरी स्वीट नामक भाषा शास्त्री हैं। उन्होंने कोई नया सिद्धान्त प्रस्तुत न करके सर्वसिद्धान्त संकलन को अधिक उपर्युक्त समझा है। भाषा का प्रारम्भ अनुरणनात्मक, भावाभिव्यंजक और प्रतीक शब्दों एवं उपचार सिद्धान्त के समन्वित रूप से हुआ। प्रोफेसर स्वीट ने तीन प्रकार के शब्दों को तीन भागों में बाँटा है।

पहले प्रकार के शब्द अनुकरणात्मक हैं। जैसे-बिल्ली म्याऊँ-म्याऊँ, कौवा का-का व कोयल कु-कू शब्द करती है। दूसरे प्रकार के शब्द भावाभिव्यंजक या मनोभावाभिव्यंजक है। जैसे-ओह, हा, धिक्, हाय आदि शब्द हैं। तीसरे प्रकार के शब्द प्रतीकात्मक हैं जैसे नर्सरी शब्द माता, पिता, भाई-बहन आदि शब्द हैं। भाषा में प्रारम्भिक शब्दों की संख्या बहुत अधिक रही होगी। इस प्रकार यदि देखा जाय तो स्वीट के अनुसार भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात् उपचार प्रयोग से शब्दों का विकास हुआ।

समीक्षा-1-भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी इस सिद्धान्त में भाषा-शास्त्री हेनरी स्वीट ने सभी सिद्धान्तों का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है।

2-देखा जाय तो यह सिद्धान्त निर्विरोध रूप से स्वीकार किया गया।

3-हेनरी-स्वीट का समन्वय सिद्धान्त भी भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से सुलझा नहीं सका।

बोध प्रश्न:-

1- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये:-

- (क) मनुष्य को भाषा.....के साथ नहीं मिलती है।
- (ख) भाषा की उत्पत्ति.....वर्ष पूर्व हो चुकी थी।
- (ग) भाषा का वास्तविक क्षेत्र उसकी..... के भीतर ही होता है।
- (घ) भाषा निरन्तर गत्वर एवं.....है।

2-निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

- (1) भाषा की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धान्त है।
 (क) संकेत सिद्धान्त (ग) दिव्योत्पत्ति सिद्धान्त
 (ख) धातु सिद्धान्त (घ) आवेग सिद्धान्त
- (2) समन्वय सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन हैं?
 (क) डार्विन (ग) स्पेंसर
 (ख) हेनरी स्वीट (घ) डॉ० राये

1.7 भाषा का विकास

परिवर्तन सृष्टि का नियम है क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन है। देखा जाय तो इसी परिवर्तन को विकास कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन से ही जीवन में चेतना है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्र को पुराने शरीर के समान त्यागकर नये वस्त्र के समान नये शरीर को धारण करता है उसी प्रकार भाषा में भी परिवर्तन होता है जैसे प्राचीन समय की वैदिक संस्कृत अपने पुराने रूप को त्यागकर लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गयी और फिर शनैः-शनैः पाली प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान समय में हिन्दी भाषा के रूप में प्रस्तुत हुई है। विभिन्न भाषाओं के अध्ययन के पश्चात् देखा जाय तो काल-भेद, स्थान-भेद और परिस्थिति भेद से भी भाषा में भिन्नता देखी गयी है। यदि हम देखें तो भाषा के विकास के विषय में प्राचीन समय से ही विचार होता रहा है संस्कृत में जिन शब्दशास्त्रियों ने इस विषय में विचार किया है उनमें आचार्य पाणिनि, यास्क पतंजलि, कात्यायन, काशिकाकार, जयादित्य वामन नागेश भट्ट हैं। वर्तमान समय में भी अनेक विद्वानों ने विशद विवेचन किया है। भाषा में विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

1. आभ्यन्तर या आन्तरिक

2. बाह्य या बाहरी, आभ्यन्तर कारण वे हैं जिनका सम्बन्ध भाषा की स्वाभाविक गति से है। बाह्य कारण वे हैं जो भाषा को बाहर से प्रभावित करते हैं इस इकाई में हम दोनों का अलग-अलग वर्णन करेंगे-

- (क) आभ्यन्तर कारण

1-अपूर्ण श्रवण-भाषा अर्जित सम्पत्ति है भाषा अपने पूर्वजों से, शिक्षकों से एवं समाज से सीखी जाती है। एक बच्चा अपने माता-पिता से भाषा सीखता है सीखने की प्रक्रिया में तीन बातें होती हैं।

1-सुनना 2-स्मरण रखना 3-पुनः उच्चारण । इसमें कितनी ही ध्वनियाँ इस प्रकार की होती हैं जो पहली बार सुनने पर हमें स्पष्ट नहीं सुनायी पड़ती है कि उनकी मात्रा ह्रस्व है या दीर्घ, व है या ब, श है या स अनेक बार उच्चारण करने से ही शब्द स्पष्ट सुनाई देता है। यदि बच्चे से सुनने में अशुद्धि होती है तो वह उसका उच्चारण भी अशुद्ध ही करता है इसी प्रकार भाषा में अशुद्धियाँ हो गयी ।

2-बल-बोलते समय किसी खास शब्द या ध्वनि पर विशेष बल दिया जाता है और किसी पर कम जिस कारण से वह अन्य ध्वनियों को कमजोर बना देता है। वे बातें बार-बार दोहरायी जाती है और वे जोर से बोली जाती हैं। इस कारण से बलाघात वाली ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है और उसके आगे-पीछे की ध्वनि निर्बल व कमजोर हो जाती है। इस कारण भी भाषा में विकास या परिवर्तन होता है।

3-अनुकरण की अपूर्णता-अपूर्ण अनुकरण भाषा में परिवर्तन का मुख्य कारण है। मनुष्य अनुकरण से ही भाषा का अर्जन करता है। अनुकरण पूर्ण है तो शब्दों का उच्चारण ठीक होगा। देखा जाय तो अधिकांशतः अनुकरण अपूर्ण ही होता है जैसे बच्चा बचपन में अपने माता पिता आदि के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर अनुकरण से बोलता है यदि बच्चे का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है तो उसे बार-बार उच्चारित करके ठीक कराया जाता है अनुकरण की अपूर्णता के कई कारण हैं-

(क) वागिन्द्रिय की विभिन्नता- प्रत्येक मनुष्य ध्वानि का उच्चारण अगों के सहारे करता है किन्तु प्रत्येक मनुष्य की वागिन्द्रिय एक समान नहीं होती है। प्रायः यह देखा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों के उच्चारण में अन्तर होता है केवल इतना ही नहीं बच्चे, युवा व वृद्ध व्यक्ति के उच्चारण में बहुत विभिन्नता होती है। किसी की ध्वनि मोटी, किसी की पतली व किसी की बेसुरी होती है। आचार्य पाणिनी के अनुसार वर्णों को दबाकर नहीं बोलना चाहिए। ध्वनि कितनी स्पष्ट है यह वागयन्त्र पर निर्भर है।

(ख) अशिक्षा- अशिक्षा के अभाव में अनुकरण अपूर्ण रह जाता है शिक्षा के अभाव के कारण अधिकांश ग्रामीण जन अशिक्षित हैं जिस कारण वे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं इस कारण उच्चारण दोषयुक्त होता है और भाषा में परिवर्तन हो जाता है। ष को स, श को स, ब को व, व को ब एवं ण को न आदि उच्चारण किया जाता है। जैसे कक्षा को कच्छा, छात्र को क्षात्र, क्षत्रिय को छत्रिय, गुण का गुन, सगुण का सगुन, रिपोर्ट का रपट, गार्ड का गारद आदि शब्द हैं।

(ग) लिपि की अपूर्णता-यदि देखा जाय तो प्रत्येक भाषा में कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ हैं जिनका स्पष्ट

लेखन अन्य भाषा में सम्भव नहीं हैं, जिस प्रकार संस्कृत की ट वर्ग ध्वनियां, अंग्रेजी (z), अरबी की काकल्य ध्वनियां, जर्मन, फ्रेंच और रूसी ध्वनियाँ दूसरी भाषा में ठीक नहीं लिखी जा सकती हैं। देखा जाय तो विभिन्न संस्कृतियों के मिलने पर मूल भाषा की ध्वनियों में बहुत अन्तर आता है।

(घ) प्रयत्न लाघव- प्रयत्न लाघव भाषा में विकास लाने वाले कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है। मानव की हमेशा से यह प्रवृत्ति रही है कि वह कम प्रयत्न से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। कम से कम प्रयत्न से लोग शब्दों को उच्चरित करना चाहते हैं। देखा जाय तो यदि लघुमार्ग से काम चल जाय तो वहाँ पर अधिक प्रयत्न क्यों किया जाय?

प्रयत्न लाघव को 'मुखसुख' भी कहते हैं। मुखसुख का अर्थ है सरलता की प्रवृत्ति के कारण बड़े शब्दों को छोटा करके बोलना। जैसे मास्टर साहब का मास्साब, स्कूल का इस्कूल, स्नान का अस्नान, भारतवर्ष का भारत, बीबी जी का बीजी, आदि सरल शब्द के द्वारा बोलने का प्रयास है।

4-जानबूझकर परिवर्तन- कभी-कभी भाषा में लेखक जानबूझकर भी परिवर्तन कर देते हैं। जिस प्रकार प्रसाद ने अलैक्जेंडर का अलक्षेन्द्र किया लेकिन यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। जैसे- संस्कृत में साहित्यकारों ने इसी प्रकार देशज तथा विदेशी शब्दों का संस्कृतिकरण किया है जैसे अरबी में आफियून का अहिफेन आदि। उपयुक्त शब्द न मिलने पर कभी-कभी लोग जानबूझकर उससे मिलते नये शब्द का नये अर्थ में प्रयोग कर देते हैं इस प्रकार से भाषा में परिवर्तन हो जाता है।

5- प्रयोगाधिक्य- अत्यधिक प्रयोग के कारण जिस प्रकार वस्तुएं घिस जाती हैं भाषा में भी उसी प्रकार

(ख) बाह्य कारण-

1- भौगोलिक प्रभाव- भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव भूगोल या जलवायु का पड़ता है। भाषा के परिवर्तन में जर्मन भाषा शास्त्री हाइनरिश मेयर बेन्फी और कोलित्स ने भौगोलिक प्रभाव को विशेष महत्व दिया है। जर्मन भाषाशास्त्री के अनुसार वर्ण-परिवर्तन का कारण भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जलवायु का मनुष्य के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मैदानी व उपजाऊ भूमि पर देखा जाय तो भाषा का प्रचार प्रसार अधिक होता है क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक होती है जिस कारण लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। अधिक जनसंख्या के कारण विभिन्न जातियां मिलती हैं जिस कारण भाषा परिवर्तन सरलता से होता है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतीय और दुर्गम स्थानों में भाषा में परिवर्तन व उसका प्रसार कम होता है।

मूल भाषा से वैदिक संस्कृत और अवेस्ता भाषाओं की उत्पत्ति हुई। देखा जाय तो भौगोलिक भेद के

कारण दोनों ही ध्वनियों में अन्तर हो गया। संस्कृत में स् अवेस्ता में ह् हो जाता है जिस प्रकार सिन्धु का हिन्दु, असि का अहि। भौगोलिक भेद के कारण ही मूल भाषा से उत्पन्न होने के कारण भी गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि पृथक्-पृथक् हैं। पतंजलि के अनुसार स्थान भेद से भाषा में अन्तर हो जाता है।

2-सांस्कृतिक प्रभाव- संस्कृति समाज का अभिन्न अंग व समाज का जीवन है अतः इस कारण भाषा पर उसका प्रभाव पड़ता है सांस्कृतिक प्रभाव भी कई कारणों से हो सकता है जिसका वर्णन हम करेंगे-

(क) सांस्कृतिक संस्थाएँ- सांस्कृतिक संस्थाएँ जहाँ एक ओर अपने धार्मिक विचारों का व्यक्त करती हैं वहीं दूसरी ओर प्राचीन शब्दों को फीर प्रस्तुत करती हैं उन्नीसवीं सदी के अन्त व बीसवीं सदी के प्रारम्भ में स्वामी दयानन्द के द्वारा संस्कृत युक्त हिन्दी शब्दों पर विशेष बल दिया गया। जिस कारण हिन्दी भाषा में संस्कृत युक्त शब्द प्रयुक्त होने लगे।

(ख) व्यक्ति- भाषा पर तभी महान व्यक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरी भाषा को प्रभावित किया तुलसीदास ने कई शब्दों को अपनी कविता में तुक आदि के लिए प्रयुक्त किया वे भी प्रचलन में आ गये। उनके बाद जितने भी कवि हुए उनकी शैली इनसे प्रभावित हुई।

(ग) संस्कृतियों का सम्मेलन- विभिन्न संस्कृतियों के मिलने से भाषा में एक नया रूप आ जाता है। भारत तो संस्कृतियों का देश है यहाँ अनेक संस्कृतियों का मिलन हुआ। जैसे आस्ट्रिक और द्रविड़, आर्य और द्रविड़, आर्य और यवन, आर्य और मुसलमान, आर्य और यूरोपीय इन संस्कृतियों के मिलन से भारतीय भाषा पर सैकड़ों शब्द प्रचलन में आ गये।

3. सामाजिक प्रभाव- भाषा ही समाज का दर्पण है। जिस प्रकार समाज में उन्नति और अवनति होती है ठीक उसी प्रकार से भाषा में भी हास और विकास होता है। भारत में समय-समय पर विभिन्न विदेशी जातियों का आगमन हुआ इसका प्रभाव रहन-सहन के साथ-साथ भाषा पर भी पड़ा। देखा जाय तो अपभ्रंश काल का साहित्य भाषा परिवर्तन का युग है या हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण है। विदेशी जातियों के आगमन से सहस्रों नये शब्दों की उत्पत्ति हुई जैसे- अदालत, गुलाम, कचहरी, तहसीलदार, बीबी, गर्वनर आदि शब्द इसी के प्रतीक हैं।

4. वैज्ञानिक प्रभाव- आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के प्रभाव से भाषा भी दूर नहीं है। जिस प्रकार विज्ञान में नये-नये आविष्कार और अनुसंधान हो रहे हैं उसी प्रकार नई शब्दावली भी बनती जा रही है। अन्य विषयों को यदि हम छोड़ भी दें तो भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र को ही लें

तो हर वर्ष इसमें सैकड़ों नये शब्द आते हैं। विज्ञान में पारिभाषिक शब्दों की संख्या बढ़ती जा रही है आधुनिक युग में संकेत शब्दों की ओर रुचि बढ़ती जा रही है।

(ग) सादृश्य-भाषा के विकास में जिस प्रकार आन्तरिक व बाह्य कारण का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार सादृश्य का भी बहुत महत्व है। सादृश्य विश्व की प्रत्येक भाषा में देखा गया है सादृश्य ध्वनि, शब्द, अर्थ और वाक्य रचना सभी को प्रभावित करता है।

जिस प्रकार द्वादश में द्वादश में आ की मात्रा आती है इसके विपरीत यदि देखें तो एकादश में एकदश में आ नहीं आना चाहिए था इसका कारण यह है कि द्वादश में मिथ्या सादृश्य से एकदश का एकादश हो गया। जिस प्रकार हिन्दी भाषा में सादृश्य के आधार पर अनेक शब्द बने, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी शब्द बनें। जैसे Ring को Rang, Sing का Sang बनने लगे। इस प्रकार से यदि हम देखें तो सादृश्य भाषा के विकास के कारण के रूप में विश्व की सभी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व बनाये रखता है।

3-नीचे जो वाक्य दिये गये हैं उनमें से तथ्य की दृष्टि से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं सही वाक्यों के सामने कोष्ठक में तथा गलत वाक्यों के सामने का चिह्न लगाइये-

- (क) अपूर्ण अनुकरण भाषा में परिवर्तन का मुख्य कारण है। ()
- (ख) प्रयत्न लाघव भाषा में विकास लाने वाले कारणों में महत्वपूर्ण नहीं है। ()
- (ग) भाषा अर्जित सम्पत्ति है ()
- (घ) संस्कृति समाज का अभिन्न अंग व समाज का जीवन है। ()

4-रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये

- (क) बोलते समय किसी खास शब्द या ध्वनि पर विशेषदिया जाता है।
- (ख) विभिन्नके मिलने से भाषा में एक नया रूप आ जाता है।
- (ग) प्रयत्न लाघव को.....भी कहते हैं।
- (घ) आभ्यन्तर कारण को कारण भी कहा जा सकता है

1.8 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप भाषा के अर्थ व परिभाषाओं से परिचित हुए, साथ ही साथ आपने भाषा की विशेषताओं का अध्ययन किया। भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों को आपने जाना। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि कोई भी सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी रहस्य का समाधान

नहीं कर सका। भाषाशास्त्री भाषा के विकास या परिवर्तन को समझा सकते हैं किन्तु भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित नहीं कर पाये।

इस इकाई में आपने भाषा की उत्पत्ति के साथ ही साथ उसके विकास या परिवर्तन को भी जाना।

1.9 शब्दावली

सर्वव्याप्त - सभी जगह फैली हुई

अर्जित - सीखा जाना

प्रदत्त - प्रदान की गयी

आंगिक - अंगों की चेष्टाएँ

निर्विरोध - बिना विरोध के

प्रयोगाधिक्य - अत्यधिक प्रयोग

नर्सरी शब्द - प्रारम्भिक शब्द

1.10 बोध-प्रश्नों के उत्तर

1-(क) जन्म (ख) लाखों (ग) सीमा (घ) प्रवाहमान

2- (1) ग:- दिव्योत्पत्ति

(2) ख:- हेनरी स्वीट

3- (क) सही (ख) गलत (ग) सही (घ) सही

4- (क) बल (ख) संस्कृतियों (ग) मुख-सुख (घ) मौलिक

1.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) डॉ० कपिलदेव द्विवेदी - भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी-221 001

(2)डॉ०भोलानाथतिवारीभाषाविज्ञान
किताब महल,22-1 सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद

1.12 उपयोगी पुस्तकें

- (1) भाषा-विज्ञान - डॉ० श्याम सुन्दर दास
(2) भाषा और भाषा-विज्ञान - प्रो० रामाश्रय मिश्र
(3)भाषा शास्त्र की रूपरेखा - डॉ० उदयनारायण तिवारी
-

1.13 निबंधात्मक प्रश्न

- 1- भाषा किसे कहते हैं?भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
2- भाषा के विकास को समझाइए।

इकाई 2 भाषाविज्ञान -स्वरूप ,अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 भाषा विज्ञान की परिभाषा

2.4 भाषा विज्ञान कला है या विज्ञान

2.5 भाषा-विज्ञान के प्रकार

2.5.1 सामान्य भाषा-विज्ञान

2.5.2 वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान

2.5.3 ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान

2.5.4 तुलनात्मक भाषा-विज्ञान

2.5.5 सैद्धांतिक भाषा-विज्ञान

2.6 भाषा-विज्ञान के अंग

2.6.1 ध्वनि विज्ञान

2.6.2 पद विज्ञान

2.6.3 वाक्य विज्ञान

2.6.4 अर्थ विज्ञान

2.6.5 भाषा की उत्पत्ति

2.6.6 कोश विज्ञान

2.6.7 भाषिक भूगोल

2.6.8 लिपि विज्ञान

2.7 भाषा-विज्ञान का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध

2.7.1 भाषा-विज्ञान और व्याकरण

2.7.2 भाषा-विज्ञान और साहित्य

2.7.3 भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान

2.7.4 भाषा-विज्ञान और भौतिक विज्ञान

-
- 2.7.5 भाषा-विज्ञान और भूगोल
 - 2.7.6 भाषा-विज्ञान और इतिहास
 - 2.7.7 भाषा-विज्ञान और दर्शन
 - 2.7.8 भाषा-विज्ञान और मानव विज्ञान
 - 2.7.9 भाषा-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान
 - 2.7.10 भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान
 - 2.8 भाषा विज्ञान की उपयोगिता या अध्ययन से लाभ
 - 2.9 सारांश
 - 2.10 शब्दावली
 - 2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
 - 2.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
 - 2.13 उपयोगी पुस्तकें
 - 2.14 निबंधात्मक प्रश्न

1.2 प्रस्तावना

'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष' धातु व्यक्त वाक्(व्यक्तायां वाचि) से बना है, तथा विज्ञान शब्द 'वि' उपसर्ग 'ज्ञा' धातु से ल्युट् प्रत्यय लगने पर बनता है। इस प्रकार यदि देखें तो भाषा-विज्ञान दो शब्दों के योग से बना है भाषा और विज्ञान। यदि हम सामान्य रूप से इसका अर्थ निकालें तो भाषा का अर्थ है बोलचाल की भाषा व विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान।

जैसा कि नाम से प्रकट होता है "भाषायाःविज्ञानम्" अर्थात् भाषा का विज्ञान। मानव की प्रगति पर भाषा विशेष रूप से सहायक होती है, भाषा के द्वारा ही हमारे पूर्वजों के सारे अनुभव हमें प्राप्त हुए। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने कारण अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। देखा जाय तो मनुष्य के विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास होता रहा है।

महाकवि दण्डी ने काव्यादर्श में कहा है-

इदमन्धंतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दहृद्यं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते ॥

इस संसार में शब्द स्वरूप ज्योति का प्रकाश न होता तो यह सम्पूर्ण संसार अंधकारमय हो जाता। भाषा ज्ञान को प्रकाशित करती है उसके बिना ज्ञान सम्भव नहीं है। भाषा ही एक वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- विभिन्न विद्वानों के मतानुसार भाषा-विज्ञान की परिभाषा को जान सकेंगे।
- भाषा-विज्ञान के अध्ययन के प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।
- भाषा-विज्ञान के अंगों से परिचित हो सकेंगे।
- इसके साथ ही साथ यह भी जान पायेंगे कि भाषा-विज्ञान का अन्य शास्त्रों के साथ क्या सम्बन्ध है।

2-3 भाषा विज्ञान की परिभाषा

जिस शब्द में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे भाषा-विज्ञान कहते हैं।

भाषा-विज्ञान की परिभाषा के विषय में विद्वानों में मतभेद है-

कपिलदेव द्विवेदी के अनुसार- भाषा विज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है।

मंगलदेव शास्त्री के अनुसार-भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं, जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अन्ततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा के अनुसार-भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है-भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा-विज्ञान कहलायेगा।

डॉ० देवीशंकर द्विवेदी के अनुसार-भाषा-विज्ञान को अर्थात् भाषा के विज्ञान को भाषिकी कहते हैं। भाषिकी में भाषा का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है।

डॉ० भोलानाथ तिवारी के अनुसार-

(क) भाषा-विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा-विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य सम्यक् रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी रूप एवं विकास आदि के अध्ययन से है।

(ख) भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषा-विशिष्ट, कई और सामान्य-का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है।

डॉ० श्यामसुन्दर दास के अनुसार-भाषा-विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके हास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है।

डॉ० बाबूराम सक्सेना के अनुसार-भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है।

डॉ० रामेश्वर दयालु के अनुसार- भाषा-विज्ञान भाषा सम्बन्धी समस्त तथ्यों एवं व्यापारों से सम्बन्ध रखता है। उसमें संसार की भाषाओं के गठन, इतिहास, परिवर्तन, भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध, उनके पार्थक्य, पार्थक्य के कारणों एवं नियमों आदि समस्त विषयों पर विचार होता है।

डॉ० अम्बाप्रसाद सुमन के अनुसार-भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषाओं का सामान्य रूप

से या किसी एक भाषा का विशिष्ट रूप से प्रकृति, संरचना, इतिहास, तुलना, प्रयोग आदि की दृष्टि से सिद्धान्त निश्चित करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

डॉ० कपिलदेव द्विवेदी के अनुसार-भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार-विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं।

डॉ० मनमोहन गौतम के अनुसार- भाषा-विज्ञान वह शास्त्र है, जिसमें ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति, विकास एवं हास आदि की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है।

डॉ० देवेन्द्र प्रसाद सिंह के अनुसार-भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषा का सामग्री-संकलन वर्णनात्मक, विकासात्मक, तुलनात्मक, प्रायोगिक या इसमें से किसी भी विधि से विश्लेषण के द्वारा निरूपित सिद्धान्त के आधार पर अध्ययन होता है।

2.4 भाषा-विज्ञान विज्ञान है या कला

भाषा-विज्ञान कला है या विज्ञान यह प्रश्न कई विद्वानों ने उठाया है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस विषय में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वही विज्ञान है या हम कह सकते हैं विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। कुछ विद्वानों ने इसे भाषा शास्त्र भी कहा है लेकिन इस कारण से इसे विज्ञान स्वीकार करना पर्याप्त नहीं होगा इसके लिए हमें विज्ञान शब्द पर विचार करना होगा। प्राचीनतम ग्रंथों में तो कहीं ब्रह्म विद्या को भी विज्ञान माना जाता था। इस प्रकार यदि हम देखें तो किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है।

इसके विपरीत यदि कला को देखें तो कला में विकल्पात्मक प्रतीति होती है। मानव में दो प्रकार का अनुभव होता है ब्राह्म जगत या बाहरी संसार व मानसिक अवस्थाएं। विज्ञान ब्राह्म जगत से सम्बन्धित है कला को देखें तो यह आवश्यक नहीं कि उसका रूप वास्तविक हो। यदि कला का रूप वास्तविक भी होता तो उसका निर्धारण मन के आन्तरिक भावों को जाग्रत करने की क्षमता से किया जायेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रस बोध से रहित ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आता है व परिवर्तित व रस बोध से युक्त ज्ञान कला की श्रेणी में आता है। यदि हम इस दृष्टि से विचार करें तो भाषा विज्ञान कला की श्रेणी में कम व विज्ञान की श्रेणी में अधिक आता है। क्योंकि भाषा विज्ञान का सम्बन्ध भाषा की ध्वनियों का विश्लेषण व विवेचन करने से है, इसका रसबोध से कोई सम्बन्ध नहीं

है। साहित्यिक अनुभूति एवं मनोरंजन आदि इसके लक्ष्य न होकर किसी ठोस तत्व के निष्कर्ष पर पहुंचना भाषा विज्ञान का लक्ष्य है।

यदि देखा जाय तो भाषा विज्ञान रसायन एवं भौतिक विज्ञान की ही भाँति पूर्ण विज्ञान है।

2.5 भाषा-विज्ञान के अध्ययन के प्रकार

भाषा-विज्ञान का अध्ययन कई दृष्टियों में किया जाता है। यदि हम देखें तो प्रत्येक दृष्टि से किया गया अध्ययन भाषा-विज्ञान के एक नए रूप व नए प्रकार को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है।

- 1-सामान्य भाषा-विज्ञान
- 2-वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान
- 3-ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान
- 4-तुलनात्मक भाषा-विज्ञान
- 5-सैद्धान्तिक भाषा-विज्ञान

2.5.1 सामान्य भाषा-विज्ञान

सामान्य भाषा-विज्ञान, भाषा-विज्ञान के उस प्रकार को कहते हैं जिसमें किसी एक भाषा विशेष को न लेकर सम्मिलित सभी भाषाएँ होती हैं। उनका अध्ययन भाषा विषयक सामान्य बातों तक ही सीमित रहता है। जैसे- भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारम्भ में भाषा का क्या स्वरूप रहा होगा, भाषा में किस प्रकार परिवर्तन व विकास होता है इसके कौन-कौन से कारण हैं, भाषा की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से एक भाषा से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई। जैसे-हमारी प्रारम्भिक भाषा संस्कृत से हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगाली, नेपाली आदि सैकड़ों बोलियां बन गईं। ये सभी बातें सामान्य भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत आती हैं।

2.5.2 वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान

वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत किसी एक विशिष्ट भाषा के किसी एक ही काल के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न कालों की भाषाओं का अध्ययन सम्भव नहीं होता है। इसके अन्तर्गत वाक्य, रूप, ध्वनि आदि का वर्णन आता है। यदि भाषा का पुरातन साहित्य विद्यमान है तो यह भाषा भूतकाल की भी हो सकती है। यदि देखा जाय तो संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी का पुरातन साहित्य विद्यमान है इनका वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि देखा जाय तो

पाणिनी का व्याकरण इस दृष्टि से उल्लेखनीय है पाणिनी व्याकरण में पाणिनी ने संस्कृत का जो विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत किया है उसकी पाश्चात्य विद्वानों ने भी प्रशंसा की है। वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान का इससे अच्छा उदाहरण अन्य कहीं नहीं मिल सकता है।

2.5.3 ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान

ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत भाषा के क्रमिक विकास अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया जाता है। भाषा का प्राचीन रूप क्या था? मध्य युग की भाषा में कैसे परिवर्तन हुआ था व भाषा का वर्तमान रूप क्या है? इसमें कम से कम दो कालों का क्रमिक विकास दिखाना अति आवश्यक होता है। जैसे- वैदिक संस्कृति से लेकर पालि, प्राकृत व अपभ्रंश आदि के रूप में परिवर्तन के साथ-साथ आधुनिक समय में हिन्दी भाषा का क्रमिक विकास ऐतिहासिक भाषा का विषय बनता है।

किस प्रकार से ध्वनि, पद और वाक्यों में विकार आया? रूप व ध्वनि में परिवर्तन किस काल में हुआ? विकास के पश्चात् उसका वर्तमान रूप क्या बना? आदि का अध्ययन ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान में विभिन्न कालों के रूपों का अध्ययन किया जाता है।

2.5.4 तुलनात्मक भाषा-विज्ञान

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का प्रारम्भ मूलतः 18वीं-19वीं सदी में हुआ इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नयी और पुरानी भाषा की तुलना किसी काल विशेष के आधार पर की जाती है। जो भाषाएं लुप्त हो गयी हैं उनके अनुसंधान में भी यह सहायक होता है। इसके अन्तर्गत किसी भी भाषा की ध्वनियों, पदों और वाक्यों की सभी प्रकार से तुलना की जाती है।

वर्णनात्मक और ऐतिहासिक पद्धतियों का इसमें समावेश होता है। इसके अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति भी भाषा के रूपों के स्वरूप को बतलाकर पूर्ण रूप से सहयोग करती है व भाषा की तुलना वर्णनात्मक पद्धति के आधार पर होती है। तुलनात्मक भाषा-विज्ञान में वर्णनात्मक व ऐतिहासिक दोनों पद्धतियां पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। देखा जाय तो संस्कृत, लैटिन व ग्रीक भाषाओं की तुलना से ही तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का जन्म हुआ।

2.5.5 सैद्धान्तिक भाषा-विज्ञान

सैद्धान्तिक भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत भाषा की प्रकृति, संरचना, उत्पत्ति व विकास आदि का सैद्धान्तिक अध्ययन करते हैं। इसके अन्तर्गत भाषा विषयक विभिन्न सिद्धान्तों का निर्धारण होता है। वस्तुतः यदि देखा जाय तो भाषा-विज्ञान भाषा के अध्ययन विश्लेषण का विज्ञान है। इसकी सहायता से भाषा की आंतरिक प्रकृति पर प्रकाश डाला जा सकता है, साथ ही साथ भाषा सम्बन्धी सिद्धान्तों का निश्चित करता है इस तरह से यह सिद्धान्त परक है।

2.6 भाषा-विज्ञान के अंग

भाषा का सर्वांगीण अध्ययन करना ही भाषा-विज्ञान का उद्देश्य है। भाषा-विज्ञान में भाषा से सम्बन्धित सभी विषय आते हैं इन्हें हम भाषा के अध्ययन के विभाग भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से तो भाषा-विज्ञान के चार घटक हैं किन्तु भाषा-विज्ञान इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य विषयों पर भी पर भी विवेचना की गई है वे गौण अंग हैं। इस प्रकार से हम भाषा-विज्ञान के अंगों को दो भागों में बांट सकते हैं।

1-मुख्य अंग, तथा 2-गौण अंग।

2.6.1 ध्वनि विज्ञान

वाक्य की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यदि शब्दों का विश्लेषण करें तो हम ध्वनि पर पहुँचते हैं। भाषा का आरम्भ ध्वनि से होता है। ध्वनि को हम स्वन (फोन) नाम से भी जानते हैं या हम कह सकते हैं कि यह ध्वनि का दूसरा नाम है। ध्वनि को मिलाकर शब्द या पद बनाये जाते हैं। ध्वनि विज्ञान के अन्तर्गत हम ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। ध्वनियों के दो रूप हैं-

क- सैद्धान्तिक-सैद्धान्तिक के अन्तर्गत ध्वनियों के उच्चारण अवयवों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही साथ स्वर एवं व्यंजनों का वर्गीकरण एवं उनमें अन्तर आदि पर विचार किया जाता है।

ख- भाषा-सापेक्ष-भाषा-सापेक्ष के अन्तर्गत भाषा विशेष की ध्वनियों का वर्गीकरण एवं भाषा-विशेष में प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था आदि का विवेचन किया जाता है।

2.6.2 पद विज्ञान

पद-विज्ञान को रूप विज्ञान भी कहते हैं। पद-विज्ञान के अन्तर्गत पदों अर्थात् रूपों का अध्ययन करते हैं। ध्वनियों के मिलने से पद बनाये जाते हैं। पद विज्ञान हमें यह बताता है कि किस प्रकार पदों का निर्माण होता है? किस आधार पर पदों का विभाजन होता है? पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति, काल, प्रत्यय

आदि तत्व क्या हैं? इन सभी का विवेचन किया जाता है।

2.6.3 वाक्य विज्ञान

वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वाक्यों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न ध्वनियों के मिलने से जिस प्रकार पद या रूप बनता है उसी प्रकार विभिन्न पदों या रूपों के मिलने से वाक्य बनता है। इसके अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि वाक्य की रचना किस प्रकार होती है? वाक्य के कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का क्या स्थान है? वाक्य के कितने भेद हैं?

वाक्य विज्ञान को वाक्य विचार भी कहा जाता है। वाक्य विज्ञान को तीन भागों में विभक्त किया गया है।

- 1-वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान
- 2-ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान
- 3-तुलनात्मक वाक्य विज्ञान

2.6.4 अर्थ विज्ञान

अर्थ विज्ञान को अर्थ विचार भी कहते हैं। बिना अर्थ के भाषा का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से आत्मा मनुष्य का सार है उसी प्रकार भाषा की आत्मा अर्थ है। इसके अन्तर्गत इस विषय पर विचार किया जाता है कि अर्थ क्या है? अर्थ को कैसे निर्धारित करते हैं? शब्द और अर्थ का क्या सम्बन्ध है? अर्थ कितने प्रकार का होता है? किन कारणों से अर्थ में परिवर्तन होते हैं? आदि का अध्ययन अर्थ विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। अर्थ विज्ञान के चार भेद हैं- एककालिक, व्यतिरेकी, काल-क्रमिक, तथा तुलनात्मक।

गौण अंग

मुख्य अंग के अतिरिक्त भाषा के गौण अंग भी हैं इनका अपना अलग महत्व है। प्रमुख गौण अंग निम्न हैं-

2.6.5 भाषा की उत्पत्ति

भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति के विषय में भाषाशास्त्रियों का क्या मत है? किस प्रकार भाषा में परिवर्तन या विकास हुआ? इन सभी बातों पर विचार किया जाता है।

2.6.6 कोश विज्ञान

इस विज्ञान के अन्तर्गत कोश रचना का प्रकार बताया जाता है। कैसे शब्दों की व्युत्पत्ति हुई? किस

प्रकार से शब्दों के अर्थ का निर्धारण किया जाता है? शब्दों का किन अर्थों में प्रयोग होता है? कोश विज्ञान के अन्तर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र भी आता है। निघण्टु नामक ग्रंथ इसका प्राचीन उदाहरण है।

2.6.7 भाषिक भूगोल

भाषिक भूगोल के अन्तर्गत भौगोलिक दृष्टि से भाषा का अध्ययन किया जाता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? भाषा का क्षेत्र कितना व्याप्त है? भाषा की कितनी बोलियां व उपबोलियां हैं? इसी का अध्ययन किया जाता है।

2.6.8 लिपि विज्ञान

लिपि को भी भाषा-विज्ञान का अंग माना जाता है, इसके अन्तर्गत लिपि की उत्पत्ति, उसके विकास व उसकी उपयोगिता पर विवेचन किया जाता है। किसी भी भाषा का अध्ययन लिपि के आधार पर किया जाता है।

बोध प्रश्न

1-रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये-

(क) भाषा का.....अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान का उद्देश्य है।

(ख) भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को हीकहते हैं।

(ग) वाक्य की सबसे छोटी इकाई.....है।

(घ) भाषिक भूगोल के अन्तर्गत.....दृष्टि से भाषा का अध्ययन किया जाता है।

2- नीचे जो वाक्य दिये गये हैं उनमें से तथ्य की दृष्टि से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। सही वाक्यों

के सामने कोष्ठक में सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिह्न लगाइये-

(क) तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारम्भ मूलतः 18वीं-19वीं शती में हुआ। ()

(ख) पद विज्ञान को रूप विज्ञान नहीं कहते हैं। ()

(ग) ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अन्तर्गत भाषा के क्रमिक विकास का ()

अध्ययन किया जाता है।

(घ) लिपि को भाषा विज्ञान का अंग नहीं माना जाता है। ()

2 .7 भाषा-विज्ञान का अन्य विषयों से सम्बन्ध

भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध भाषा से है। भाषा-विज्ञान का मानव जीवन से सम्बन्धित विज्ञानों और शास्त्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। देखा जाय तो मानव ने अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार ज्ञान को कुछ क्षेत्रों में बाँटा है। इनको अलग-अलग शास्त्रों व

विज्ञानों का नाम दिया है।

भाषा-विज्ञान सम्बन्धी तात्विक ज्ञान के लिए इन विज्ञानों और शास्त्रों की सहायता लेनी पड़ती है संक्षेप में कुछ विवेचन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिनका भाषा-विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

2.7.1 भाषा-विज्ञान और व्याकरण

सामान्य भाषा में व्याकरण का अर्थ है विवेचन। व्याकरण की उत्पत्ति व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः, प्रकृतिप्रत्ययो वा, येन तद् व्याकरणम् से हुई। भाषा-विज्ञान और व्याकरण में कुछ समानताओं के साथ-साथ कुछ अन्तर भी है। दोनों का ही भाषा के अध्ययन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों भाषा के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश का भी प्रतिपादन करते हैं। भाषा में कहां पर कैसा प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग शुद्ध है या अशुद्ध इस बात का निर्धारण व्याकरण करता है। भाषा-विज्ञान केवल इस बात को जानना चाहता है कि कब, कहां पर कैसा प्रयोग होता है।

समानताएं होने के बाद भी दोनों में कुछ अन्तर है। भाषा-विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है व व्याकरण का क्षेत्र सीमित है। व्याकरण का सम्बन्ध केवल एक ही भाषा से होता है, इसके विपरीत भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध अनेक भाषाओं से होता है। यदि अध्ययन किया जाय तो विश्व की समस्त भाषाओं से भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध है। अतः व्याकरण को अंग व भाषा-विज्ञान को अंगी माना जाता है। भाषा का नियम व्याकरण प्रस्तुत करता है और भाषा-विज्ञान उस नियम की व्याख्या करता है।

2.7.2 भाषा-विज्ञान और साहित्य

भाषा-विज्ञान और साहित्य दोनों एक दूसरे के उपकारक हैं। भाषा-विज्ञान के प्रमुख दो अंग तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पूर्णरूपेण साहित्य पर निर्भर है। यदि देखा जाय तो भाषा विज्ञान की उत्पत्ति संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के अध्ययन के फलस्वरूप हुई। भाषा विज्ञान एक विज्ञान व साहित्य कला है। जिस प्रकार भाषा विज्ञान का सम्बन्ध मस्तिष्क से है उसी प्रकार साहित्य का हृदय से है। भाषा विज्ञान के अन्तर्गत भाषाओं, बोलियों व जनसमूह में प्रचलित भाषा का ही अध्ययन होता है साहित्य में भाषाओं का संग्रह होता है इस प्रकार यदि देखें तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। साहित्य में प्राचीन भाषाओं के रूपों को सुरक्षित कर भाषा विज्ञान के अध्ययन सम्बन्धि सामग्री प्रदान की जाती है। साहित्य के बीना भाषा विज्ञान का विकास सम्भव नहीं है इस प्रकार भाषा विज्ञान और साहित्य एक दूसरे के सहायक हैं।

2.7.3 भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान

भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा विज्ञान के अन्तर्गत भाषा का

अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान के अन्तर्गत मन का भाषा विचारों या भावों का प्रकट करती है भाव या विचारों का सम्बन्ध मन से है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं जो मन में आता है उसी को प्रकट करते हैं। इसका सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है। इस तरह से यदि देखा जाय तो भाषा की आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने में मनोविज्ञान भाषा विज्ञान की सहायता करता है।

मनोविज्ञान की आवश्यकता ध्वनि विज्ञान और अर्थविज्ञान में भी विशेष रूप से पड़ती है जैसे हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे वैसी ही भाषा का हम उच्चारण करेंगे। इस प्रकार मनोविज्ञान ध्वनि विज्ञान में कारण रहता है। इसी प्रकार अर्थ परिवर्तन में भी मनोविज्ञान सहायक है। जैसे-एक ही शब्द के अनेकार्थक शब्द आदि। दूसरी ओर यदि हम देखें तो भाषा विज्ञान भी मनोविज्ञान का उपकारक है। मानसिक रोगों का उपचार भाषा विज्ञान के द्वारा किया जाता है।

2.7.4 भाषा-विज्ञान और भौतिक विज्ञान

भाषा विज्ञान के अध्ययन में भौतिक विज्ञान एक अत्यन्त सहायक अंग है। विज्ञान का भाषा विज्ञान से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। मनुष्य जब कुछ बोलता है वह ध्वनि श्रोता के तक कैसे पहुँचती है और श्रोता किस प्रकार से उस ध्वनि को अपनाता है। इन सभी बातों का अध्ययन भौतिकी के अन्तर्गत होता है।

ध्वनि-तरंग एवं कम्पन आदि का विस्तृत रूप से भौतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान जो कि भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अंग है वह भौतिकी पर निर्भर है। वह हमें बतलाता है कि ईथर नामक तत्व जो आकाश में व्याप्त है वह ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। इसी के आधार पर बोलने वाले अर्थात् वक्ता के विचार श्रोता को सुनायी पड़ते हैं।

2.7.5. भाषा विज्ञान और भूगोल

भाषा विज्ञान का भूगोल से अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है सीमा के अनुसार भूगोल भाषाओं के निर्धारण में सहायक है। क्योंकि स्थानभेद के आधार पर भाषा बदल जाती है। कुछ भाषा शास्त्रियों के अनुसार स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है भौगोलिक प्रभाव के कारण ध्वनि में भी परिवर्तन होता है जिस कारण लोगों के उच्चारण में भी अन्तर पाया जाता है जिस प्रकार से ठंडे से दुर्गम स्थानों में रहने वालों का स्वर अस्पष्ट रहता है इसके विपरीत गर्म स्थानों में उच्चारण स्वर में स्पष्टता दिखाई देती है।

दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों की भाषा में परिवर्तन तेजी से न होकर बहुत देर से होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों की भाषाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है यह भी भौगोलिक कारण है क्योंकि मैदानी भागों में लोगों का सम्पर्क अधिक होता है जिस कारण भाषा में परिवर्तन होता है पर्वतीय क्षेत्रों में दूर-दूर होने के

कारण लोगों का सम्पर्क कम होता है जिस कारण भाषा में परिवर्तन बहुत देर से होता है।

किसी भी भाषा का कम या अधिक विस्तार भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। भूगोल

अर्थविचार में भी भाषा-विज्ञान की सहायता करता है। जैसे-प्राचीन समय में उष्ट्र का अर्थ जंगली भैंसे से था। तदन्तर उष्ट्र को ही लोगों ने ऊँट कहना कैसे प्रारम्भ कर दिया, सैंधव का अर्थ नमक व घोड़ा ही क्यों हुआ, संस्कृत भाषा में कश्मीर का केसर अर्थ कैसे निकला आदि बातों का समाधान करने में भूगोल ही भाषा-विज्ञान की सहायता करता है।

2.7.6 भाषा-विज्ञान और इतिहास

भाषा-विज्ञान और इतिहास का निकटतम सम्बन्ध है। भाषा-विज्ञान के अध्ययन में इतिहास सहायता करता है व इतिहास की सामग्री प्रस्तुत कर भाषा-विज्ञान इतिहास की सहायता करता है। भाषा-विज्ञान की सहायता से ही शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों, धातुओं की बनी लिपियों आदि का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से शब्द और अर्थ में परिवर्तन हुआ इस बात की जानकारी भी हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है।

राजनीतिक इतिहास हमें यह बताता है कि विदेशी शब्दों का प्रचलन कहाँ से हुआ। भारत में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की व पुर्तगाली शब्दों का आगमन कब हुआ यह भी हमें इतिहास ही बताता है।

धार्मिक इतिहास धर्म पर आधारित भाषा से सम्बन्धित अनेक समस्याओं को सुलझाता है। धर्म के रूप परिवर्तन का भी भाषा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक इतिहास हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी देता है कि किस प्रकार मराठी तथा बंगाली में ब्रज भाषा के कुछ अंश आ गये, हिन्दुओं की भाषा संस्कृत युक्त क्यों है, भारत में हिन्दी व उर्दू की समस्या कैसे उत्पन्न हुई। भाषा-विज्ञान के अध्ययन से ही प्राचीन धार्मिक रूप ज्ञात होता है। समाजिक इतिहास के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि समाज में प्रचलित प्रथाएँ किस प्रकार भाषा को प्रभावित करती हैं। यदि देखा जाय तो भारतीय भाषाओं में माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची के अलावा जीजा-साली, मौसा-मौसी, नाना- नानी आदि शब्दों की बहुलता है। इसके विपरीत विदेशी भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्दों का अभाव है। इस प्रकार से यदि देखा जाय तो इतिहास भाषा-विज्ञान का उपकारक है।

2.7.7 भाषा-विज्ञान और दर्शन

भाषा-विज्ञान और दर्शन का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दर्शन शास्त्र के अन्तर्गत आत्मा, परमात्मा, जीव आदि का अध्ययन होता है। अर्थ विज्ञान जो कि भाषा-विज्ञान का प्रमुख अंग है

उसका दर्शन शास्त्र से विशेष सम्बन्ध है। सर्वप्रथम मीमांसकों व दार्शनिकों ने ही शब्द और अर्थ पर चिन्तन अर्थात् विचार किया। उनके अनुसार शब्द क्या है? उसका स्वरूप क्या है? शब्द की कितनी शक्तियां हैं? शब्द व अर्थ का सम्बन्ध है भी या नहीं आदि बातों पर पाश्चात्य व भारतीय दार्शनिकों ने ही सर्वप्रथम विचार किया।

भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय में इसका विकास देखने को मिलता है। अभिहितान्वयवाद, स्फोटवाद व मीमांसकों का शब्द नित्यतावाद दार्शनिक के ही अन्दर आते हैं। अर्थ विज्ञान जो कि भाषा विज्ञान का प्रमुख अंग है कुछ भाषा शास्त्री उसे दर्शन शास्त्र के ही अर्न्तगत मानते हैं।

2.7.9 भाषा-विज्ञान और मानव विज्ञान

भाषा मनुष्य के विकास का प्रतीक है। इस तरह से भाषा विज्ञान व मानव विज्ञान का सम्बन्ध है दोनों ही एक दूसरे के अध्ययन सम्बन्धी सामग्री को प्रस्तुत करते हैं। सभ्यता, विज्ञान व संस्कृति आदि के आधार पर किस प्रकार विकास हुआ इसका विवेचन मानव विज्ञान करता है।

भाषा की उत्पत्ति व उसके प्राचीन रूप आदि के अध्ययन के लिए भाषा को मानव विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। मानव विज्ञान की सहायता के द्वारा ही भाषा विज्ञान को यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के शिलालेख में लिखे देवानां प्रिय का अर्थ अनन्तर में मूर्ख कैसे हो गया? इसी तरह ऋग्वेद में असुर शब्द देव के लिए प्रयुक्त होता था परवर्ती संस्कृत साहित्य में वह राक्षस अर्थ में कैसे प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार भाषा विज्ञान व मानव विज्ञान एक दूसरे के सहायक है

2.7.10 भाषा-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान

भाषा विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों का सापेक्ष होने के कारण परस्पर सम्बन्ध है। सामाजिक विज्ञान के अर्न्तगत समाज में रहने वाले मानव के आहार व्यवहार, आचार विचार व रीति परम्पराओं का अध्ययन होता है। भाषा सामाजिक वस्तु होने के कारण समाजशास्त्रियों के अध्ययन का विषय बन जाती है। भाषा विज्ञान में सैकड़ों शब्द आचार विचार व रीति रिवाजों के हैं समाज विज्ञान की सहायता से इनकी व्याख्या में सरलता हो जाती है। सामाजिक विज्ञान हमें यह बताता है कि किस प्रकार भाषा में विकास और पतन के कारण रूप परिवर्तन होने से अर्थ परिवर्तन हुआ। जैसे- शुक्ल से शुक्ला, द्विवेदी से दुबे त्रिवेदी से तिवारी आदि शब्द। यदि हम दोनों की तुलना करें तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र सीमित व सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि भाषा विज्ञान सामाजिक विज्ञान के नियंत्रण में रहता है।

2.7.11 भाषा-विज्ञान और शरीर विज्ञान

भाषा विज्ञान का आधार ही भाषा है। भाषा मनुष्य के अर्थात् वक्ता के मुख से निकली वह ध्वनि है जो श्रोता के द्वारा ग्रहण की जाती है। इस बात पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि वाग्निन्द्रिय की

सहायता से वक्ता ने जो कुछ भी कहा वह ध्वनि तरंगों की सहायता से श्रोता तक पहुँचती है। उच्चारण करते समय वायु शरीर के भीतर कैसे चलती है, कैसे स्वर यंत्र प्रभावित होता है आदि के अध्ययन में शरीर विज्ञान भाषा विज्ञान की सहायता करता है।

2.8 भाषा-विज्ञान की उपयोगिता या अध्ययन से लाभ

भाषा विज्ञान एक विज्ञान है। विभिन्न विद्वानों ने इस पर विचार भी किया है। यहाँ पर हम विद्वानों के मतों को आधार बनाते हुए उसकी उपयोगिता अर्थात् अध्ययन से लाभ पर विचार करेंगे-

(1) **ज्ञान पिपासा की शान्ति:-** भाषा विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी भाषा विषयक जिज्ञासाओं की तृप्ति करता है। मानव का यही स्वभाव होता है कि वह अपने ज्ञान में निरन्तर वृद्धि करता रहे यही उसका कर्तव्य भी है। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण हमें उसके विषय में पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान पिपासा की शान्ति के द्वारा मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक शान्ति प्राप्त होती है।

(2) **प्राचीन संस्कृति का ज्ञान:-** प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। सभी जातियों की संस्कृतियों का बोध हमें भाषा विज्ञान के द्वारा ही होता है।

(3) **विश्व बन्धुत्व की भावना:-** भाषा विज्ञान हमें विश्व की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान कराता है व हमारे मन में व्याप्त संकीर्णता की भावना को दूर करता है। अनेक भाषाओं के आपस में सम्बन्ध का ज्ञान होने से हमारे मन में आत्मीयता की अनुभूति होती है। इस प्रकार विश्व बन्धुत्व की भावना समस्त विश्व में फैलती है।

(4) **भाषा के अध्ययन में सहायक:-** भाषा के अध्ययन का विज्ञान ही भाषा विज्ञान है। ध्वनियों, प्रकृति, प्रत्यय, वर्ण आदि का ज्ञान हमें इसी के द्वारा होता है इसके साथ ही साथ उच्चारण की शुद्धता का बोध भी यह कराता है।

(5) **साहित्य के ज्ञान में सहायक:-** यदि देखा जाय तो साहित्य के आधार ही भाषा विज्ञान हैं। यह किसी भी भाषा के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों की विवेचना करता है। यह भाषा के अर्थ विज्ञान व अर्थ विकास को जानने में सहायक होता है।

(6) **वेदार्थ ज्ञान में सहायक:-** भाषा विज्ञान वेदों के अर्थ ज्ञान में सहायता करता है। लैटिन, ग्रीक, आदि भाषाओं के अध्ययन में वैदिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान की तुलनात्मक

पद्धति की सहायता ली जाती है।

(7) अनुवाद व पाठ संशोधन आदि में संशोधन:-भाषा विज्ञान विभिन्न भाषाओं अर्थात् एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने में सहायता करता है। इसके साथ ही साथ यह प्राचीन ग्रंथों के पाठ निर्णय व अर्थ निर्णय में सहायक सिद्ध होता है।

बोध-प्रश्न

3- निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिये-

(1) भाषा विज्ञान क्या है?

- | | |
|-------------|-------------|
| (क) व्याकरण | (ग) विज्ञान |
| (ख) साहित्य | (घ) कला |

(2) मनोविज्ञान का सम्बन्ध है।

- | | |
|-----------------|----------------|
| (क) भावों से | (ग) बोलियों से |
| (ख) मस्तिष्क से | (घ) हृदय से |

(3) भाषा विज्ञान का क्षेत्र है।

- | | |
|------------|------------|
| (क) सीमित | (ग) व्यापक |
| (ख) विपरीत | (घ) शुद्ध |

4- नीचे जो वाक्य दिये गये हैं उनमें से तथ्य की दृष्टि से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं सही वाक्यों के सामने कोष्ठक में तथा गलत वाक्यों के सामने का चिह्न लगाइये-

- | |
|--|
| (क) भाषा विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी भाषा विषयक जिज्ञासाओं की तृप्ति करता है () |
| (ख) दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों की भाषा में परिवर्तन तेजी से होता है () |
| (ग) प्राचीन सभ्यता का ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है। () |
| (घ) भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। () |

2.9 सारांश

मनुष्य इस संसार का सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है, वह अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। भाषा मनुष्य की प्रगति में विशेष रूप से सहायक होती है। इस इकाई में आप विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं से परिचित हुए, व साथ ही साथ आपने भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकारों व उसके अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त की। इससे तो आप परिचित हैं कि भाषा विज्ञान एक विज्ञान है किन्तु भाषा विज्ञान का किसी न किसी रूप में अन्य विज्ञानों व शास्त्रों से सम्बन्ध है। भाषा विज्ञान को इन विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। मनुष्य अपने ज्ञान में

निरन्तर वृद्धि करना चाहता है, क्योंकि भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है उसके विषय में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है इसमें भाषा विज्ञान हमारी सहायता करता है और साथ ही साथ भाषा विषयक जिज्ञासाओं की तृप्ति करता है।

2.10 शब्दावली

विशिष्ट	- विशेष प्रकार
पुरातन	- पुराना(प्राचीन)
लुप्त	- समाप्त होना
सर्वांगीण	- सम्पूर्ण विकास
सूक्ष्माति सूक्ष्म	- छोटे से छोटा
घनिष्ठ	- गहरा
ईथर	- ऐसा पदार्थ जो ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजता है।
श्रोता	- सुनने वाला
वक्ता	- बोलने वाला

2.11 बोध-प्रश्नों के उत्तर

- 1- (क) सर्वांगीण (ख) भाषा विज्ञान
(ग) ध्वनि (घ) भौगोलिक
- 2- (क) (ख) (ग) (ख)
- 3- (1) ग:- विज्ञान (2) ख:- मस्तिष्क (3) ग:- व्यापक
- 4- (क) (ख) (ग) (ख)

2.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- (1) डॉ० कपिलदेव द्विवेदी - भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र विश्वविद्यालय प्रकाशन
चौक वाराणसी-221 001
- (2) डॉ० जितेन्द्र वत्स - भाषा विज्ञान और हिन्दी भाषा निर्मल पब्लिकेशन्स

। -139 गली न. 3, कबीर नगर शाहदरा दिल्ली-94

(3) डॉ० भोलानाथ तिवारी - भाषा विज्ञान
किताब महल, 22-। सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

(4) डॉ० कर्णसिंह - भाषा विज्ञान प्रकाशक रतिराम शास्त्री, अध्यक्ष
साहित्य भण्डार सुभाष बाजार, मेरठ-2

2.13 उपयोगी पुस्तकें

- (1) आधुनिक भाषा विज्ञान - डॉ० राममणि शर्मा
- (2) भाषा विज्ञान - डॉ० श्याम सुन्दर दास
- (3) भाषा और भाषाविज्ञान - प्रो० रामाश्रय मिश्र

2.14 निबंधात्मक प्रश्न

- 1- विद्वानों के मतों के अनुसार भाषा विज्ञान की परिभाषा को समझाते हुए, यह बताइये कि भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला।
- 2- भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध समझाइये।
- 3- भाषा विज्ञान के अंगों का वर्णन कीजिये।

इकाई 3 . संस्कृत एवं प्रमुख भारोपीय भाषायें

इकाई का रूपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 भारोपीय भाषा का नामकरण
- 3.4 भारोपीय भाषा के मूल प्रयोक्ता विरोस लोगों का मूल-स्थान
- 3.5 भारोपीय परिवार का विभाजन
 - 3.5.1 केंतुम् शाखा
 - 3.5.2 सतम् शाखा
- 3.6 मूल भारोपीय भाषा
 - 3.6.1 भारोपीय भाषा की ध्वनियाँ
 - 3.6.2 भारोपीय भाषा का व्याकरण
- 3.7 संस्कृत तथा ईरानी में समानता
- 3.8 संस्कृत तथा ईरानी में अन्तर
- 3.9 संस्कृत का तत्कालीन अन्योन्य प्रभाव
 - 3.9.1 संस्कृत तथा भारत-ईरानी
 - 3.9.2 आदिम भारोपीय भाषा
 - 3.9.3 भारत-ईरानी तथा वास्तो स्लावी
 - 3.9.4 भारत ईरानी तथा फिन्नो उग्री
 - 3.9.5 भारतीय आर्य भाषा
- 3.10 भारोपीय भाषा की विशेषताएं
- 3.11 सारांश
- 3.12 शब्दावली
- 3.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 3.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.14 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

भाषा, विचार और अनुभव का संश्लेष है। काल के विस्तार में भाषा का अजश्रम विकसनशील रहता है। अपने कालिदास अथवा पश्चिम के शेक्सपीयर की रचनाओं का अर्थ किसी एक बिन्दु पर स्थिर नहीं, बल्कि अनेक देशों और कालों के विराट समागम से बराबर नयी छवियाँ धारण करता है। भाषा मानव हृदय की कुंजी है। यह किसी राष्ट्र के संगठन के लिये परमावश्यक साधनों में से एक है। विश्व-मानवता का मानसिक संघटन भी भाषा के ही आधार पर किया जाता है। भाषा अनुभूति की अनुवंधी है। भाषा में यह किसी न किसी रूप में अवश्य सक्रिय रहती है। भाषा में वृत्त की लीनता और अनुभूति की गति होती है। एक भाषा का व्यवहार करने वाले लोग उस भाषा के अनेक रूपों के समुच्चय से एक भाषा की इकाई की संरचना करते हैं। उनरूपों में पार्थक्य होते हुए भी, विचार-विनिमय की सम्भावना अधिक रहती है। विचार विनिमय की यह संभावना एक भाषागत एकता का निर्माण करती है।

इतने बड़े संसार में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता होगा। इस विचारणीय विषय पर विद्वानों ने शोध के उपरान्त इनकी संख्या-2796 बताई है। इनमें प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है भारोपीया। भारत से लेकर प्रायः पूरे युरोप तक बोले जाने के कारण इसका नामकरण भारोपीय भाषा के रूप में किया जाता है। इस भाषा का क्षेत्र भारत से लेकर ईरान और आर्मेनिया होता हुआ बीच के कुछ भागों को छोड़कर ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीपों तक फैला हुआ है। इसका नामकरण भी विवादस्पद रहा है पर अन्त में इसका निकर्षतः भारोपीय भाषा नाम ही रखा गया।

इस इकाई में आप भारोपीय भाषा के क्षेत्र, नामकरण, इस भाषा की ध्वनियाँ, इनका व्याकरण, संस्कृत के साथ सम्बन्ध, भारोपीय भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव, विशेषता आदि विषयों के बारे में अध्ययन कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई में आप संस्कृत एवं भारोपीय भाषा से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन कर सकेंगे।

- भारोपीय भाषा से परिचित हो सकेंगे।
- भारोपीय भाषा के क्षेत्र विशेष से परिचित हो सकेंगे।
- भारोपीय भाषा का संस्कृत के साथ सम्बन्ध के बारे में जान सकेंगे।
- भारोपीय भाषा के विविध विषयों की व्याख्या कर सकेंगे।

3.3 भारोपीय भाषा का नामकरण

1. इंडोजर्मनिक- सर्वप्रथम इन्हें इंडो जर्मनिक कहा गया क्योंकि इसके पूर्वी छोर पर भारतीय और जर्मनिक भाषाएं हैं, किन्तु उनके पश्चिम भी केल्टिक शाखा है। अतः यह उपर्युक्त न हो सका।
2. इंडो-केल्टिक- यह नाम कुछ दिनों तक आस्तित्व में रहा परन्तु इसमें केवल दोनों छोर ही थे अतः यह निश्चित चिन्ह खड़ा नहीं कर सका।
3. आर्य भाषाकुछ विद्वानों ने इसे आर्यों के द्वारा बोले जाने के कारण नामकरण किया किन्तु 'आर्य' शब्द का प्रयोग भारत एवं ईरान में ही विशेष प्रचलित था। अतः आर्य भारत-ईरानी भाषा विशेष के लिए ही प्रयुक्त होते हैं।
4. संस्कृत भाषा- इस में अपेक्षाकृत संस्कृत का महत्व भाषा अधिक था। विद्वानों ने इसी से सभी भाषाओं की निष्पत्ति माना है, परन्तु इसे पूर्ण मान्यता नहीं मिली।
5. काकेशियन भाषा- इसे पूर्ण मान्यता न मिलने के कारण स्वीकार नहीं किया गया।
6. जफेटिक भाषा- कुछ विद्वानों ने जेमेटिक और हेमेटिक की वजह से इसे यह नाम दिया। बाइबिल में इन आधारों पर मनुष्य जाती का वर्गीकरण किया जो निराधार है। अतः यह मान्य न हो सका।
7. भारोपीय भाषा- यह नाम भी पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। इसका आधार भौगोलिक है। क्योंकि इसकी शाखाएं भारत से लेकर यूरोप तक फैली हैं। परन्तु कोई अन्य उपयोगी न होने के कारण इसको सर्वमान्य रखा है।

डॉ० भोलानाथ तिवारी ने अपने ग्रन्थ भाषा-विज्ञान में भाषा वैज्ञानिकों के तुलनात्मक आधार को मानते हुए कहा है कि - “भाषा वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर मूल भारोपीय या भारत- हिन्दी के एक शब्द श्रतवेषु का पुननिर्माण किया था और उन मूल लोगों को भी 'विरोस्' शब्द से पुकारा था। यदि हम उन मूल लोगों को 'विरोस्' कह रहे हैं तो उसी आधार पर इस भाषा को 'विरोस् भाषा' के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।”

3.9 संस्कृत का तत्कालीन अन्योन्य प्रभाव

3.9.1 संस्कृत तथा भारत-ईरानी

संस्कृत भाषा आर्यों की मूल भाषा के रूप में उदित हुई। प्राचीन आर्यों की भाषा मूलतः दो रूपों वैदिक तथा लौकिक संस्कृत थी। इसलिए यहाँ पर मूल रूप से केवल ईरानी भाषा पर प्रभाव देखा जाएगा। इस प्राचीन ईरानी भाषा तथा संस्कृत वैदिक भाषा के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ हैं कि एक बिना अन्य का अध्ययन संतोष पूर्ण नहीं किया जा सकता। व्याकरण की दृष्टि से इन में बहुत कम भेद पाया जाता है। प्राचीनतम स्थिति में प्रमुख भेद कतिपय विशिष्ट एवं स्पष्टतः नियत ध्वन्यात्मक परिवर्तनों में

पाया जाता है, जिन्होंने एक ओर ईरानी भाषा तथा दूसरी ओर भारतीय आर्य भाषा को प्रभावित किया है। अवेस्ता के प्राचीनतम भाग में ऐसे पद्य ढूँढ लेना सम्भव है, जो किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर किए गये केवल परिवर्तनों के द्वारा सुस्पष्ट संस्कृत के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ -

संस्कृत	अवेस्ता	पुरानी फारसी
सेना	हएना	हइना
श्रृष्टि	अर्शित	अर्शित
असुर	अहुर	
अर्यमन्	अइर्ययम्	
अपाम्नपात्	अपँम् नपात्	
अथर्वन्	अथउर्वन्	
यज्ञ	यस्न	
मित्र	मिग्न	

इस क्षेत्र में जरथुस्त्र के नाम से सम्बद्ध धार्मिक परिवर्तनों ने ईरानी पक्ष में कतिपय शब्दों के अर्थों को परिवर्तित कर दिया है। उदाहरणार्थ-दएव - दइव, जो संस्कृत में देव-देवता अर्थ में दैत्य का अर्थ वहन करता है।

3.9.2. आदिम भारोपीय भाषा

भारतीय आर्य भाषायें समग्र रूप से भारोपीय परिवार की शाखा के रूप में संकलित होती हैं। भारोपिय परिवार की विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक सम्बन्ध में गवेषणा अठारहवीं शताब्दी के अन्त में युरोपीय विद्वानों द्वारा की गई संस्कृत भाषा तथा साहित्य की गवेषणा का सीधाफल है। इन भाषाओं की मूल जननी (आदिमभाषा) की प्रमुख रूपों की खोज की जा चुकी है। ये भारोपीय भाषाएं इस प्रमुख शाखाओं में विभक्त हैं जो इस प्रकार हैं -

1. आर्य तथा भारत-ईरानी,
2. वाल्टिक तथा स्लाबोनिक,
3. आर्मेनिक,
4. अल्वेनियम, 5. ग्रीक, 6. लैटिन, 7. केल्टिक, 8. जर्मन, तोखारी, 10. हिती।

उपर्युक्त भाषाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएँ जो भारोपीय परिवार को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण थी तथा जिनपर संस्कृत का प्रभाव था इस प्रकार है।

1. ग्रेसियम यह एक सतम् भाषा थी, जो मेसिडोनिया की सीमा से लेकर दक्षिणी रूस तक की सीमा तक फैली थी।
 2. फ्रीजियम यह सतम् भाषा थी। ई0पू0 12वीं शताब्दी के लगभग एशिया माइनर में प्रचलित थी।
 3. इलिरियन दक्षिण- इतावली अंकुर मेसौपियन के साथ यह आधुनिक अल्बेनियम की जननी है।
 4. ओस्को उम्ब्रियन - लैटिन भाषा से घनिष्ठ तथा सम्बन्ध, इतावली विभाषाएँ, जिन्हें उसी के साथ इलैटिक शाखा में रखा जाता है।
 5. उत्तर-पूर्वी इटली भाषा वेनेटिक जो पश्चिमी भारोपीय वर्ग की कैन्तुम शाखा में रखा गया था।
 6. एशिया माइनर की प्राचीन भाषा यह हित्ती के साथ मिलकर एक विशिष्ट वर्ग की रचना करती थी। हिन्दी किलाक्षर अभिलेखों में लूवियन तथा पैलेयन दो भाषाओं का संकेत मिलता है।
- ये सभी भाषाएँ एक मूल भाषा के ही रूप के अनेक अंग के रूप में विकसित हैं। उदाहरणार्थ- भारत ईरानी लोगों ने निर्यात के समय अर्थात् 2000 ई0पू0 के लगभग यूरोप छोड़ा। तो वे अपने साथ उस यूरोपीय भाषा को लेकर नहीं चले थे। जो बाद में चलकर भारत ईरानी भाषा के रूप में परिवर्तित हुई, किन्तु वे उस भाषा को लेकर चले थे। जिसका हम पुननिर्माण कर सके। जो सिद्धान्त भारत-ईरानी भाषा के साथ लागू होता है। वहीं अन्य शाखाओं के साथ भी लागू होते हैं।

3.9.3 भारत- ईरानी तथा वाल्तो-स्लावी

भारत ईरानी से इतर अन्य सतम् भाषाएँ केन्तुम भाषाओं में से अधिकांश की अपेक्षा अधिक परवर्ती काल से ज्ञात हैं। इसके साथ ही सतम् वर्ग में निश्चित रूप में पायी जाने वाली कतिपय शाखाएँ- उदाहरणार्थ थ्रोगसन कुछ चिन्हों को छोड़कर लुप्त हो गयी है। एक समय प्राचीन भारत- ईरानी तथा भारो0 विभाषाओं में विशिष्ट सम्बन्ध था, जिनके बाद वाल्ती तथा स्लावी भाषाएँ विकसित हुईव्याकरण की दृष्टि से भारत-ईरानी तथा वाल्ती-स्लावी में कतिपय समान विशेषताएँ उद्धृत की जा सकती हैं यद्यपि इनमें कतिपय विरोध भी पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ-

1. सुप् विभक्ति

(क) ऋकारान्त शब्दों में के कर्ता कारक रूपों में 'र' का अभाव संस्कृत- माता, स्वसा, वहिनः प्रा0रला0 मति, लिपु0 मोते, सेसुओ ।

(ख) केवल इन्हीं दोनों वर्गों में अधिकरण कारक बहुवचन में 'सु' विभक्ति चिन्ह पाया जाता है।

संस्कृत- वृक्षे प्रा०स्ला० - बलुचेछु।

2. सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण -

(क) पुरुषवाचक सर्वनामों के रूपों में विशेषता उदाहरणार्थकर्ता कारक ए०व० में आम् का प्रयोग सं० अहम् प्रा०स्ला० अजु, सानुनासिक कर्मकारक रूप सं० 'माम्' प्रा०स्ला० 'में'

(ख) कतिपय स्थितियों में निर्देशात्मक सर्वनाम आदि के विस्तृत प्रातिपदिक का प्रयोग उदाहरणार्थ- सर्वनाम ए०व०-तस्मैः प्रा०स्ला०-तोमु

(ग) प्रश्नवाचक सर्वनाम में कि प्रातिपदिक के विरुद्ध का प्रातिपदिक का प्रयोग।

3. क्रिया-

क्रिया रूपों में भारोपीय तथा वाल्तो - स्लावी में समान रूप से खास विशेषताएँ विशेष स्पष्ट नहीं हैं लेकिन कुछ स्थान पर दिखाई देता है।

(क)- स्-लुङ् के रूपों में समानता, उदाहरणार्थ- धातु में वृद्धि, वेसु तथा उत्तम पुरुष एक वचन में - आम् विभक्ति चिन्ह।

(ख)- स्या- वाले भविष्यत् कालिक रूप निश्चित रूप से केवल भारत- आर्य तथा लिथुआनी में ही पाये जाते हैं।

ग)- दोनों में णिजन्त प्रक्रिया के रूप अच्छी तरह विकसित हैं जिनके कई समान रूप देखे जा सकते हैं। सं०-बोधयति, प्रा०स्ला०-बुदिती।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य समानताएँ भी द्रष्टव्य हैं-

संस्कृत	प्राचीन	स्लावी
सत्य	शुयि	
	कृष्ण	किर्स्नन्
	गिरि	गोर
	तुच्छय	तुश्ति
	पुष्	पुस्नोति

अंगार	ओग्लि
ब्रध्न	ब्रोनु
व्रत	रोत
हवते	जोवेते (बुलाता है)
श्वित	स्वितेति (चमकना)

3.9.4 भारत-ईरानी तथा फिन्नो उग्री

भारत - ईरानी तथा अभारोपीय भाषाओं के पड़ोसी परिवार फिन्नो-उग्री के परस्पर सम्बन्ध के प्रमाण उपलब्ध है। इस परवर्ती परिवार में फिनिश, एस्थोनियन तथा हंगेरियन ये तीन यूरोपीय भाषाएं पायी जाती है, जिन्होंने साहित्यिक भाषाओं का स्तर प्राप्त कर लिया है अल्प संख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली कतिपय छोटी भाषाएं भी सम्मिलित है। यथा- लेप, मोर्द्विन, चैरेमिस्, ओरियन, वोत्यक्, बोगुल, ओस्त्यक्।

जहाँ तक फिन्नो- उग्री के साथ प्राचीन भारत- ईरानी के सम्पर्क का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं तथा उनका विश्लेषण भी सरल है। उदाहरणार्थ -

1. फिनिश- सत्; (Sata), 'सौ', लेप कुओते (Cuotte) सं०-शतम्, अवे० सतम्
2. फिनिश-वसर (Vasar) 'हथौड़ा' लेप वाचेर (Voecer) सं० वज्र, अवे०-वज्र
3. फिनिश-ओरस (Oras), 'मोर्द्विन-उरेश (Ures), सं०-वराह, अवे० - वराज
4. फिनिश- अर्वो (arvo), 'मूल्य', हंगेरियन - अर (ar) सं०-अर्घा
5. फिनिश सिसर (Sisar) 'बहिन', मोर्द्विन- सज़ोर (Sazor), स०-स्वसर, अवे०-रवड्हुर्
6. मोर्द्विन शव, शेय (Sava, Seja) 'बकरा, सं० छात्र।

यह नितान्त स्पष्ट है कि ये शब्द फिन्नी- उग्री भाषा परिवार ने भारत- ईरानी शाखा से लिये है तथा इससे विपरीत स्थिति नहीं हो सकती। अन्य भारोपीय भाषाओं में इनके समान्तर शब्द है तथा फिन्नी उग्री भाषा के लिये जाने के पूर्व ये शब्द आर्य भाषा अर्थात् संस्कृत के विशिष्ट परिवर्तनों से युक्त हो

चुके थे। जहाँ हमें भारत- ईरानी शब्द का कोई वास्तविक समानान्तर रूप भा० भाषा में नहीं मिलता वहाँ भी उस शब्द की संघटना तथा ज्ञात भारोपीय धातु से उद्भूत होने की संभावना प्रायः इस बात का निदर्शन करती है कि वह परम्परा से प्राप्त शब्द है। उदाहरणार्थ- संस्कृत - वज्र, अवेस्ता वज्र-प्रसिद्ध प्रत्यय - 'र' (भा० प्रत्यय- रा) जोड़कर बनाया गया है। इसे इस भारोपीय से उद्भूत माना जा सकता है जो ग्रीक वग्नुमि 'तोड़ना, फोड़ना' में है।

अतः हमें भारत- ईरानी तथा पड़ोसी फिन्नी- उग्रीयों के दीर्घ सम्पर्क की कल्पना करनी ही पड़ेगी और चुकी इस विषय में इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि शब्दों का आदान केवल एक ओर से हुआ होगा, हमें भा० शब्दों के विषय में, जिनमें उक्त शब्दों की भाँति रूप तथा अर्थ दोनों दृष्टि से अत्यधिक समानता दृष्टिगोचर होती है, फिन्नी-उग्री परिवार को संभाव्य मूल स्रोत मानना चाहिए।

3.9.5 भारतीय आर्य भाषा -

उत्तर पश्चिम की काफ़ीरी भाषाओं की कतिपय विभाषायें भारतीय आक्रमण के पूर्ण की प्राचीन आर्य भाषा के महत्वपूर्ण वैभाषिक भेदों का संकेत करती है। कुछ दृष्टि से ये भाषाएँ भारतीय आर्य तथा ईरानी का मध्य है। ये भाषाएँ भारतीय आर्य भाषा के समान हैं। परन्तु इसमें अर्थात् आर्य भाषा में इस युग में होने वाले परिवर्तन उदाहरणार्थ है।

1. इन तथा ज़ का ह (त्र ईरानी ज तथा ज़) में परिवर्तन।
2. ज तथा ज़ दोनों ज (त्र ज तथा ज़) में मिल गये है।
3. क + स तथा श् + स् के संयोग से 'क्ष' का विकास हुआ है। ईरानी में ये ध्वनियाँ अलग-अलग सुरक्षित है।
4. 'गज्' 'ब्ज्' जैसी आर्य सघोष ध्वनियाँ अघोष 'क्ष' 'प्स्' के रूप में बदल दी गयी हैं।
5. आर्य ज़ ध्वनि सर्वत्र लुप्त हो गयी है।
6. द् के पूर्व आर्य ज़ ध्वनि के लोप से भारतीय आर्य प्रति- वेष्टित ध्वनि ड् का विकास हुआ, तथा अन्य संयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन के साथ एक नई व्यंजन ध्वनियों का आरम्भ होता है। जो आर्य भाषा साथ ही अवशिष्ट भारोपीय भाषा के लिए सर्वथा नवीन है।
7. दो व्यंजन ध्वनियों के बीच 'स्' (ष) का लोप हो जाता है।

8. सभी पदान्त संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ सरल बना दी जाती है तथा केवल पहली ध्वनि सुरक्षित रहती है।
9. महाप्राण ध्वनि 'ध' तथा 'भ' को ह् के रूप में दूर्बल बनाने को प्रवृत्ति आरम्भ हो जाती है (इह 'यहाँ': अवै० इद्र) किन्तु
10. आर्य ध्वनियुग्म अइ तथा अउ एकांकी स्वर ध्वनियाँ 'ए' तथा 'ओ' के रूप में बदल दिये गए हैं।

परिवर्तन की यह तालिका अत्यधिक प्रभावोत्पादक है तथा भारतीय आर्य भाषा के भावी इतिहास के लिए अत्यधिक महत्व की है और इसके परिपूर्णता प्राप्त करने के लिये समुचित समय की कल्पना करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी यह धारणा है कि त्वरित भाषाशास्त्रीय परिवर्तन का युग वैदिक युग के पूर्व था। जहाँ तथा परिनिष्ठित संस्कृत का सम्बन्ध है। निश्चित साहित्यिक भाषा की संस्थापना तथा उससे सम्बद्ध शैक्षणिक परम्परा के साथ भाषा का प्रवहमान विकास अवरूद्ध कर दिया गया। वैदिक भाषा से परिनिष्ठित संस्कृत को अलग करने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तन साक्षात् प्राक्- वैदिक काल में होने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तनों की अपेक्षा नगण्य है।

3.10 भारोपीय भाषा की विशेषताएं

1. अपने मूल रूप की दृष्टि से यह परिवार श्लिष्ट- योगात्मक कहा जा सकता है।
2. इसमें योग प्रत्यय का प्रकृति से या सम्बन्धतत्त्व का अर्थतत्त्व से प्रायः सेमेटिक या हैमेटिक भाषा सा अन्तर्मुखी न होकर वहिर्मुखी होता है।
3. प्रत्यय जोड़े जाते हैं, इनके स्वतंत्र अर्थ का पता नहीं है। एकन्दो के विषय में विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है।
4. यह भाषा प्रारम्भ में योगात्मक थी पर धीरे-धीरे ये वियोगात्मक हो गयी, जिसके कारण परसर्ग तथा सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कुछ भाषाएं स्थान प्रधान हो गई हैं।
5. धातुएं अधिकतर एकाक्षर होती हैं इनमें प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत कहते हैं तथा कृत के बाद जो जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं।
6. इस भाषा में पूर्वसर्ग या पूर्व विभक्तियाँ सम्बन्ध सूचना देने के लिए या वाक्य बनाने के लिये नहीं प्रयुक्त होतीं। इनका प्रयोग शब्द परिवर्तन एवं अर्थ परिवर्तन में होता है।
7. समास रचना की विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय विभक्तियों का लोप हो

जाता है और समास रचना का ठीक अर्थ वहीं नहीं रहता जो अलग-अलग शब्दों को एक स्थान पर रखने से रहता है।

8. स्वर परिवर्तन सम्बन्धतत्त्व परिवर्तन हो जाता है। आरम्भ में स्वराधात के कारण ऐसा हुआ होगा और जब धीरे-धीरे प्रत्ययों का लोप हो गया वे स्वर परिवर्तन ही सम्बन्ध परिवर्तन को स्पष्ट करने लगे।

9. एक स्थान से चलकर अलग-अलग होने पर इस परिवार की भाषाओं का अलग-अलग बहुत सी भाषाओं में विकास हुआ और सभी में प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ी अतः यहाँ प्रत्ययों की संख्या अधिक हो गयी।

3.11 सारांश

इस इकाई में आपने भारोपीय भाषा के नामकरण, उनके प्रमुख स्थान, उनका विभाजन तथा संस्कृत के साथ सम्बन्ध एवं उनके अन्योन्य प्रभावों के विषय में अध्ययन किया। जिसकी सहायता से आप भारोपीय भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके तथा उसके सभी उप-अंगों से परिचित हो सके।

भाषा भले ही किसी भी रूप में हमें द्रष्टव्य हो परन्तु उसके मूल श्रोत, उसके नामकरण तथा प्रभाव को निश्चित करना एक बड़ी ही चुनौती के रूप में हमारे समक्ष द्रष्टव्य होती है। कई विद्वानों ने अपने-अपने मतों के आधार पर भारोपीय के रूपों का निर्धारण किया है जिसका मूल रूप यहाँ द्रष्टव्य है।

इस इकाई में आप संस्कृत एवं प्रमुख भारोपीय भाषाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे।

बोध प्रश्न

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

- आइसलैंडिक जर्मनिक भाषा के वर्ग की भाषा है।

(क) केंतुम् वर्ग	(ख) सतम् वर्ग
(ग) केतुम् और सतम् दोनों	(घ) दोनों में से कोई नहीं
- इलीरियन वर्ग की शाखा है।

(क) तोखारी	(ख) लैटिन
(ग) केंचुम्	(ख) सतम्
- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

- (क) 'ओस्थ' भारोपीय भाषा है जिसका संस्कृत रूप है।
 (ख) 'तिष्ठामि' का भारोपीय रूपान्तरण है।
 (ग) 'वहिस्त' भाषा का शब्द है।
 (घ) 'स्वितेति' भाषा का शब्द है।
4. नीचे जो वाक्य दिये गये हैं उनमें से तथ्य की दृष्टि से कुछ सही है तथा कुछ गलत है सही वाक्यों के सामने कोष्ठक में सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह बनाए।
- (क) भारोपीय भाषा में अपश्रुति प्रणाली है। ()
 (ख) अवेस्ता भारोपीय भाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। ()
 (ग) 'ददामि' केवल अवेस्ता में ही प्रयुक्त होता है। ()
 (घ) भारोपीय भाषाओं का विभाजन मुख्यतः दो रूपों किया गया है। ()

3.12 शब्दावली

अन्योन्य	- अन्य-अन्य
सामान्तर	- समान अन्तर वाले
वर्गीकरण	- विभाजन
निराधार	- बिना आधार के
सानुनासिक	- अनुनासिक के साथ
अप्रयुक्त	- जिनका प्रयोग न हो
रूपाधिक्य	- रूप की अधिकता
प्रयोगाधिक्य	- अत्याधिक प्रयोग

3.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

- (क) केंतुम् वर्ग
- (घ) सतम् वर्ग

3. (क) अस्थि (ख) स्थिस्थामि (ग) अवेस्ता (घ) प्राचीन स्लावी
4. (क) (✓) (ख) (x) (ग) (x) (घ) (✓)

3.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान किताब महल 22-ए सरोजिनी नायडु मार्ग इलाहाबाद-211001
2. डॉ० भोलाशंकर व्यास संस्कृत भाषा चौखम्बा, विद्या भवन, वाराणसी-1
3. भाषा विज्ञान का रसायन, डॉ० कैलाश नाथ पाण्डेय गाजीपुर साहित्य संसद नौकापुरा, लंका

3.15 अन्य उपयोगी पुस्तकें

- | | | |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1. | भाषा विज्ञान | श्री भगवान तिवारी |
| 2. | भाषा विज्ञान एवं भाषाशास्त्र | डॉ० कपिलदेव द्विवेदी |
| 3. | भाषा विज्ञान की रूपरेखा | डॉ० हरीश शर्मा |
| 4. | भाषा विज्ञान | मंगल देव शास्त्री |

3.16 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारोपीय भाषा का नामकरण एवं मूल-स्थान पर प्रकाश डालिए तथा इनके प्रमुख विशेषताएं बताइए।
2. संस्कृत के तत्कालीन प्रभावों का सविस्तार वर्णन कीजिए।

इकाई 4. संस्कृत एवं प्राचीन आर्य भाषाएं

इकाई की रूपरेखा :

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 संस्कृत एवं प्राचीन आर्यभाषा
- 4.4 प्राचीन आर्य भाषा
 - 4.4.1 प्राचीन वैदिक भाषा
 - 4.4.2 प्राचीन वैदिक भाषा की ध्वनियाँ
 - 4.4.3 प्राचीन वैदिक भाषा के स्वराघात
 - 4.4.4 प्राचीन वैदिक भाषा के समास
 - 4.4.5 प्राचीन वैदिक भाषा के शब्द
 - 4.4.6 प्राचीन वैदिक भाषा की प्रमुख बोलियाँ
 - 4.4.7 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वैदिक भाषा
 - 4.4.8 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वैदिक भाषा की ध्वनियाँ
 - 4.4.9 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वैदिक भाषा का व्याकरण
 - 4.4.10 प्राचीन लौकिक संस्कृत
- 4.5 वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अन्तर के कारण
- 4.6 वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अन्तर
 - 4.6.1 ध्वनि के रूप में
 - 4.6.2 स्वाराघात के रूप में
 - 4.6.3 सन्धि के रूप में
 - 4.6.4 कारक विभक्ति के रूप में
 - 4.6.5 क्रिया के रूप के रूप में
 - 4.6.6 समास के रूप में
 - 4.6.7 प्रत्यय के रूप में

4.6.8 शब्द के रूप में

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.11 अन्य उपयोगी पुस्तकें

4.12 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भाषा व्यष्टि चेतना व समष्टि चेतना के पारस्परिक आदान-प्रदान का उपलब्ध परिणाम है। इसका विचार से अटूट रिश्ता है। भाषा की निगाह में भाषाभिव्यक्ति के लिए ध्वनि चिन्हों का महत्व सर्वाधिक है जबकि नेत्र ग्राह्य सत्ता गौण है। भाषा भाव का अलंकरण तथा अभिव्यक्ति का प्रमुख उपकरण है। मानव मन-गुहा में स्थित रंगा-रंग संवेदनाओं को साकार करने की क्षमता भाषा में होती है। निराकार भाषा भाषिक क्षितिज पर चढ़कर मूर्त रूप धारण करता है। भाषिक दीप-शिक्षा में भाव-स्नेह के अनुसार ही लौ प्रस्फुटित है। कुल मिलाकर भाषा देशकाल के फलक पर हुए बदलाव का प्रामाणिक दस्तावेज है।

ईसा पूर्व 1500 में जब आर्यों द्वारा आक्रमण किया गया तब उन्होंने भी अपने राज्य विस्तार तथा पूर्ण विकास के लिए अपनी भाषा अर्थात् संस्कृत का प्रसार किया। जिसके कारण तत्कालीन भाषा अर्थात् प्राचीन आर्यभाषा मूलतः दो रूपों, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के रूप में विद्वानों द्वारा प्रत्यक्ष द्रष्टा हुई।

इस इकाई में आप संस्कृत एवं प्राचीन आर्यभाषा के रूप में तत्कालीन संस्कृत के विषय में तथा उनके मध्य सम्बन्ध एवं अन्तर के अनेक रूपों का अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई में हम संस्कृत तथा प्राचीन आर्यभाषाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

- प्राचीन आर्यभाषा से परिचित हो सकेंगे।
- संस्कृत तथा आर्यभाषा के सम्बन्ध के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के अन्तर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

4.3 संस्कृत एवं प्राचीन आर्यभाषा:

भारत वर्ष के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली आधुनिक भाषाएं उस रूप वाली भाषा से विकसित हुई हैं। जिसका प्रसार लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व उत्तर - पश्चिम से भारत में आक्रमण करने वाले लोगों ने किया था। ये आक्रमणकर्ता अपनी भाषा में आर्य कहलाए। यह शब्द सामान्यतः

विशेषण रूप में भी प्रयुक्त होता है। जिसका अर्थ है - कुलीन, सम्मान्य। इन्हीं के साथ के कुछ लोग मध्य-एशिया में रह गये। ये अपने लिए अवेस्ता में 'अइर्य' का प्रयोग करते थे जिसका षष्ठी बहुवचन में ईरान का आधुनिक नाम विकसित हुआ।

भारतीय शाखा को ईरानी शाखा से अलग करने के लिए 'भारतीय - आर्य' शब्द गढ़ लिया गया है और भाषा के अर्थ में यह प्राचीनकाल से लेकर आज तक इस श्रोत से विकसित भाषाओं तथा विभाषाओं के समग्र रूप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके व्यवहारतः तीन वर्ग किए जाते हैं:- प्राचीन आर्यभाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के परिनिष्ठित एवं संस्कृत रूप के लिए भारतीय व्याकरणों ने 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अर्थ 'परिमार्जित सुसंस्कृत, (व्याकरण के नियमों के अनुसार) शुद्ध' है। यह प्रयोग अशिक्षित जन-सामान्य की भाषा-प्राकृत से भिन्नता बताने के लिए किया गया था, जो मूलतः ठीक वही आर्य भाषा थी, किन्तु जिसमें निरन्तर परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया पाई जाती थी। भारतीय आर्य भाषाओं अनार्य भाषाओं से पृथक् करने के लिए आर्य विशेषण का प्रयोग किया जाता था जो म्लेच्छ असभ्य, असंस्कृत का विरोधी है।

संस्कृत शब्द व्याकरणों के द्वारा संकुचित अर्थ में नियमित परिनिष्ठित पाणिनीय संस्कृत के लिए प्रयुक्त होता है किन्तु सुविधा के लिए इसका प्रयोग प्राचीन आर्यभाषा के समानार्थक रूप में किया जा सकता है। इस दृष्टि से इसमें पाणिनीय संस्कृत तथा प्राक्-पाणिनीय अथवा वैदिक भाषा दोनों का समावेश हो जाता है।

4.4 प्राचीन आर्यभाषा: -

आर्य जब भारत में आये, उस समय उनकी भाषा तत्कालीन ईरानी भाषा से कदाचित् बहुत अलग नहीं थी। किन्तु जैसे-जैसे यहाँ के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव, विशेषतः आर्येतर लोगों से मिश्रण के कारण पड़ने लगे, भाषा परिवर्तित होने लगी। इस प्रकार वह अपनी भगिनी-भाषा ईरानी से कई बातों में अलग हो गई। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है। इनमें रूपाधिक्य है, नियमितता की अपेक्षाकृत कमी है और अनेक प्राचीन शब्द हैं जो बाद में नहीं मिलते। वैदिक संहिताओं का काल मोटे रूप में 1200ई0 पूर्व से 900 ई0पूर्व के लगभग है। यों वैदिक संहिताओं की भाषा में भी एकरूपता नहीं है। कुछ की भाषा बहुत पूर्ववर्ती है, जो कुछ की परवर्ती। उदाहरणार्थ अकेले ऋग्वेद में ही प्रथम और दसवें मण्डल की भाषा तो बाद की है, और शेष की पुरानी। यही पुरानी भाषा अपेक्षाकृत अवेस्था के निकट है। अन्य संहिताएँ (यजुः, साम, अथर्व) और

बाद की हैं। वैदिक संहिताओं की भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न है क्योंकि यह काव्य-भाषा है। उस समय तक आर्यों का केन्द्र सप्तसिन्धु या आधुनिक पंजाब था, यद्यपि पूर्व में वे बहुत आगे तक पहुँच गये थे। ब्राह्मणों-उपनिषदों की भाषा कुछ अपवादों को छोड़कर संहिताओं के बाद की है। इसमें उतनी जटिलता एवं रूपाधिक्य नहीं है। इनके गद्य भाग की भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। इस समय तक आर्यों का केन्द्र मध्यदेश हो चुका था, यद्यपि इधर की भाषा उत्तर जितनी शुद्ध नहीं थी। इस भाषा का काल 900 से बाद का है। भाषा का और विकसित रूप सूत्रों में मिलता है। इसका काल 700 ई० पूर्व से बाद का है। यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत के काफी पास पहुँच गई है, यद्यपि उसमें पाणिनीय संस्कृत की एकरूपता नहीं है। इस काल के अन्त में लगभग 5वीं सदी में पाणिनि ने अपने व्याकरण में संस्कृत के उदीच्य में प्रयुक्त रूप के अपेक्षाकृत अधिक परिनिष्ठित एवं पण्डितों में मान्य रूप को नियमबद्ध किया, जो सदा-सर्वदा के लिए लौकिक या क्लैसिकल संस्कृत का सर्वमान्य आदर्श भाषाओं के रूप में विकास करती आज तक आयी है, किन्तु संस्कृत में साहित्य-रचना भी इसके समानान्तर ही होती चली आ रही है, जो मूलतः पाणिनीय संस्कृत होने भी हर युग की बोलचाल की भाषा का अनेक दृष्टियों से कुछ प्रभाव लिये हुए है और यही कारण है कि बोलचाल की भाषा न होने पर भी, उस साहित्यिक संस्कृत में भी विकास होता आया है। भाषा के जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि रामायण-महाभारत की भाषा पाणिनि के बाद की है। पुराने पुराणों की भाषा और भी परवर्ती है। फिर कालिदास से होते क्लैसिकल संस्कृत हितोपदेश तक तथा और आगे तक आई है। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के वैदिक और लौकिक संस्कृत दो रूप मिलते हैं।

4.4.1 प्राचीन वैदिक भाषा:

(1500 ई०पू० से 800 ई० पू० तक) इसे 'प्राचीन संस्कृत', 'वैदिकी', 'वैदिक संस्कृत' या 'छन्दस्' आदि अन्यनामों से भी पुकारा गया है। संस्कृत का यह रूप, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। यों इन सभी में भाषा का कोई एक सुनिश्चित रूप नहीं है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, वैदिक साहित्य में इस भाषा का विकास होता दिखाई पड़ता है, फिर भी कुछ ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक बातें ऐसी हैं, जिनको वैदिक की सामान्य विशेषताएँ माना जा सकता है। तत्कालीन बोलचाल की भाषा इसके समीप रही होगी, किन्तु इसका यह आशय नहीं कि बोलचाल की भाषा के सभी रूप इसमें सुरक्षित हैं।

4.4.2 प्राचीन वैदिक ध्वनियाँ भाषा की ध्वनियाँ:

मूल भारोपीय एवं भारत-ईरानी से संस्कृत की (वैदिक तथा लौकिक) कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण

ध्वनियों का विकास किस रूप में हुआ, यहाँ देखा जा सकता है। कुछ स्थानों पर तो भारोपीय के पुनर्निर्मित तारांकित रूप दिये गये हैं और कुछ में मात्र ग्रीक या लैटिन आदि के ही रूप दिये गये हैं उक्त प्रकार के स्थानों में उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत ग्रीक या लैटिन आदि के शब्दों या रूपों में प्रयुक्त सम्बद्ध ध्वनि मूल भारोपीय का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के अभाव में कहीं-कहीं अवेस्ता

आदि से ही तुलना करके संतोष करना पड़ता है।

सं० अः (1) भारो० 'अ से (भारो० agei, मी० agei, अवे० azaiti, सं० अजतिः ग्री० agros लै० ager, अं० acre, सं० अज्र)। (2) भारो० 'ह्रस्व ओ से (भारो० ' esti, ग्री० esti लै० est अवे० astiya अस्तिय, सं० अस्ति, लै० equus अवे० अस्प, सं० अश्व)। (3) भारो० ह्रस्व ओ से (भारो० potis, ग्री० posis, लै० potis, अवे० पइतिश्, सं० पतिः, ग्री० domos लै० domus, रूसी dom, सं० दम)। (4) भारो० ञ से (भारो० ' tntos ग्री० tatos सं० ततः) (5) भारो० म् से (भारो० dekm ग्री० deka लै० decem गोथिक taihum सं० दश)।

सं० आः (1) भारो० 'आ (दीर्घ) से (भारो० mater, ग्री० mater, लै० mater, अवे० मातर, सं० मातृ)। (2) भारो० ' ए (दीर्घ) से (ग्री० men लै० mensis, सं० मास)। (3) भारो० 'ओ (दीर्घ) से (लै० vox, अवे० वाक्श, सं० वाक्)। (4) भारो० 'न् (दीर्घ) से (भारो० ' gntos मी० gnotos, अवे० जातो, सं० जातः)। (5) भारो० 'म (दीर्घ) से (भारो० ' ghs ग्री० Khthon अवे० ज, सं० क्षाः)।

सं० इः (1) भारो० 'अ से (भारो० ' Peter मी० pater अवे० पितर, सं० पितृ)। (2) भारो० 'इ से (भारो० idh ग्री० इथ, अवे० इद, सं० इह, पा० इध)। (3) भारो० 'ऋ से (भारो० ' grre अवे० गइरिः सं० गिरि)।

सं० ईः (1) भारो० 'ई से (ग्री० pion सं० पीवन्)

सं० उः (1) भारो० 'उ से (भारो० ' daughter ग्री० thugater फा० दुखतर, सं० दुहित्)।

(2) भारो० 'ऋ से (भारो० ' grus अवे० गोरूए सं० गुरू)

सं० ऊः भारो० 'ऊ से (प्राचीन स्लाव द्यू ; (dymu) रूसी दइउम, सं० धूम, लै०)।

सं० ऋः (1) भारो० 'ऋ से (भारो० ' prskhati, सं० पृच्छति, प्राचीन उच्च जर्मन orscon)। (2)

भारो० 'लृ से (भारो० ' plhu, मी० plaus, , अवे० परथु, सं० पृथु)।

सं० ऋः मूलतः भारो० से नहीं आया है। ह्रस्व इ एवं ह्रस्व उ से अन्त होने वाले शब्दों में षष्ठी बहुवचन में दीर्घ करने (सखि-सखीनाम्, गुरू-गुरूणाम्) की प्रवृत्ति थी। इसी के सादृश्य पर ह्रस्व ऋ से अन्त होने वाले प्रातिपादकों के रूपों में दीर्घ ऋ (धातृ - धातृणाम्, धातन्, पितृ-पितृणाम् आदि) की प्रवृत्ति चल पड़ी, और इस प्रकार ऋ का विकास सादृश्य के कारण हुआ।

सं० लृ: भारो० 'लृ से (अवे० krp सं० क्लृप्)।

सं० ए: (1) भारो० 'अइ से (ग्री० daipher रूसी देविर् सं० देवर)। (2) भारो० 'एइ से (लिथुवानियन eiti, , सं० एति)। (3) भारो० 'ओ (ह्रस्व) से (ग्री० oida, रूसी वेद, सं० वेद, अवे० वएद)।

सं० ओ: (1) भारो० 'अउ से (ग्री० auos, लिथु sausas रूसी सुख - सं० शोष-) (2)

भारो० 'एउ से (ग्री० euo, सं० ओषति)। (3) भारो० 'ओउ से (jouk, लिथु laukas, , सं० लोक)।

सं० ऐ: भारो० के 'आइ, 'एइ, 'ओइ इन तीन संयुक्त स्वरों से। अर्थात् इ-अंत्य उन संयुक्त स्वरों से जिनके प्रारम्भ में दीर्घ स्वर (आ,ए,ओ) थे (ग्री० eleipsa, सं० अरैक्ष्म)।

सं० औ: भारो० के 'आउ, 'एउ, 'ओउ, इन तीन संयुक्त स्वरों से। इनमें प्रथम स्वर दीर्घ है, तथा दूसरा ह्रस्व उ (ग्री० bous, सं० गौ: ग्री० naus, सं० नौ)।

सं० क्, ख्, ग्, घ्: भा० यू० में कवर्गीय ध्वनियाँ तीन थीं -- कंठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठतालव्य। प्रथम दो वर्गों का विकास प्रायः सं० कवर्ग में (परवर्ती स्वर के अग्र होने की स्थिति अपवाद है) हुआ है। (लै० coxa सं० कक्ष, भारो० makhos सं० मख, ग्री० zugon, सं० युगम: भारो० ghwono सं० धन) यों यदि विस्तार में जाएँ तो ख् और घ् के विकास में कुछ विवाद तथा अनियमितताएँ भी हैं।

सं० च्, छ्, ज्, झ्: च्, ज् का विकास उन कंठ्य या कंठोष्ठ्य क्, ग् से माना जाता है, जिनके बाद अग्रस्वर हों: भारो० kwe, लै० que सं० च, भारो० ' gwiwos सं० जीव। छ प्रायः अग्रस्वर के पूर्व आने वाले स्ख (ग्रीक skia सं० छाया) से आया है। 'झ' ध्वनि भारोपीय से विकसित शब्दों में नहीं मिलती। यह अनुकार, झंकार, झंझा, झरण आदि या मुंडा (झुंटा) एवं द्रविड़ आदि से आगत शब्दों में ही मिलती है। कुछ भारत-ईरानी शब्द भी कदाचित् भारत में झ-युक्त (अवे० ग्जरइति, सं० 'झरति) हो गये। क् ग् से च्, ज् के विकास के कारण ही अनेक शब्दों में एक ध्वनि दूसरे के स्थान पर (वाच, वाक्, युज-युग) आ जाती है।

सं० ट्, ठ्, ड्, ढ्: सं० में ये ध्वनियाँ या तो उन शब्दों में मिलती हैं, जो द्रविड़ आदि आर्येतर भाषाओं से आये हैं। (इस प्रकार द्रविड़ प्रभाव या देन हैं) जैसे कुटि, कठिन आदि, या फिर भारोपीय शब्दों की 'त्, 'थ, 'ज्द (nis (उच्चरित रूप z) da > नीड) 'ज्ध् (astos (उच्चरित रूप z)

dhwam > अस्तोड्वम) ध्वनियों से विकसित हुई हैं। त् ध्वनि 'र्' 'क्य (इसका संस्कृत रूप श मिलता है), तथा अप्रस्वर के पूर्ववर्ती 'ग्, 'घ् (कंट्य या कंठोष्ठ्य) ()सं० में इसका विकास ज्, ह् रूप में हुआ है) के सम्पर्क से ही प्रायः ट् हुई है: 'कतुस > सं० कटु। भारो० 'थ ध्वनि भी इसी प्रकार र आदि के प्रभाव से ट् में विकसित हुई है: gwrthod > जठर। ऋग्वेद में स्वर मध्यम ड् ढ् ही ळ् ल्ह हो गये हैं। सं० त् थ् द् ध्: ये भारो० 'त्, 'थ्, 'द्, 'ध् से ही प्रायः विकसित हुए हैं ग्री० तनु सं० तनु: भारो० rothos अवे० रथ, सं० रथ: भारो० ' dekm सं० वक्ष: भारो० ' dhedhore सं० द्वार।

सं० प् फ् ब् भ्: ये भारो० 'प्, 'फ्, 'ब, 'भ से ही प्रायः निकले है: भारो० पेन्क्वे सं० पंच: भारो०

phallo सं० फल: भारो० barghis सं० बर्हि: भारो० obhrus सं० भ्रू

सं० ड्, ज्, ण्, न्, म्: भारो० 'न, 'म से ही न्, म् विकसित हैं: भारो० nizda > नीड: भारो० gwegwome > सं० जगाम। ज्, ' उस ड् से आया है जो क्, ज् आदि होने वाले क्, ग् आदि के पूर्व था: भारो० 'पेडक्वे > सं० पंच्। 'ड, भारो० 'ड है। ण् या तो द्रविड़ शब्दों में है। या र आदि से प्रभावित न है।

सं० य्, र्, ल्, व्: भारो० के अपने अनुरूप अंतस्थों से विकसित हुए हैं। यों र्, ल्, का आपसी परिवर्तन भी मिलता है। सम्भवतः रलयोरभेद: अत्यन्त प्राचीन काल से है। व् ध्वनि कंठोष्ठ्य कवर्ग से भी विकसित हुई है। भारो० ' yugom सं० युगम्, भारो० ' klu सं० श्रू:, भारो० ' ugra सं० उग्र, भारो० phallo , सं० फल, भारो० skwos सं० अश्व।

सं० स्, ष्, श्: भारो० 'स से सं० रा: भारो० menos, सं० मनस्। भारो० 'स् ध्वनि अ या आ को छोड़ अन्य स्वरों के पूर्व होने पर प्रायः ष् हो गई है। -- 'स +उ = षु (भानुषु) दंत्य ध्वनियों के 'ट' होने पर उनके प्रभाव से तथा कुछ अन्य परिस्थितियों में भी समीपवर्ती 'स्' 'ष्' हो गया है। भारो० कंट्य - तालव्य 'क् सं० में श हो गया है: भारो० dedorke सं० ददर्श।

सं० व - यह भारो० 'व का ही विकसित रूप है।

सं० ह् अघोष ह् (विसर्ग)-भारो० के पदांत 'स तथा 'र् से निकला है: भारो० ' potis सं० पति:। घोष ह् तीनों घ, 'घ तथा 'भ् से विकसित हुआ है: ghwnti सं० हन्ति, ' idh सं० इह, अवे० इद्, - grbh . सं० मह।

ऊपर संस्कृत ध्वनियों का विकास, मूल भारोपीय भाषा को आधार दिखाया गया है। मूल भारत-

ईरानी के आधार पर भी ध्वन्यात्मक विकास की कुछ प्रमुख बातें यहाँ देखी जा सकती हैं। इसमें इस बात का पता चल जायगा कि भारतीय आर्य भाषा में, ईरानियों से अलग होने के बाद क्या-क्या प्रमुख परिवर्तन हुए तथा प्राचीन ईरानी में हुए परिवर्तनों से वे कितने भिन्न थे। प्रमुख बातें ये हैं: (1) मूल भारत ईरानी जो 'ज़ तथा 'ज ध्वनियाँ थीं, प्राचीन ईरानी से क्रमशः ज़ तथा ज् हो गई, किन्तु संस्कृत में ज् का तो ज् रहा ही, साथ ही 'ज़ का भी ज (अवे० जानु, सं०, जानु, प्राचीन फ़ा० जीव) हो गया। इस प्रकार इन दोनों ध्वनियों के स्थान पर एक ध्वनि हो गई, (2) भारत ईरानी का 'ज ईरानी में तो बना रहा किन्तु संस्कृत में उसका लोप हो गया: भारत-ईरानी का 'मेज़्या, सं० मेधा, अवे० मज्दा.. (3) 'ज़ह (झ) तथा ज़ह ईरानी में ज् हो गये, किन्तु संस्कृत में ह हो गये: सं० हिम, अवे० जिमा (4) ग़ह, ब़ह जैसे घोष, संस्कृत में आकर अघोष हो गये, किन्तु ईरानी में यह अघोषत्व नहीं आया: सं० दिप्स्, अवे० दिब्ज़। (5) महाप्राण ध्वनियाँ संस्कृत में तो न्यूनाधिक रूप से आईं किन्तु ईरानी में प्रायः उनका अल्पप्राण रूप हो गया या संघर्षी: सं० रथ, अवे० रथ्, सं० शफ, अवे० सफ: सं० भरति, अवे० वरइति। (6) भारत-ईरानी 'अइ, का प्राचीन फ़ा० में 'अइ' ही रहा, किन्तु अवेस्ता में यह अ हो गया एवं सं० में ए: मूल भा० यू० eitiya = वह जाता है, प्राचीन फ़ा० aitiy, सं० एति। (7) भारत - ईरानी 'अउ का प्राचीन फ़ा० में 'अउ' ही रहा किन्तु अवे० में अओ या आउ हो गया और संस्कृत में ओ: प्राचीन फ़ा० रउच, सं० रोचस्, अवे० ओचो।

4.4.3 प्राचीन वैदिक भाषा के स्वराघात:-

मूल भारोपीय भाषा में स्वराघात बहुत महत्वपूर्ण था। आरम्भ में वह बलात्मक था, जिसके कारण मात्रिक अपश्रुति विकसित हुई, किन्तु बाद में वह संगीतात्मक हो गया, जिसने गुणिक अपश्रुति को जन्म दिया। इस भाषा-परिवार के विघटन के समय स्वराघात केवल उदात्त तथा स्वरित था। भारत - ईरानी स्थिति में अनुदात्त भी विकसित हो गया। इस प्रकार वैदिक संस्कृति को परम्परागत रूप से अनुदात्त, उदात्त एवं स्वरित तीन कार के स्वराघात (संगीतात्मक) प्राप्त हुए थे। स्वराघात का इतना अधिक महत्व था कि सभी संहिताओं, कुछ ब्राह्मणों एवं आरण्यकों तथा वृहदारण्यक आदि कुछ उपनिषदों की पांडुलिपियाँ स्वराघात-चिह्निति मिलती हैं और बिना स्वराघात के वैदिक छन्दों को पढ़ना अशुद्ध माना जाता है। स्वराघात के कारण शब्द का अर्थ भी बदल जाता था। 'इन्द्रशत्रुः' वाला प्रसिद्ध उदाहरण सर्वविदित है: इन्द्र, शत्रु है (बहुब्रीहि), इन्द्रशत्रु = इन्द्र का शत्रु (तत्पुरुष)। शब्द आदि के अर्थ जानने में स्वराघात का कितना महत्व था, यह बेंकट माधव के 'अंधकारे दीपिकाभिर्गच्छन्न स्खलति क्वचित्। एवं स्वैः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इव' (अर्थात् जैसे अन्धकार में दीपकों की सहायता से चलता हुआ कहीं ठोकर नहीं खाता, उसी प्रकार स्वरो

(स्वराघात) की सहायता से किये गये अर्थ स्फुट और संदेहशून्य होते हैं) कथन से स्पष्ट है। स्वराघात में परिवर्तन से कभी-कभी लिंग में भी परिवर्तन हो जाता था।

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है वैदिक स्वराघात तीन प्रकार के थे: उदात्त अर्थात् उच्च, अनुदात्त अर्थात् निम्न तथा स्वरित अर्थात् मध्या उदात्त, अनुदात्त तो स्पष्ट है, किन्तु स्वरित विवादास्पद है (दे० लेखक के ग्रन्थ 'भाषा-विज्ञान कोश' में 'स्वरित')। यों मोटे रूप से 'समाहारः स्वरितः' के आधार पर स्वरित को उदात्त तथा अनुदात्त का समाहार कहा जा सकता है।

वैदिक साहित्य में स्वराघात के अंकित करने की कई पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि में प्रायः उदात्त अचिह्नित मिलता है, अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा खींचते हैं तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा, जैसे अग्रिना । सामवेद में उदात्त के लिए 1, स्वरित के लिए 2, तथा अनुदात्त के लिए 3, लिखने की परम्परा रही है। ब० 3 हि० 21 शतपथ ब्राह्मण आदि में केवल उदात्त को चिह्नित करते रहे हैं: पुरुषः।

ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक में मूल स्वराघात प्रायः उसी अक्षर पर है, जिस पर मूल भारोपीय में था: ग्रीक Tatos सं० तत, स, किन्तु विस्तार में बहुत अन्तर है। पहले लोग संस्कृत स्वराघात को मूल भारोपीय सा मानते थे, किन्तु अब इस दृष्टि से ग्रीक समीप मानी जाती है।

वैदिक भाषा में प्रायः सभी शब्दों या पदों पर स्वराघात होता है। कुछ च, वा, इव से स्वाघातयुक्त से शब्द स्वराघातशून्य होते हैं। यों बहुत से ऐसे भी रूप होते हैं जो कुछ स्थितियों में तो स्वराघातयुक्त होते हैं, और कुछ में स्वराघातशून्य। उदाहरणार्थ सम्बोधन का रूप यदि वह वाक्यारम्भ में न हो तो प्रायः स्वराघातशून्य होता है। वैदिक संस्कृत में प्रातिपादिक, समास, संधि, कारकरूप, क्रिया तथा नामधातु आदि के स्वराघात के नियम अलग-अलग हैं।

टर्नर के अनुसार वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात था।

रूप-रचना:-

वैदिक भाषा में लिंग तीन थे: पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन भी तीन थे: एक०, द्वि०, बहु०। कारक आठ थे: कर्ता, सम्बोधन, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण।

सामान्य कारक विभक्तियाँ ये थीं-

एकवचन

द्विवचन

बहुवचन

पु० स्त्री०	नपुं०	पु० स्त्री०	नपुं०	पु०	स्त्री०	नपुं०
कर्ता-	स्	-म्	-औ	-ई	-अस्	-नि,-इ
सम्बो०-	स्	-	-औ	-ई	-अस्	-नि,-इ
कर्म-	-अम्	-	-औ	-ई	-अस्	-नि,-इ
करण-	आ,-एन	-आ,-एन	-भ्याम्	-भ्याम्	-भिस्	-भिस्
सम्प्र०-	-ए	-ए	-भ्याम्	-भ्याम्	-भ्यस्	-भ्यस्
अपा०-	-अस्	-अस्	-भ्याम्	-भ्याम्	-भ्यस्	-भ्यस्
सम्बन्ध	-अस्	-अस्	-ओस्	-ओस्	आम्	आम्
अधि०-	-इ	-इ	-ओस्	-ओस्	सु	सु

विशेष (1) अकारान्त शब्दों को छोड़कर अन्य अपने मूल रूप में ही कर्ता एक० नपुं० में आते हैं। अकारान्त में -म् लगता है। (2) सम्बोधन के रूप केवल स्वरांत स्त्री० पु० एकवचन छोड़कर प्रायः कर्ता के रूपों के समान होते हैं। -मन्, -अन्, -मंत, -वंत, आदि कई स्वरान्त प्रातिपादिक (पुं० एक०) भी अपवाद हैं।

उपर्युक्त रूपों में अधिकांश मूल भारोपीय-विभक्ति से सीधे आये हैं, और प्रयोग एवं रूप की दृष्टि से उनके समीप हैं। जैसे 'स से स (अवे० श, मी० स आदि), 'म् से द्वितीया -अम् (ग्री० -न्, -अ, अवे० -अम् आदि), चतुर्थी 'अइ, एइ से ए (ग्री० ओइ), 'एस, 'ओस् से अस्, द्विवचन 'ओ से ओ, बहु० -अस 'ओस् से, 'भास से भ्यस्, तथा 'स् से सु आदि करण बहु० -एभिः (देवेभिः) में 'ए' सर्वनामों से आया है। विशेषणों के रूप भी संसा की तरह चलते थे।

तुलना के लिए -तर (ग्री० तें रों, लैटिन तेंर, अवे० तर) एवं तम (लैटिन-तिमो, अवे० तम) क्रमशः मूल भारोपीय भाषा के 'तो प्रत्यय से सम्बन्धित हैं। -र तथा -म मूलतः स्वतन्त्र प्रत्यय थे, बाद में 'तो में जुड़कर -तर, -तम आदि हो गये। इसी प्रकार इयांस् (ग्री० ईओंस, योंस्, लैटिन ior अवे० -यह् -) तथा इष्ठ (ग्री० इस्तों, अवे० इश्त) क्रमशः मूल भारोपीय 'यों स् एवं 'इस्थ से विकसित है।

मूल भारोपीय में सर्वनाम के मूल या प्रातिपादिक बहुत अधिक थे। विभिन्न बोलियों में कदाचित्

विभिन्न मूलों के रूप चलते थे। पहले सभी मूलों से सभी रूप बनते थे, किन्तु बाद में मिश्रण हुआ और अनेक मूलों के अनेक रूप लुप्त हो गये। परिणाम यह हुआ कि मूलतः विभिन्न मूलों से बने रूप एक ही मूल के रूप माने जाने लगे। वैदिक भाषा में उत्तम पुरुष में ही, यद्यपि प्राचीन पंडितों ने 'अस्मद्' को सभी रूपों का मूल माना है, किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो अह- (अहम्), म- (माम्, मया, मम, मयि), आव (आवम्, आवाम्, वाम्, आवयोः), वय (वयं), अस्म (अस्माभिः, अस्मभ्यम्, अस्मे आदि), इन पाँच मूलों पर आधारित रूप हैं। मध्यम आदि अन्य सर्वनामों में भी एकाधिक मूल हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वनामों के पीछे अनेक मूल रूपों की परम्परा है। अधिकांश सर्वनामों की परम्परा मूल भारोपीय भाषा तक खोजी गई है। जैसे भारो 'eghom' से अहम् (अवे० अज़ेम, लैटिन ego, पुरानी चर्च स्लाव अज़ु आदि), 'uei' से वयम् (अवे० वएम) या tu से तू (लै० तू, प्राचीन उच्च जर्मन दू, प्राचीन आइरिश तू, अवे० तू) आदि। सर्वनामों की कारकीय विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं जैसी ही हैं।

वैदिक भाषा में धातुओं के रूप आत्मने(middle), परस्मै (Active) दोनों पदों में चलते थे।

कुछ धातुएँ आत्मनेपदी, कुछ परस्मैपदी एवं कुछ उभयपदी थीं। आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग केवल अपने लिए होता था तथा परस्मै का दूसरों के लिए। क्रियारूप तीनों वचनों (एक०, द्वि०, बहु०) एवं तीनों पुरुषों (उत्तम, मध्यम, अन्य) में होते थे। काल तथा क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के कुल 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है: लट् (Present), लङ्(imperfect), लिट्(perfect), लुङ्(aorist), लृट्, निश्चयार्थ (indicative), सम्भावनार्थ (subjunctive लेट्), विध्यर्थ(injunctive), आदरार्थ आज्ञार्थ(oypative), तथा अज्ञार्थ (impertive लोट्) ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में लेट् का प्रयोग बहुत मिलता है, किन्तु धीरे-धीरे इसका प्रयोग कम होता गया और अन्त में लौकिक संस्कृत में पूर्णतः समाप्त हो गया। वैदिक में भविष्य के बहुत कम है। उसके स्थान पर प्रायः सम्भावनार्थ या निश्चयार्थ का प्रयोग मिलता है। क्रिया - रूपों में तीन विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं - (1) कुछ रूपों में धातु के पूर्व भूतकरण आगम अ- या - आ आता था (लङ्, लुङ्, लृङ् में)। (2) धातु तथा तिङ् प्रत्ययों के बीच, कुछ धातुओं में विकरण जोड़े जाते थे। विकरण के आधार पर धातुओं के दस गण या वर्ग थे। जुहोत्यादि एवं अदादिगण विकरण रहित थे, शेष में निम्नांकित विकरण थे: भ्वादि में -उ-, दिवादि में -य-, स्वादि में -नु-, तुदादि में स्वराघातयुक्त -अ-, रूधादि में -न-, तनादि में -न-, क् यादि में -ना-, तथा चुरादि में -अय-। (3) इच्छार्थक(desiderative), अतिशयार्थक(intensive), लट् (कुछ धातुओं में), लिट्, लुङ् (एक रूप में) में द्वित्व का प्रयोग होता है। इसमें महाप्राण के द्वित्व में महाप्राण का अल्पप्राण हो जाता है

(‘भी’ से ‘बिभी-’), कंट्य का वर्ग के क्रमानुसार तालव्य (‘गुह’ के ‘जुगूह’) हो जाता है, तथा अन्य स्थानों पर प्रायः द्वित्व (‘बुध’ से बु-बुध्) होता है। यदि ऊष्म से धातु का आरम्भ हो तथा बाद में अघोष ध्वनि हो तो वही ध्वनि फिर आ जाती है, यदि वह महाप्राण हो तो उसका अल्पप्राण हो जाता है, तथा कंट्य हो तो तालव्यः स्था- तस्था, स्कन्द-चस्कन्द, स्वज्-सस्वज्।

4.4.4. प्राचीन वैदिक भाषा के समासः

समास रचना की प्रवृत्ति मूल भारोपीय एवं भारत - ईरानी में भी थी। वहीं से यह परम्परा वैदिक संस्कृत में आई। वैदिक में समस्त पद प्रायः दो शब्दों के ही मिलते हैं। इससे अधिक शब्दों के समास अत्यन्त विरल है। जहाँ तक समास के रूपों का प्रश्न है, वैदिक में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वन्द्व, ये चार ही समास मिलते हैं। लौकिक संस्कृत के शेष दो बाद में विकसित हुए हैं।

4.4.5. प्राचीन वैदिक भाषा के शब्दः

वैदिक भाषा में शब्दों की दृष्टि से दो बातें उल्लेख्य हैं। एक तो यह कि अनेक तथाकथित मूल शब्द से विकसित या तद्भव शब्द प्रयुक्त होने लगे। वेदों में यह ‘इह’ (यहाँ) इसी प्रकार का है। इसका मूल शब्द ‘इध’ है। पालि ‘इध’ और अवेस्ता ‘इद’ इस बात के प्रमाण हैं कि महाप्राण व्यंजन के स्थान पर ‘ह’ के विकास से ‘इध’ से ही ‘इह’ बना है।

कट (मूल शब्द कृत), एकादश (मूल एकादश) भी इसी प्रकार के शब्द हैं। ‘विशति’ भी मूलतः ‘द्विशति’ रहा होगा, यद्यपि यह विकार भारत में आने के पहले ही आ चुका था। शब्दों की दृष्टि से दूसरी विशेषता यह है कि उस काल में ही भाषा में अनेक आर्यतर शब्दों का आगमन होने लगा था। उदाहरण के लिए वैदिक भाषा में अणु, अरणि, कपि, काल, गण, नाना, पुष्कर, पुष्प, मयूर, अटवी, तंडुल मर्कट आदि शब्द एक ओर यदि द्रविड़ से आये हैं, तो वार, कंबलवाण, कोसल (स्थानवाचीनाम), अंग (स्थानवाचीनाम) आदि आस्ट्रिक भाषा से।

4.4.6. प्राचीन वैदिक भाषा की प्रमुख बोलियाँ:

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि आर्य कदाचित् एकाधिक टोलियों में भारत में आये और इन टोलियों में भी आपस में कुछ भाषिक विभिन्नता थी। इसका आशय यह है कि ‘आर्य भाषा’ के भारत में आने के पहले ही उसमें सच्चे अर्थों में भाषिक एकरूपता नहीं थी। उदाहरण के लिए विद्वानों का विचार है कि मूल भारोपीय के र, ल भारत -ईरानी में प्रायः ‘र’ ही हो चुके थे, और भारतीय आर्य भाषा में फिर नये सिरे से ‘र’ ध्वनि अनेक शब्दों में ‘ल’ में विकसित हो गई। यही कारण है ऋग्वेद में

‘ल’ ध्वनि ‘र’ की तुलना में बहुत कम मिलती है तथा परवर्ती साहित्य में धीरे-धीरे उसमें वृद्धि हुई है। यों मेरा विचार है कि प्रमुख भारत-ईरानी में तो मूल भारोपीय के र् ल् का विकास ‘र्’ में हो चुका था, किन्तु उस समय भी कुछ टोलियाँ या बोलियाँ ऐसी थीं, जिनमें ‘ल्’ ध्वनि पूर्णतः लुप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार कुछ दृष्टियों से अनेकरूपताओं से युक्त भारतीय आर्य भाषा भारत में आई, और यह ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर फैलती गई, इसका स्वरूप स्थानीय भाषाओं के प्रभाव के कारण बदलता गया। ब्राह्मण ग्रंथों से इस बात का पता चलता है कि वैदिक काल में प्राचीन आर्य भाषा के कम-से-कम तीन रूप - या तीन बोलियाँ - अवश्य थीं: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी। प्रथम अफ़गानिस्तान से लेकर पंजाब तक था, दूसरा पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक तथा तीसरा उसके पूर्वी। यदि र्-ल् दोनों थे, और पूर्वी ल्-प्रधान थी। ऋग्वेद में पश्चिमोत्तरी बोली का ही प्रतिनिधित्व हुआ है। पश्चिमोत्तरी बोली में स्थानीय प्रभाव प्रायः बहुत कम पड़ा था, क्योंकि स्थानीय आर्येतर जातियाँ कुछ अपवादों को छोड़कर, वहाँ से भागकर दक्षिण पूर्व चली गई थीं। इसी कारण पश्चिमोत्तरी बोली को आदर्श माना गया। उसे उस समय ‘उदीच्य’ या ‘उत्तरी’ कहते थे। कौशीतकि ब्राह्मण (7-6) में आता है: तस्मादुदीच्यां प्रज्ञाततरा वायुद्यते। उदश्च उ एव यन्ति वाचं शिक्षितुम्। यो वा तत आगच्छति, तस्य या शुश्रूषन्त इति। अर्थात् - उत्तर में अधिक विश्रुता से, या प्रामाणिक भाषा बोली जाती है। उत्तर दिशा में ही बोलना सींचने जाते हैं। जो वहाँ से आता है, उससे सुनना चाहते हैं। मध्यदेशीय विशेषतः पूर्वी लोग संयुक्त व्यंजन, स्वराघात, सन्ति में तो गड़बड़ी करते ही थे, साथ ही ‘र्’ का ‘ल्’ भी कर देते थे। शतपथ ब्राह्मण (3-2-1-23) में कहा गया है: तेऽसुरा आत्तवसचो हेऽलव हेऽलव इति वदन्तः परावभूवुः। पतंजलि ने अपने महाभाष्य (स्पशाह्निक) में भी इसी को दोहराया है: तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभूवुः। अर्थात् वे असुर ‘हे, अरयः’ के स्थान पर ‘हेलयः हेलयः’ उच्चारण करते हुए पराभव को प्राप्त हुए। यहाँ भी र् ल् की ओर संकेत है। इसी प्रकार उधर य् के स्थान पर व् उच्चरित करने की प्रवृत्ति भी थी।

किन्तु भाषा के ये तीन रूप सामान्य लोगों में थें। पण्डितों की भाषा एक सीमा तक परिनिष्ठित थी, और उपलब्ध वैदिक साहित्य में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः उसी का साहित्यिक रूप मिलता है।

4.4.7 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वैदिक भाषा:-

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के प्रथम रूप वैदिकके भी दो रूप मिलते हैं। पहला रूप ऋग्वेद के प्रथम एवं दसवें मंडल को छोड़कर अन्य मण्डलों तथा अन्य प्राचीन ऋचाओं आदि की भाषा में है तथा दूसरा उक्त दो मण्डलों में, अन्य वेदों में के परवर्ती भागों में, तथा आरण्यकों, उपनिषदों आदि में।

वैदिकी के इन दोनों रूपों में प्रमुख अन्तर निम्नांकित हैं:-

4.4.8. पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वैदिक भाषा की ध्वनियाँ:-

(1) टवर्गीय ध्वनियाँ पूर्ववर्ती में बहुत कम हैं पर परवर्ती में उनका अनुपात बढ़ गया है। (2) पूर्ववर्ती में र् का प्रयोग अधिक है, किन्तु परवर्ती में ल् का प्रयोग भी पर्याप्त है। ऐसे शब्द भी हैं जिनमें पूर्ववर्ती वैदिकी में र् ध्वनि है तो परवर्ती में ल् ध्वनि-रोमन्-लोमन्, मूर्च-म्लुच। (3) यह संकेत किया जा चुका है कि वैदिकी में प्राचीन घ्, ध्, भ् आदि महाप्राणों का 'ह्' हो रहा था। यह प्रवृत्ति इस काल में भी काम कर रही थी। इसीलिए प्राणों के स्थान पर 'ह' पूर्ववर्ती भाषा में कम मिलता है, किन्तु परवर्ती में अपेक्षाकृत अधिक है। उदाहरणार्थ प्राचीन वैदिक गृभाण, परवर्ती वैदिक संस्कृत गृहाण। इसी प्रकार पूर्ववर्ती आज्ञार्थ -घि (तिङ् प्रत्यय) के स्थान पर परवर्ती में -हि मिलता है।

4.4.9. पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वैदिक भाषा का व्याकरण:-

व्याकरणिक दृष्टि से भी कई अन्तर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम एवं धातु के रूपाधिक्य एवं अपवाद परवर्ती में बहुत कम हो गए हैं, और परवर्ती की भाषा वैदिकी को छोड़कर लौकिक संस्कृत की ओर बढ़ती चली आ रही है। पूर्व वैदिकी में देवाः देवैः के अतिरिक्त देवासः, देवेभिः रूप भी हैं, किन्तु परवर्ती में देवासः, देवेभिः जैसे रूप अत्यन्त विरल हो गये हैं। 'अश्विना' जैसे द्विवचन रूप भी परवर्ती में प्रायः नहीं मिलते। पुरापने कृणुमः जैसे रूपों के स्थान पर परवर्ती में कुर्मः जैसे रूप मिलते हैं। यह वस्तुतः ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारण हुआ है। 'नु विकरण में न् के लोप के कारण 'उ' रह गया है। अन्य भी इस प्रकार के अनेक रूपीय अन्तर हैं।

शब्दः शब्दों के क्षेत्र में सबसे प्रमुख बात यह हुई कि अनेक पूर्ववर्ती शब्द समाप्त हो गए, और वे परवर्ती वैदिकी में नहीं मिलते। ईम, वीति, विचर्षणि ऐसे ही शब्द हैं। इसके विरुद्ध परवर्ती वैदिकी में अनेक ऐसे शब्द प्रयुक्त होने लगे जो पूर्ववर्ती में नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त यों तो पूर्ववर्ती वैदिकी में भी आस्ट्रिक, द्रविड़ आदि शब्द आ गए थे, किन्तु उसकी संख्या अत्यल्प थी, पर, परवर्ती वैदिकी में उनकी संख्या अपेक्षाकृत बढ़ गई।

ऊपर जो बातें पूर्ववर्ती वैदिकी तुलना में परवर्ती वैदिकी में की गई हैं, परवर्ती वैदिकी या वैदिकी की तुलना में लौकिक संस्कृत या संस्कृत में भी प्रायः उन्हीं का आधिक्य मिलता है।

4.4.10 प्राचीन लौकिक संस्कृतः

इसे 'लौकिक संस्कृत' तथा 'क्लैसिकल संस्कृत' भी कहते हैं। भाषा के अर्थ में 'संस्कृत' (संस्कार

की गई, शिष्ट या अप्रकृत) शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वैदिक काल में भाषा के तीन भौगोलिक रूपों - उत्तरी, मध्यदेश, पूर्वी- का उल्लेख किया जा चुका है। लौकिक संस्कृत का मूल आधार इनमें उत्तरी बोली थी, क्योंकि वही प्रामाणिक मानी जाती थी। पाणिनी ने अन्यो के भी कुछ रूप आदि लिए हैं और उन्हें वैकल्पिक कहा है। इस प्रकार मध्यदेशी तथा पूर्वी का भी संस्कृत पर कुछ प्रभाव है। लौकिक या क्लैसिकल संस्कृत साहित्यिक भाषा है, अतः जिस प्रकार हिन्दी में जयशंकर प्रसाद की गद्य या पद्य भाषा को बोलचाल की भाषा नहीं कर सकते, उसी प्रकार संस्कृत को भी बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार प्रसाद जी की भाषा का आधार परिनिष्ठित खड़ी बोली हिन्दी है, जो बोलचाल की भी भाषा है, उसी प्रकार पाणिनीय संस्कृत भी तत्कालीन पण्डित समाज की बोलचाल की भाषा पर ही आधारित है। पाणिनी द्वारा उसके लिए 'भाषा' (भाष् = बोलना) शब्द का प्रयोग, सूत्र 'प्रत्यभिवादेऽशूद्रे' दूर से बुलाने में 'प्लुत' के प्रयोग का उनके द्वारा उल्लेख, बोलचाल के कारण विकसित संस्कृत को व्याकरण की परिधि में बाँधने के लिए कात्यायन द्वारा वार्तिकों की रचना, ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि संस्कृति कभी बोलचाल की भाषा थी। अतः हार्नले, वेबर तथा ग्रियर्सन आदि पश्चिमी विद्वानों का यह कथन कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, निराधार है। संस्कृत, भारतीय भाषाओं (आर्य तथा आर्येतर) की जीवनमूल तो रही है, साथ ही तिब्बती, अफगानिस्तानी, चीनी, जापानी, कोरियाई, सिंहली, बर्मी तथा पूर्वी द्वीप-समूह की भी अनेकानेक भाषाओं को इसने अनेक-विशेषतः शब्दिक-स्तरों पर प्रभावित किया है।

ऊपर वैदिक भाषा की प्रमुख विशेषताएँ उल्लिखित हैं। लौकिक संस्कृत उससे मूलतः बहुत अधिक

भिन्न नहीं है। इसीलिए इसकी सभी विशेषताओं को विस्तार से अलग गिनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तरों का ही उल्लेख किया जा रहा है।

4.5. वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अन्तर के कारण:-

कारण --दोनों में अन्तर के प्रमुख कारण ये हैं:

- (1) वैदिक भाषा का बहुत कुछ स्वरूप बाहर से बनकर आया था, और उसमें यहाँ जो कुछ परिवर्तन हुए थे भारतीय वातावरण, समाज एवं आर्येतर भाषाओं के तुरंत पड़े हुए प्रभाव से ही उत्पन्न थे, किन्तु संस्कृत भाषा के बनने तक ये प्रभाव बहुत गहरे पड़ चुके थे और उन्होंने संस्कृत भाषा की पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया।
- (2) यहाँ आने पर आर्यों ने नागरिक सभ्यता, द्रविणों से अपनाई, अतः जीवन में अधिक एकरूपता

आई, व्यवस्था बढ़ी। इसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा और उसमें भी एकरूपता आई।

(3) नागरिक जीवन में नियमित पठ-पाठन एवं साहित्य-रचना को प्रोत्साहन मिला, इससे भाषा को एक परिनिष्ठित रूप देना पड़ा। परिणामतः भाषा में परिनिष्ठन आया, अपवाद निकल गए, किन्तु साथ ही उसमें शिष्ट जीवन की कृत्रिमता की गन्ध भी आ गई।

(4) समाज के विकास के साथ-साथ चिन्तन एवं ज्ञान-परिधि में विस्तार हुआ, भाषा का नियमित अध्ययन-विश्लेषण होने लगा, व्याकरण लिखे जाने लगे, लोगों ने सरलता तथा विचारों की सफल अभिव्यक्ति आदि की दृष्टि से भाषा की एकरूपता, नियमितता के महत्व को समझा, अतः पूर्ववर्ती भाषा की जटिलताएँ धीरे-धीरे अपने आप छूट गईं।

(5) ध्वनियों में विकास आर्येतर प्रभावों, आर्येतर लोगों द्वारा उनका ठीक उच्चारण न किये जाने एवं सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण हुआ।

(6) शब्दों में परिवर्तन का कारण था, पुराने जीवन से आगे बढ़ने के कारण अनेक शब्दों का छूट जाना, तथा नए जीवन की अभिव्यक्ति की पूर्ति के लिए नए शब्दों का आगमन। लौकिक संस्कृत में ये नए शब्द कुछ तो द्रविड़, आस्ट्रिक आदि भारतीय भाषाओं से लिए गए, कुछ आवश्यकतानुसार ईरानी, ग्रीक या अरबी आदि से आए तथा कुछ व्याकरण के नियमों या भ्रामक व्युत्पत्ति के आधार पर बन गए, या बनाए गए।

4.6. वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में अन्तरः

जैसा कि पीछे भी संकेत किया जा चुका है, इन दोनों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वैदिक भाषा का, लौकिक की तरह परिनिष्ठीकरण (Standardization) नहीं हुआ था इसी कारण लौकिक, जिस रूप में परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है, वैदिक नहीं है। वैदिक अपने साहित्यिक रूप में भी संस्कृत की तुलना में जनभाषा कहलाने की अधिक अधिकारिणी है। इस स्थिति का प्रभाव दोनों के व्याकरण पर भी पड़ा है। वैदिक में जहाँ परिनिष्ठीकरण एवं नियमन कम होने से रूप की जटिलताएँ हैं, अनेकरूपताओं एवं अपवादों का आधिक्य है, लौकिक में वे या तो हैं ही नहीं, या हैं भी तो वैदिक की तुलना में बहुत ही कम। दूसरे शब्दों में वैदिक भाषा अपने बोलने वालों की तरह ही अधिक स्वच्छन्द है, किन्तु लौकिक अपने अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत एवं नियमित समाज की तरह नियमबद्ध है, एकरूप है, इसी कारण पहली कठिन है तो दूसरी उसकी तुलना में अधिक सरल। दोनों के प्रमुख अन्तर्गत् को कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत देखना अधिक सुविधाजनक होगा। इस प्रसंग में, एक बात की ओर पाठकों का ध्यान मैं विशेष रूप से खींचना चाहूँगा कि आगे जो अन्तर दिये गए हैं, उस प्रकार के छोटे बड़े अन्तर इन दोनों भाषाओं में काफी है। यहाँ केवल नमूने के तौर पर कुछ को ले

लिया गया है। यह सूची अन्तरो की पूरी सूची नहीं मानी जानी चाहिए।

4.6.1. ध्वनि के रूप में:-

- (1) संस्कृत में आकर 'लृ' का लिखने में प्रयोग होता रहा किन्तु, इसका उच्चारण स्वर रूप में न होकर कदाचित् 'लृ' रूप में या इसके बहुत समीप होने लगा था।
- (2) 'ऋ', ऋ भी उच्चारण में वैदिक के विपरीत शुद्ध स्वर नहीं रह गए थे। ये 'रि' 'री' जैसे उच्चरित होने लगे थे।
- (3) ऐ, औ के उच्चारण वैदिक में आइ, आउ थे, किन्तु लौकिक संस्कृत में थे 'अइ', 'अउ' हो गए।
- (4) ए, ओ का उच्चारण वैदिक में 'अइ', 'अउ' था अर्थात् से संयुक्त स्वर थे, किन्तु संस्कृत में ये मूल स्वर हो गए।
- (5) अनेक शब्दों में जहाँ वैदिक में 'र्' का प्रयोग होता था, लौकिक में 'ल्' का प्रयोग होने लगा। यह आर्येतर भाषा भाषियों का प्रभाव था, जिसका प्रारम्भ बहुत पहले हो चुका था।
- (6) लेखन में ळ, ळह ध्वनियाँ समाप्त हो गयी थीं, और इनके स्थान पर ड, ढ प्रयुक्त होने लगे।
- (7) इय उव् के स्थान पर 'य्' 'व्' हो गए थे।
- (8) जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय का ख, फ़ वाला उच्चारण समाप्त हो गया, और उनके स्थान पर विसर्ग का सामान्य उच्चारण होने लगा था।
- (9) विसर्ग वैदिक काल में अघोष था, किन्तु संस्कृत काल में यह कदाचित् सामान्य भाषा में अघोष नहीं रह गया था।
- (10) वैदिकी में 'अनुस्वार' शुद्ध अनुनासिक ध्वनि थी, जिसे कुछ ने व्य'जन तथा कुछ ने स्वर कहा है। लौकिक संस्कृत में अनुस्वार पिछले स्वर से मिलाकर बोला जाने लगा। इस प्रकार मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर में अन्तर हो गया।
- (11) कई ध्वनियों के उच्चारण स्थान में अन्तर आ गया। प्रातिशाख्यों से पता चलता है कि वैदिक तवर्ग ल्, स् दंतमूलीय थे, किन्तु संस्कृत में (लृतुलसानां दन्ताः) ये दंत्य हो गए। र् वैदिक में दन्तमूलीय ही था, किन्तु 'ऋटुरपाणां मूर्धा' से पता चलता है कि संस्कृत में यह कहीं-कहीं मूर्धन्य हो

गया था। वैदिक में तीन 'व'थे, दो अर्धस्वर और एक दन्तोष्ठ्य संघर्षी। 'वकारस्य दन्तोष्ठम' से लगता है कि संस्कृत में केवल एक 'व' दन्तोष्ठ था, किन्तु मेरा अपना विचार है कि तीनों ही लौकिक में थे यद्यपि उनका उल्लेख नहीं है। उनका लोप नहीं हुआ था। 'इग्यणस्सम्प्रसारणम्' में य्, व्, र्, ल् के स्थान पर इ, उ, ऋ, लृ हो जाता है। यहाँ उ से सम्बद्ध वदन्तोष्ठ्य संघर्षी व कभी नहीं हो सकता। यह अन्तःस्थ या अर्धस्वर ही होगा। इस प्रकार संस्कृत में निम्नांकित ध्वनियाँ थीं - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, त्, थ्, द्, ध्, न्, प्, फ्, ब्, भ्, म्, य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, स्, ह्, ह् (विसर्ग), ळ, ळह, व्।

(12) जनभाषा के अधिक निकट होने के कारण वैदिक में स्वर-भक्ति युक्त रूप - जैसे स्वर्गः- सुवर्गः, स्वः-सुवः, तन्वः- तनुवः - भी मिल जाते हैं, किन्तु सच्चे अर्थों में संस्कार की हुई भाषा होने के कारण प्राप्त संस्कृत साहित्य में स्वर्गः, स्वः, तन्वः ही प्रायः मिलते हैं, स्वर-भक्ति वाले रूप नहीं।

4.6.2. स्वराघात के रूप में

वैदिक में संगीतात्मक स्वराघात था। उसके कारण अर्थ में भी परिवर्तन होता था। इन्द्रशत्रु (दे० 0,3,1,1,2)। इसी प्रकार 'ऋतु' का एक प्रकार के स्वराघात में 'बुद्धिमान्' अर्थ था तो दूसरे प्रकार का होने पर बलिदान। स्वराघात के कारण शब्दों के लिंग में भी कभी-कभी अन्तर (अर्थ के साथ-साथ) पड़ जाता था। जैसे उदान स्वर आदि में हो तो ब्रह्मन् का अर्थ है 'प्रार्थना' और यह 'नपुंसकलिंग' है, किन्तु यदि उदात्त स्वर अन्त में हो तो यह पुलिङ्ग होगा, और इसका अर्थ होगा 'स्तोता'। लौकिक में, स्वराघात और उसका अर्थ एवं लिंग आदि की दृष्टि से महत्व, पूर्णतः समाप्त हो गया। इसके विरुद्ध लौकिक में संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात विकसित हो गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बलात्मक स्वराघात के बीज यहीं मिलने लगते हैं।

4.6.3. संधि के रूप में:

संधियों की दृष्टि से भी वैदिक और लौकिक संस्कृत में कुछ अन्तर है। यहाँ केवल दो का उल्लेख किया जा रहा है:

(क) कई स्थानों में, लौकिक संस्कृत में जहाँ प्रकृतिभाव का नियम लगता है, वैदिक में ऐसा नहीं भी होता। जैसे 'रोदसी + इमें' का लौकिक में होगा 'रोदसी इमें' (ये दोनों द्यावा पृथिवी) किन्तु वैदिक में 'रोदसीमे' भी मिलता है।

(2) इसी प्रकार शिवः + अर्च्यः = शिवो अर्च्यः (वैदिक), शिवोऽर्च्यः (लौकिक), या, सः + अर्च्यः = सो अर्च्यः (वैदिक), सोऽर्च्यः (लौकिक)।

4.6.4. कारक विभक्ति के रूप में

इस दृष्टि से भी दोनों कुछ अन्तर है। (क) अकारांत पुल्लिङ्ग के प्रथमा द्विवचन एवं बहुवचन में वैदिक में क्रमशः - औ, -आ तथा- आ, आसः आते हैं, किन्तु लौकिक में केवल -औ तथा-आः। उदाहरणार्थ बहुवचन में वैदिक में देवाः देवासः दोनों हैं, किन्तु लौकिक में केवल देवाः। (ख) तृतीया बहुवचन में इसी प्रकार वैदिक में -ऐः तथा - एभिः दो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, किन्तु लौकिक में केवल -ऐः। जैसे वैदिक में रामैः, रामेभिः या देवैः, देवेभिः, किन्तु लौकिक में केवल रामै, देवैः। (ग) षष्ठी बहुवचन में भी वैदिक में -आम् एवं -आनाम् दो का प्रयोग होता है, किन्तु लौकिक में प्रायः केवल - आनाम् का। (घ) इकारान्त पुल्लिङ्ग में प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन में -ई (द्यावापृथिवी) भी होता है, जबकि लौकिक में केवल - यौ (यण् + औ) - द्यावापृथिव्यौ। (ङ) तृतीया एकवचन में वैदिक में - ई और -या दोनों का प्रयोग मिलता है। (सुष्टुती, सुष्टुत्या), किन्तु लौकिक में केवल दूसरे का। (च) नपुंसक प्रथम तथा द्वितीया बहुवचन में वैदिक में -आ, -आनि (ता, तानि) दोनों आता है, किन्तु लौकिक में केवल -आनि (तानि)। (छ) इसी प्रकार उत्तम तथा मध्यम पुरुष सर्वनाम में अस्मे, त्वे, युष्मे, त्वा आदि कई रूप ऐसे हैं, जो केवल वैदिक में हैं, लौकिक में नहीं। अन्य सर्वनामों में भी ऐसे रूप हैं। (ज) वैदिक में सप्तमी एकवचन में विभक्ति-युक्त शब्दों के अतिरिक्त शून्य विभक्ति वाले रूप भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे व्योम्नि, व्योमन्, किन्तु लौकिक में शून्य वाले रूप भी नहीं हैं। (झ) दस्यु, मन्यु जैसे कुछ रूपों को छोड़कर लौकिक में देवायु जैसे वैदिक रूप नहीं मिलते।

4.6.5. क्रिया के रूप में:-

क्रिया -रूपों में कुछ प्रमुख अन्तर ये हैं -

(क) वैदिक में लकारों में विशेष प्रतिबन्ध नहीं है। लुङ्, लङ् लिट में परोक्षादि का भेद नहीं है। यहाँ तक कि कभी-कभी इनका कालेतर प्रयोग भी मिलता है।

(ख) वैदिक में लुट् के प्रयोग के बारे में सन्देह है। सम्भव है -तृ प्रत्ययांत हो।

(ग) वैदिक का लेट् लौकिक में नहीं है, यद्यपि उसके उत्तम पुरुष के तीन रूप लौकिक के लोट् में आ गए हैं।

(घ) लोट् मध्यम पुरुष बहुवचन में लौकिक में केवल 'त' है, किन्तु वैदिक में 'त' के अतिरिक्त -तन, -धन, -तात् भी है।

(ड) लोट् मध्यम पुरुष एकवचन में, वैदिक में धि का प्रयोग भी (कृधि = करः गधि = जा) मिलता है। लौकिक में इनके रूप मात्र कुरू, गच्छ है। यों वैदिक-धि का विकसित रूप-हि भी कभी-कभी लौकिक में प्रयुक्त होता है (जहि = मार डाल, जहाहि = छोड़ दे), यद्यपि इसके प्रयोग विरल है।

(च) लट् उत्तम पुरुष बहु० में लौकिक में केवल -मः मिलता है, किन्तु वैदिक में -मः के अतिरिक्त -मसि भी मिलता है। (छ) वैदिक में लङ्, लुङ्, लृङ् में भूतकरण (Augment) अ-नहीं भी मिलता, यद्यपि लौकिक में यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए वैदिक में 'अगमत्' और 'गमत्' दोनो मिलते हैं, किन्तु लौकिक केवल 'अगमत्'।

(ज) लौकिक में निषेधार्थी 'मा' के साथ धातु में भूतकरण नहीं जुड़ता, किन्तु वैदिक में कभी-कभी जुड़ भी जाता है।

(झ) आत्मनेपद में, लट् में लौकिक में केवल -ते है, किन्तु वैदिक में -ते, और -ए दोनों (शेते, शये = सोता है) मिलते हैं।

(ञ) वैदिक में लिट् वर्तमान के अर्थ में था, किन्तु लौकिक में वह परोक्षभूत के लिए आता है।

4.6.6. समास के रूप में:-

(1) समासों में सबसे बड़ा अन्तर तो यह आया कि वैदिक में बहुत बड़े-बड़े समास बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि उस भाषा में कृत्रिमता नहीं है, किन्तु संस्कृत में कृत्रिमता के विकास के कारण बड़े-बड़े समस्त पद भी बनने लगे। इसका कारण यह था कि, वह उस रूप में बोलचाल की भाषा नहीं थी, अपितु साहित्य की भाषा थी, जिसमें दैनिक भाषा की तुलना में प्रायः कृत्रिमता आ ही जाती है। साथ ही गद्य लेखन के विकास के कारण भी समास-प्रयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। कविता में बहुत बड़े-बड़े समास प्रायः नहीं आ सकते।

(2) समास के नियमों में भी कुछ बातें ऐसी मिलती हैं, जिनका लौकिक संस्कृत में प्रायः कठोरता से पालन होता है, किन्तु वैदिक में नहीं।

(क) उदाहरणार्थ लौकिक संस्कृत में पूर्वपद तथा उत्तरपद इकट्ठे आते हैं, किन्तु वैदिक में वे व्यवहित भी हो जाते हैं। जैसे वैदिक में आता है: द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते (इसके आगे द्यु और पृथ्वी दोनों झुकते हैं)।

(ख) इसी प्रकार लौकिक में पूर्वपद के इण् प्रत्याहार से परवर्ती 'स्' का 'ष्' नहीं होता, किन्तु वैदिक में हो जाता है। इसीलिए 'दुस् \$ तर' का लौकिक में केवल 'दुस्तर' बनेगा, परन्तु वैदिक में 'दुस्तर'

और 'दृष्ट' दोनों होंगे।

(3) वैदिक में केवल चार समासों - तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वन्द्व - का ही प्रयोग प्रायः मिलता है, किन्तु लौकिक में द्विगु और अव्ययीभाव भी प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग - मूल भारोपीय भाषा में उपसर्ग वाक्यमें कहीं भी आ सकता था, क्रिया के साथ आना उसके लिए आवश्यक नहीं था। वैदिक में भी यह स्वच्छन्दता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जैसे 'यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतम् मिनीमसि द्यविद्यवि'। यहाँ 'प्र' उपसर्ग 'मिनी-मसि' से सम्बन्धित है किन्तु इन दोनों के बीच तीन शब्द आए हैं। लौकिक संस्कृत में उपसर्ग की यह स्वच्छन्दता नहीं मिलती।

4.6.7. प्रत्यय के रूप में:-

इस दृष्टि से भी कई अन्तर हैं। दो उदाहरण पर्याप्त होंगे:-

(क) वैदिक में पूर्णकालक कृदन्त के कई प्रत्यय हैं, जैसे त्वा, त्वाय, त्वीन, त्वी, य, किन्तु लौकिक में त्वा और य केवल दो हैं।

(ख) तुमुन् अर्थ में भी वैदिक में तुम्, से, असे, अध्ये, तवै आदि कई प्रत्यय हैं, किन्तु लौकिक में मात्र तुम् ही है।

4.6.8. शब्द के रूप में:-

(1) अनेक वैदिक शब्द लौकिक में आकर अप्रयुक्त हो गए जैसे चक्षस्, अत्क, ऊष, पेचा।

(2) अनेक नए शब्द बने और प्रयुक्त होने लगे जो वैदिकी में नहीं मिलते, जैसे विपुल, कर्तव्य (इसके लिए वैदिक शब्द 'कर्त्व' था) आदि।

(3) अनेक वैदिक शब्द लौकिक में प्रयुक्त होते तो रहे, किन्तु उनका अर्थ पूर्णतः बदल गया: मृळीक = दया (वैदिकी), महादेव (लौकिक), क्षिति = बस्ती, निवासस्थान (वैदिक), पृथ्वी (लौकिक), व्रत = शासन (वैदिक), प्रण, उपवास आदि (लौकिक), असुर = सुर, राक्षस (वैदिक), केवल राक्षस (लौकिक), वृद्धि = ले जाने वाला भी (वैदिक), मात्र आग (लौकिक),

(4) अनेक शब्दों को भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण कुछ का कुछ समझने से लौकिक में नए शब्द आ गए। उदाहरण के लिए असीरियन शब्द 'असुर' भारत-ईरानियों को बहुत पहले मिला था, और इसका अर्थ बड़ा स्वामी, देवा आदि था। अवेस्ता में देववाची 'अहुर' यही है। बाद में कदाचित् ईरानियों से झगड़े के कारण संस्कृत का देववाची 'देव' उनके यहाँ राक्षसवाची हो गया। आज भी

फारसी में 'देव' का वही बुरा अर्थ है। हिन्दी-उर्दू में 'देव दानव' में देव फारसी ही प्रभाव है। दूसरी ओर उनका देव वाची 'अहुर' हमारे यहाँ 'असुर' रूप में राक्षस वाची हो गया। वैदिक में 'असुर' का पुराने (देवता) एवं नये (राक्षस) दोनों में प्रयोग मिलता है, किन्तु लौकिक में असुर प्रायः केवल राक्षसवाची ही है। साथ ही गलती से लोगों ने 'असुर' के 'अ' को नकारार्थक उपसर्ग समझ लिया, जो वस्तुतः यह था नहीं, अतः इसे हटाकर 'सुर' का देवता के अर्थ में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार 'असित' का अर्थ काला था। इसमें भी 'अ' उपसर्ग नहीं था, किन्तु उसे उपसर्ग समझकर 'अ' अलग कर लिया गया, और लौकिक में 'सित' का श्वेत के अर्थ में प्रयोग होने लगा।

(5) वैदिक में विजातीय शब्द आए थे- विशेषतः द्रविड़ एवं आस्ट्रिक से, किन्तु लौकिक संस्कृत में उनकी संख्या बहुत बढ़ गयी। पीछे वैदिक के प्रसंग में कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ कुछ और विजातीय शब्द दिए जा रहे हैं, जो संस्कृत में प्रयुक्त हुए हैं। कुल विजातीय शब्द 2 हजार के लगभग होंगे।

द्रविड़ शब्द -

संस्कृत में द्रविड़ से एक हजार से ऊपर शब्द आए हैं। कुछ उदाहरण ये हैं आरू (केंकड़ा), एड (भेड़), एण (मृग), करट (कौवा), कीर (तोता), कुक्कुट (मुर्गा), कुक्कुर (कुत्ता), घुण (घुन), नक्र (घड़ियाल), मर्कट (बन्दर), मीन (मछली), अर्क (मन्दार), कानन (जंगल), पनस (कटहल), पिप्पलि (पीपर), कुंतल (बाल), भाल (ललाट), मुख (चेहरा), अगुरू (अगर), अनल (आग), उलूखल (ओखली), कटु (कड़ा), कठिन, काल (काला), कुटी, कुंड, कुंडल, कोण, चन्दन, ताल (ताड़), बिल, मुकुल, मुरज (एक प्रकार का ढोल), वलय (कंगन) तथा हेरम्भ (भैंसा) आदि।

आस्ट्रिक शब्द -

संस्कृत में आस्ट्रिक के भी सौ से ऊपर शब्द हैं। कुछ उदाहरण हैं: ताम्बूल, हंबा (गाय की आवाज), श्रृंगार, आकुल, आटोप (गर्व), आपीड (मुकुट), कबरी (बाल), कवल (कौर), कासु (बीमारी), कुविन्द (जुलाहा), तथा खिंकिर (लोमड़ी) आदि।

यूनानी शब्द -

यूनान से भारत का सम्बन्ध काफी पुराना है। सिकन्दर के आने के पूर्व से दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध थे। इस सम्पर्क के परिणामस्वरूप कई शब्द यूनानी भाषा ने संस्कृत से लिए तथा कई शब्द संस्कृत में आए। संस्कृत में यूनानी से आए कुछ शब्द हैं यवन, यवनिका, द्रम्म (दाम), होडा (होड़ा),

त्रिकोण, सुरंग, क्रमेल (ऊँट), कगु (एक अनाज), तथा कस्तीर (रांगा) आदि।

रोमन शब्द:

रोमन साम्राज्य से हमारा संबंध कुषाण राजाओं से भी पहले से रहा है। यह सम्बन्ध व्यापारिक के साथ-साथ राजनीतिक भी था। परिणामस्वरूप वहाँ से भी शब्दों का आदान प्रदान हुआ। संस्कृत में लिए गए शब्दों में रोगक (एक प्रकार का चुंबक) तथा दीनार प्रमुख है।

अरबी शब्द

परवर्ती संस्कृत में फलित ज्योतिष, अश्वविज्ञान तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में अनेक शब्द अरबी से आए कुछ उदाहरण है: रमल, इक्कवाल (ज्योतिष में सौभाग्य), इत्थशाल (ज्योतिष में तीसरा योग), ईसराफ (ज्योतिष में चौथा योग), गैरकंबूल (ज्योतिष में 9वाँ योग), वोल्लाह (विशेष रंग का घोड़ा), तथा सहम (सौभाग्य, दुर्भाग्य) आदि।

ईरानी शब्द:

ईरान से भारत का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है। इसी कारण सैकड़ों शब्द वहाँ से भी आए हैं। कुछ शब्द ये हैं--हिन्दू बारबाण, तालिक (ईरानी व्यक्ति), मिहिर (सूर्य), बादाम (मेवा विशेष), बालिश (तकिया), खोल, खर्बूज, तथा निःशाण (जलूस) आदि।

तुर्की शब्द - इससे अपेक्षाकृत बहुत ही कम शब्द आए हैं तुरूष्क, खच्चर।

चीनी शब्द:- संस्कृत में कुछ शब्द चीनी से भी आए हैं, यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं है: चीन (चीनांशक, चीनचोलक) तथा मसार (एक रत्न) ।

पुराने शब्दों के लोप, नए के आगम, अर्थ का परिवर्तन या परिवर्तन इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए मोटे रूप से कहा जा सकता है वैदिक एवं लौकिक की अभिव्यक्ति में चालीन प्रतिशत का अन्तर पड़ा। केवल 60 प्रतिशत बातें ही समान रहीं ।

बोलियाँ:- वैदिक भाषा के प्रसंग में पश्चिमोत्तरी (या पश्चिमी या उत्तरी), मध्यदेशी (या मध्यवर्ती) तथा पूर्वी, इन तीन बोलियों का उल्लेख किया जा चुका है। संस्कृत काल में आर्यभाषा - भाषी प्रदेश में कदाचित् एक दक्षिणी रूप भी जन्म ले चुका था। इसप्रकार संस्कृत काल में पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, दक्षिणी और पूर्वी ये चार बोलियाँ थीं ।

बोध - प्रश्न

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

1- भारतीय शाखा को ईरानी शाखा से अलग करने के लिए प्रयुक्त शब्द है-

- | | |
|-----------------|----------------|
| (क) भारोपीय | (ख) भारत ईरानी |
| (ग) भारतीय आर्य | (घ) वैदिक आर्य |

2- वैदिक भाषा में धातुओं के रूप पद में चलते थे।

- (क) केवल परस्मैपद (ख) केवल आत्मने पद
(ग) आत्मनेपद परस्मैपद दोनों (घ) दोनों में से कोई नहीं

3- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) आर्यों के आने के समय उनकी तत्कालीक भाषा से कदाचित अलग नहीं थी।

(ख) विवरण के आधार पर धातुओं के थे।

(ग) लौकिक संस्कृत को भी कहते हैं।

(घ) रोमन साम्राज्य से हमारा सम्बन्ध पहले रहा है।

4- नीचे जो वाक्य दिये गये हैं उनमें से तथ्य की दृष्टि से कुछ सही है तथा कुछ गलत है सही वाक्यों के सामने कोष्ठक में (✓) तथा गलत वाक्यों के सामने (ग) का चिन्ह बनाओं -

1- वैदिक साहित्य का समय 1500 ई0पू0 से 800ई0पू0 तक माना जाता है।

2- मूल भारोपीय भाषा में स्वराघात का कोई स्थान नहीं है।

3- वैदिक भाषा में धातुओं के रूप आत्मने पद में चलते थे।

4- वैदिक तथा लौकिक साहित्य में अन्तर नहीं होता है।

4.2 सारांश

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप संस्कृत एवं प्राचीन आर्य भाषाओं के ज्ञान के साथ आपने संस्कृत के भागों एवं उसके व्याकरण, उच्चारण और उनकी आपसी अन्तरादि के विषय में अध्ययन किया। तथा इनके सभी पहलुओं का भी अध्ययन ग्रहण किया। भारत में आर्यों का आगमन लगभग एक हजार वर्षों तक शनैः शनैः होता रहा। ऐसी परिस्थिति में कालगत व्यवधान के कारण निश्चय ही इन सब आर्यों को एक भाषाभाषी मानना असंगत है। वैदिक साहित्य में प्राप्त भाषागत विविधताओं से स्पष्ट है कि आर्य भिन्न भाषा-भाषी थे। जिसका पूर्ण रूप से समाधान के साथ आपको उनके भाषागत विविधताओं की जानकारी इस इकाई से मिली।

4.9. शब्दावली

तत्कालीन	-	उस समय का
रूपाधिक्य	-	रूप की अधिकता
पुनर्निमित्त	-	पुनः निर्माण किया हुआ
स्वराघात	-	स्वरों का आघात
प्रयोगाधिक्य	-	अत्यधिक प्रयोग
शनैः शनैः	-	धीरे-धीरे
अध्ययनोपरान्त	-	अध्ययन के उपरान्त
अप्रयुक्त	-	जिनका प्रयोग न हो
क्लैसिकल	-	शास्त्रीय

4.9. बोध प्रश्नों के उत्तर

- 1- (ग) भारतीय आर्य
- 2- (ग) आत्मनेपद परस्मैपद दोनों
- 3- (क) ईरानी भाषा (ख) दस गण (ग) क्लासिकल संगीत (घ) कुषाण राजाओ
- 4- (क) (✓) (ख) (ग) (ग) (ग) (घ) (ग)

4.10. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1- डॉ० भोलाशंकर व्यास - संस्कृत भाषा - चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी -1.
- 2- डॉ० भोलानाथ तिवारी - भाषा विज्ञान- किताब महल 22-ए सरोजिनी नायडू मार्ग इलाहाबाद - 211001.
- 3- डॉ० कैलाशनाथ पाण्डेय- भाषा विज्ञान का रसायन- गाजीपुर साहित्य संसद, नौकापुरा, लंका, गाजीपुर।

4.11. अन्य उपयोगी पुस्तकें

- 1- भाषा विज्ञान - श्री भगवान तिवारी
- 2- भाषा विज्ञान एवं भाषाशास्त्र - डॉ० कपिलदेव द्विवेदी
- 3- भाषा विज्ञान की रूपरेखा - डॉ० हरीश शर्मा
- 4- भाषा विज्ञान - मंगलदेव शास्त्री

4.12. निबन्धात्मक प्रश्न

- 1- प्राचीन आर्य भाषाओं का परिचय देते हुए संस्कृत से सम्बन्ध स्थापित कीजिए।
- 2- वैदिक तथा लौकिक संस्कृत को स्पष्ट करते हुए उनके मध्य अन्तर स्थापित कीजिए।

खण्ड दो- रूप विज्ञान

इकाई 1 . संस्कृत पदसंरचना

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 संस्कृत पद -संरचना अर्थ एवं स्वरूप
- 1.4 संस्कृत पद संरचना
 - 1.4.1 संस्कृत पद-संरचना विमर्श
 - 1.4.2 सम्बन्ध तत्व के भेद
 - 1.4.3 सम्बन्ध- तत्व तथा अर्थ – तत्व का सम्बन्ध
- 1.5 सारांश
- 1.6 शब्दावली
- 1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 1.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

संस्कृत वाङ्मय में पदसंरचना का विशेष महत्त्व है। यह भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत आती है। इसमें संस्कृत पद-रचना से सम्बन्धित विषय का विश्लेषण किया गया है। संस्कृत पद-संरचना के सम्बन्ध में प्राचीन काल से विचार होता चला आया है।

पद- संरचना का उद्देश्य पदों की सम्पक् रचना है। इस सम्बन्ध में यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि भट्टोजिदीक्षित आदि आचार्यों ने अतिशय महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये हैं। इस इकाई में पद-संरचना के सम्बन्ध में विविध प्रकार से प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तु इकाई में संस्कृत पद-संरचना से सम्बन्धित विषय का सम्यक् विश्लेषण किया गया है, जिससे आप संस्कृत पद-संरचना के महत्त्व को समझ सकेंगे और इस विषय में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप-

1. संस्कृत पद-संरचना को समझ सकेंगे।
2. संस्कृत पद-संरचना किस प्रकार होती है? इसका ज्ञान कर सकेंगे।
3. संस्कृत पद-संरचना में केवल शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसकी जानकारी पा सकेंगे।
4. सुबन्त और तिङन्त को पद कहते हैं? यह जान सकेंगे।
5. संस्कृत के सु आदि 21 प्रत्ययों की जानकारी कर सकेंगे।
6. धातुओं से होने वाले तिप् आदि 18 प्रत्ययों को जान सकेंगे।
7. सुबन्त और तिङन्त प्रत्ययों के योग के बिना पद-संरचना सम्भव नहीं है। इसकी विधिवत् जानकारी कर सकेंगे।
8. जब राम आदि शब्दों से सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जायेगा तभी रामः आदि पदों की संरचना होगी, इस विषय को विधिवत् समझ सकेंगे।

1.3 संस्कृत पद संरचना - अर्थ एवं स्वरूप

संस्कृत पद संरचना का अर्थ संस्कृत में पदों की रचना करना है। वस्तुतः किसी शब्द का वाक्य में तभी प्रयोग किया जा सकता है, जब उसे पद बना लिया हो। पद बनने के लिए शब्द का सुबन्त या तिङन्त होना अनिवार्य है। अतएव यह स्पष्ट है कि जब किसी शब्द के आगे सुप् या तिङ् प्रत्यय जुड़ता है तभी वह पद कहलाता है। इनके अभाव में कोई शब्द पद नहीं कहलायेगा और जब तक

वह पद नहीं बनेगा तब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रकृति मूल रूप और प्रत्यय सम्बन्ध तत्व के मिलने से पद या रूप बनता है। इस प्रकार मूल शब्द में प्रत्यय का योग आवश्यक है जैसे - 'रामः गच्छति' में राम मूल रूप है। परन्तु उनका प्रयोग तभी होगा जब उसमें सुप् प्रत्यय जुड़कर वह 'रामः' बन जायेगा।

1.4 संस्कृत पद संरचना

1.4.1 संस्कृत पदसंरचना विमर्श

शब्द का वाक्य में प्रयोग किया गया रूप पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द में कुछ परिवर्तत या विकार आ जाता है, उसे पद कहते हैं। संस्कृत के प्रख्यात वैयाकरण महर्षि पाणिनि ने पद की परिभाषा इस प्रकार दी है- 'सुप्तिङन्तं पदम्' अर्थात् 'सुबन्त' और 'तिङन्त' को पद कहते हैं। इसका आशय यह है- किसी शब्द के आगे जब कोई सुप् प्रत्यय या तिङ् प्रत्यय जुड़ता है तभी वह पद कहलाता है। जब तक किसी शब्द के अन्त में सुप् और तिङ् प्रत्यय नहीं लगेंगे तब तक उसे पद नहीं कहा जा सकता। संस्कृत में 21 प्रत्ययों को सुप् कहते हैं। 'सु' से प्रारम्भ कर 'सुप्' पर्यन्त प्रत्ययों का प्रत्याहार 'सुप्' है। ये प्रत्यय सात विभक्तियों और तीन वचनों को लेकर निर्धारित किये गये हैं। इन प्रत्ययों का स्वरूप इव प्रकार है-

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्रथमा	सु	औ	जस्
द्वितीया	अम्	औट्	शस्
तृतीया	टा	भ्याम्	भिस्
चतुर्थी	डे	भ्याम्	भ्यस्
पंचमी	डसि	भ्यास्	भ्यस्
षष्ठी	डस्	ओस्	आम्
सप्तमी	डि	ओस्	सुप्

इस प्रकार 'सु' लेकर सुप् के 'प्' तक 'सुप्' कहलाता है इस सुप् के अन्तर्गत उपर्युक्त सभी 21 प्रत्यय जाते हैं।

सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इन प्रत्ययों के व्यावहारिक रूप को सझने के लिए निम्नलिखित चक्र को सावधानी से पढ़े-

कारक	विभक्ति	चिह्न	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
कर्ता	प्रथमा	ने	रामः	रामौ	रामाः
कर्म	द्वितीया	को	रामम्	रामौ	रामान्
करण	तृतीया	से, द्वारा	रामेण	रामाभ्याम्	रामैः
सम्प्रदान	चतुर्थी	के लिए	रामाय	रामाभ्याम्	रामैभ्यः
अपादान	पंचमी	से	रामात् (द)	रामाभ्याम्	रामेभ्यः
सम्बन्ध	षष्ठी	का, के, की	रामस्य	रामयोः	रामाणाम्
अधिकरण	सप्तमी	में, पर	रामे	रामयोः	रामेषु
सम्बोधन	प्रथमा	हे, र	हे राम	हे रामौ	हे रामाः

‘तिङ्’ प्रत्याहार में ‘तिप्’ से लेकर ‘महिङ्’ तक 18 प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय धातुओं से होते हैं।

परस्मैपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	तिप्	तस्	झि
मध्यम पुरुष	सिप्	थस्	थ
उत्तम पुरुष	मिप्	वस्	मस्

आत्मनेपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	त	आताम्	झ
मध्यम पुरुष	थास्	आथाम्	ध्वम्
उत्तम पुरुष	इट्	वहि	महिङ्

परस्मैपद प्रत्यय से युक्त पठ् = पढ़ना धातु के लट् लकार के रूपों का अवलोकन करें-

परस्मैपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठति	पठतः	पठन्ति
मध्यम पुरुष	पठसि	पठथः	पठथ
उत्तम पुरुष	पठामि	पठावः	पठामः

इसी प्रकार आत्मनेपद से युक्त शी = शयन करना, धातु के लट् लकार के रूपों का अवलोकन करें-

आत्मनेपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	शेते	शयाते	शेरते
मध्यम पुरुष	शेषे	शयाशे	शेध्वे
उत्तम पुरुष	शये	शेवहे	शेमहे

इस प्रकार सुबन्त, तिङन्त'युक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। वाक्य में उन्हीं का प्रयोग होता है। प्रकृति (मूल रूप) तथा प्रत्यय (सम्बन्ध तत्व) के मिलने से 'पद' या 'रूप' बनता है। पतंजलि के इन शब्दों के अनुसा 'नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्यय' अकेले 'प्रकृति' या 'प्रत्यय' का प्रयोग नहीं किया जाता सकता अर्थात् इन दोनों के योग से बने 'पद' या 'रूप' का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। 'रामः गच्छति' में 'राम' रूप है, शब्द है किन्तु 'रामः' पद है।

वाक्यों में प्रयुक्त पदों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वह भाग जिससे अर्थ का ज्ञान होता है जो मूल रूप में रहता है अर्थात् मूल शब्द तथा द्वितीय वह भाग जो मूल रूप से संयुक्त होकर अर्थ प्रकट कतर है अर्थात् मूल शब्द से जुड़ने वाले सम्बन्ध बोधक शब्दद्व विभक्ति तथा प्रत्यय आदि। इनमें प्रथम भाग 'अर्थतत्व कहलाता है तथा दूसरा भाग 'सम्बन्धतत्व' कहलाता है। सम्बन्धतत्व अर्थ तत्व के पारस्परिक सम्बन्ध को बताता है। वाक्य के गठन के लिए सम्बन्धतत्व की आवश्यकता होती है। अर्थतत्वों आपसी सम्बन्ध बताने वाले शब्दों (रूपा रूपों), पर विवेचना करने के कारण रूप-विज्ञान, (या पद विज्ञान रूप विचार, पद रचना आदि) कहा जाता है।

1.4.2 सम्बन्ध तत्वों के भेद-

सम्बन्ध तत्वों के विद्वानों के उनके भेद प्रस्तुत किये हैं जो कि इस प्रकार है-

1. स्वतन्त्र शब्द

अनेक भाषाओं में स्वतन्त्र शब्द के प्रतीक अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं अर्थात् सम्बन्ध तत्व से संयोजित न होकर स्वतन्त्र रहते हैं। जैसे संस्कृत में इति, अपि, एव, अथ, आदि, च, न, व आदि।

2. शब्दस्थान

किन्हीं-किन्हीं भाषाओं में वाक्य में शब्द के स्थान पर सम्बन्ध तत्व का ज्ञान होता है। संस्कृत के

समासों में शब्दस्थान की विशेष महत्व है-

राजपुत्र	= राजा का पुत्र (राजकुमार)
पुत्रराज	= पुत्रों का राजा (श्रेष्ठ पुत्र)
राजसदन	= राजा का घर
सदनराज	= घरों का राजा (श्रेष्ठ घर या अच्छा घर)

3. प्रत्यय-

अर्थतत्त्व के साथ सम्बन्ध तत्त्व प्रारम्भ, मध्य तथा अन्त में आवश्यकतानुसार प्रत्यय जोड़े जाते हैं। संस्कृत में प्रायः इन प्रत्ययों का प्रयोग शब्द के आगे होता है-

जैसे-	विनाउदात्त ढ्क्	=	वैनतेया
	राष्ट्र घ	=	राष्ट्रिया
	बुद्धि मतुप्	=	बुद्धिमान् ।
	प्रशस्य इष्ठन्	=	श्रेष्ठ इत्यादि ।

संस्कृत शब्दों में लगने वाली विभक्तियाँ अन्त प्रत्यय ही है।

बालक स्य	=	बालकस्या
----------	---	----------

4. ध्वनि गुण (मात्रा, स्वर, बलाघात)

ध्वनि गुण अर्थात् मात्रा, स्वर तथा बलाघात से सम्बन्ध तत्त्व का बोध होता है। कतिपय भाषाओं में इनका विशेष महत्व है। वैदिक संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं में स्वर का विशेष महत्त्व था।

5. अपश्रुति (आन्तरिक परिवर्तन)

अन्तर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषाओं में अर्थतत्त्व अर्थात् मूल शब्द के मूल में सम्बन्ध तत्त्व मिल जाता है। जैसे- दशरथ , पुत्र से पौत्र, भवत् से भवदीय, प्रशस्य से श्रेयान् यशस् से यशस्वी, माया से मायावी आदि।

6. द्वित्व ध्वनियों या शब्दों की कई बार आवृत्तियों से सम्बन्ध तत्त्व का ज्ञान होता है। यह

आवृत्तियों अर्थ तत्व के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त में हो सकती है। जैसे - पट्टपटाकरोति। दिनं -दिनं प्रति = प्रतिदिनम्।

7. ध्वनि विनियोजन

अर्थतत्व की ध्वनियों को कम करके अथवा बढ़ाकर सम्बन्ध तत्व को बना लिया जाता है। जैसे- प्रशस्य शब्द के ज्येष्ठ।

8- अभावात्मक-

जब अर्थ तत्व (मूल शब्द) में कुछ जोड़ा नहीं जाता तथा शब्द से ही सम्बन्ध तत्व का काम निकाल लिया जाता है, तो उसे अभावात्मक या शून्य सम्बन्ध तत्व कहते हैं। संस्कृत में इस प्रकार के शब्द विद्युत्, मरुत्, नदी, जल, मुक्, वारि आदि हैं। इनके ये रूप ही बिना विकार के प्रथमा एक वचन को प्रकट करते हैं। अतः इनमें शून्य सम्बन्ध तत्व का बोध होता है।

1.4.3 सम्बन्ध तत्व तथा अर्थतत्व का सम्बन्ध।

सम्बन्ध तत्व तथा अर्थतत्व में पारस्परिक सम्बन्ध सब भाषाओं में समान नहीं माना जाता है। इन दोनों में सम्बन्ध इस प्रकार होते हैं-

1. पूर्ण सहयोग-

जब अर्थतत्व और सम्बन्ध तत्व परस्पर घनिष्ठ भाव से मिल जाते हैं तो उसे पूर्ण सहयोग कहते हैं। एक ही शब्द के द्वारा दोनों तत्वों का बोध होता है। संस्कृत भाषा में विभिन्न शब्द रूपों में अर्थतत्व तथा सम्बन्ध तत्व परस्पर घनिष्ठ भाव से मिल जाते हैं। जैसे रामः (राम ने), रामम् (राम को), रामाय (राम के लिए) आदि रूप हैं। अंग्रजी में भी इस प्रकार के शब्द पाये जाते हैं, जैसे - ब्रिंग (bring) से ब्राट (brought)।

2. अपूर्ण संयोग

इस प्रकार के संयोग में किसी शब्द में मिलने वाले अर्थ तत्व तथा सम्बन्ध तत्व पूरी तरह, से मिलत नहीं अपितु दोनों की सत्ता बनी रहती है और उन्हें शब्द में स्पष्टता तथा पहिचाना जा सकता है। इनका संयोग तिलतण्डुलवत् होता है, नीरक्षीरवत् नहीं।

जैसे - पुस्तकम् (पुस्तक अम्)।

केशवः (केश व)।

मेधावी (मेधा विन्) इत्यादि।

3. दोनों स्वतंत्र

कुछ भाषाओं में अर्थतत्त्व तथा सम्बन्ध तत्त्व दोनों की सत्ता पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। जैसे - संस्कृत में इति, वा, तु, न आदि।

4. अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व की समानता।

कुछ भाषाओं में प्रत्येक अर्थतत्त्व के साथ एक सम्बन्धतत्त्व जोड़ा जाता है। अतः दोनों की संख्या समान होती है। वाक्य में एक सम्बन्धतत्त्व के स्थान पर कई सम्बन्धतत्त्व हो जाते हैं। अतः सम्बन्धतत्त्व का आधिक्य हो जाता है।

जैसे-	रामा:	=	राम जस्, अर्थात् अनेक राम।
	फलानि	=	फल जस्, अर्थात् अनेक फल।
	कपयः	=	कपि जस्, अर्थात् बहुत से वानर।
	स्त्रियः	=	स्त्री जस्, अर्थात् बहुत सी स्त्रियाँ।

सम्बन्धतत्त्व से मुख्य रूप से लिंग, पुरुष, वचन, कारक एवं काल आदि की पहचान होती है। यही सम्बन्धतत्त्व के प्रमुख कार्य भी कहे जा सकते हैं।

लिंग

संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं-पुँल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग में रखते हैं। संस्कृत में एक ही शब्द या उसके समानार्थी स्त्रीलिंग, पुँल्लिंग तथा नपुंसक लिंग तीनों में पाये जाते हैं। जैसे - स्त्री का बोधक 'दारा' शब्द पुँल्लिंग है तथा 'कलत्रम्' नपुंसक लिंग है। 'पुस्तकम्' नपुंसक लिंग है। लेकिन 'ग्रन्थ' पुँल्लिंग है। कुछ शब्द सदैव पुँल्लिंग में प्रयोग किये जाते हैं। यद्यपि उनमें स्त्रीलिंग जाति (मादा) भी पायी जाती है। इसी प्रकार कुछ जीवों के सूचक शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, यद्यपि उनमें पुरुष (चर) जाति भी पायी जाती है। लिंग दो प्रकार से व्यक्त किये जाते हैं-

1. प्रत्यय संयुक्त करके

जैसे - अज शब्द से टाप् प्रत्यय करके अजा बनता है।

कुमार शब्द से डीप् प्रत्यय करके कुमारी बनता है।

इन्द्र शब्द से डीष् तथा आनुक् होकर इन्द्राणी शब्द बनता है।

2. स्वतंत्र शब्द जोड़कर

इसके उदाहरण - अंग्रजी भाषा में प्रायः प्राप्त होते हैं।

नर के साथ भ्म तथा मादा के साथ ैीम का प्रयोग करते हैं।

जैसे - भ्म हवञ्ज (बकरा) और ैीम हवञ्ज (बकरी)।

3. विपरीत शब्द प्रयुक्त करके

जैसे- भ्राता (पुँल्लिंग)

भगिनी (स्त्रीलिंग)

पिता (पुँल्लिंग)

माता (स्त्रीलिंग)

वर (पुँल्लिंग)

वधू (स्त्रीलिंग)

पुरूष- पुरूष तीन प्रकार के होते हैं प्रथम पुरूष, मध्यम पुरूष, उत्तम पुरूष।

पुरूषों के प्रयोग के आधार-पर क्रिया -रूपों में अन्तर हो जाता है। जैसे - सः गच्छति = वह जाता है।
त्वम् गच्छसि = तुम जाते हो। अहं गच्छामि = मैं जाना हूँ।

वचन- संस्कृत में तीन वचन होते हैं-एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन के प्रयोग से संज्ञा, क्रिया एवं विश्लेषण रूपों में अन्तर आ जाता है।

जैसे -	बालकः पठति	=	बालका पठता है।
	बालकौ पठतः	=	दो बालक पढ़ते हैं।
	बालकाः पठन्ति	=	बालक पढ़ते हैं।

कारक - कारकों अर्थात् कर्ता, कर्म, करण, स्मप्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, सम्बोधन के प्रयोग के द्वारा सम्बन्ध तत्त्व का ज्ञान होता है। जैसे- रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ राम में कर्ता और बाणेन में करण का प्रयोग हुआ है।

काल-

अर्थात् समय तीन भागों में विभक्त होता है-

1. वर्तमान काल
2. भूतकाल और
3. भविष्य काल।

पुनः उनके उपभेद किये जाते हैं। भिन्न-भिन्न कालों को प्रकट करने के लिए सम्बन्ध तत्त्वों की साध्यता ली जाती है। संसार की अनके भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार से काल के विभाजन किये गये हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में केवल भूतकाल के ही तीन भेद हैं- अनद्यतन, परोक्ष तथा सामान्य। अनद्यतन के लिए लडलकार का प्रयोग होता है, परोक्ष भूतकाल के लिए लिट् लकार का प्रयोग होता है और सामान्य भूतकाल के लिए लृड् लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में लट् लकार का प्रयोग होता है। भविष्य काल के लिए लुट् और लृट् लकारों का प्रयोग होता है।

संस्कृत में 10 लकार हैं, जो कि विभिन्न स्थितियों के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे विधि आदि के लिए विधिलिङ् लकार का प्रयोग होता है।

वाच्य - संस्कृत भाषा में तीन वाच्य पाये जाते हैं-

1. कर्तृवाच्य,
2. कर्मवाच्य,
3. भाववाच्य,

जब किसी वाक्य में कर्ता पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जब वाक्य में कर्म पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे कर्मवाच्य नाम दिया जाता है तथा जब क्रिया पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे भाववाच्य नाम दिया जाता है। इन तीनों रूपों में कर्मवाच्य में सकर्मक का एवं भाववाच्य में अकर्मक धातुओं का प्रयो किया जाता है। वाच्य के निर्माण में सम्बन्ध तत्त्व की अपेक्ष होती है।

पद- संस्कृत में दो प्रकार की धातुएँ पाई जाती है।

1. आत्मनेपदी तथा
2. परस्मैपदी।

जब क्रिया का फल कर्ता के लिए होता है तो उसे आत्मनेपद कहते हैं, परन्तु जब क्रिया का फल दूसरे को प्राप्त होता है तो उसे परस्मैपद कहते हैं। “पुस्तकं लभते” यहाँ लभते रूप आत्मनेपदीय है किन्तु ‘पुस्तकं पठति’ में ‘पठति’ रूप परस्मैपदीय है। प्रेरणार्थक इच्छार्थक, आदि क्रिया के भेद हैं।

1.5 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं-

1. किसी शब्द का वाक्य में जो रूप प्रयुक्त होता है, उसे पद कहते हैं।
2. अव्यय पदों को छोड़ कर वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द में कुछ परिवर्तन या विकार हो जाता है।
3. महर्षि पाणिनि का कथन है कि सुबन्त, और तिडन्त को पद कहते हैं।
4. जब किसी शब्द के आगे कोई सुप् तिड् प्रत्यय जुड़ता है, तभी वह पद कहलाता है।
5. संस्कृत में सु, औ, जस् आदि 21 प्रत्यय सुप् कहलाते हैं।
6. तिप्, तस्, झि, आदि 18 प्रत्यय तिड् कहलाते हैं।
7. महर्षि पतंजलि का स्पष्ट अभिमत है कि न तो केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न प्रत्यय का।
8. वाक्य में प्रयुक्त पद दो भागों में विभक्त हैं। प्रथम भाग से अर्थ का ज्ञान होता है जो कि मूल रूप में रहता है।
9. द्वितीय भाग मूलरूप से संयुक्त होकर अर्थ प्रकट करता है।
10. प्रथम भाग को अर्थ तत्व और द्वितीय भाग को सम्बन्ध तत्व कहते हैं।

1.6 शब्दावली

सुप्-

संस्कृत में 21 प्रत्ययों को सुप् कहते हैं। प्रथमा विभक्ति के एकवचन के सु से लेकर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के सुप् पर्यन्त प्रत्ययों को सुप् कहते हैं।

विभक्ति-

संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को विभक्ति कहते हैं।

तिङ्ग -

तिङ्ग प्रत्याहार मे तिप् से लेकर महिङ् तक 18 प्रत्यय होते हैं।

सम्बन्ध तत्व -

सम्बन्ध तत्व अर्थात् तत्त्वों के पारस्परिक सम्बन्ध को बताता है। वाक्य के गठन के लिए सम्बन्ध तत्व की आवश्यकता होती है।

अर्थ तत्व -

इसके द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है। यह मूल रूप में रहता है। स्वतन्त्र शब्द- स्वतन्त्र शब्द के प्रतीक अपनी स्वतन्त्र रखते रहते हैं। जैसे- अथ, इति, वा, व आदि।

प्रत्यय-

अर्थ तत्व के साथ सम्बन्ध तत्व प्रारम्भ और अन्त में आवश्यकतानुसार जोड़े जाते हैं। इन्हें प्रत्यय कहते हैं।

जैसे - विनता उदात्त ढक् - वैनतेया

बुद्धि मतुप् - बुद्धिमान।

अपश्रुति -

अन्तर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषाओं के अर्थतत्व अर्थात् मूल शब्द के मूल में सम्बन्ध तत्व मिल जाता है। जैसे - माया से मायावी।

द्वित्व-

ध्वनियों या शब्दों की कई बार आवृत्तियों से सम्बन्ध तत्व का ज्ञान होता है।

जैसे - पदपटाकरोति।

ध्वनिविनियोजन-

अर्थ तत्व की ध्वनियों को कम करके अथवा बढ़ाकर सम्बन्ध तत्व को बना लिया जाता है। जैसे- प्रशस्य से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ।

1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1- संस्कृत में पद किसे कहते हैं?

उत्तर - सुबन्त और तिङन्त को पद कहते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी शब्द के आगे जब कोई सुप प्रत्यय जुड़ता है तभी वह पद कहलाता है।

प्रश्न 2- सुप् किसे कहते हैं?

उत्तर - सु से प्रारम्भ कर सुप् पर्यन्त प्रत्ययों का प्रत्याहार सुप् कहलाता है।

प्रश्न 3 - सुप् प्रत्ययों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - सुप् प्रत्यय इस प्रकार हैं-

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	सु	औ	जस्
द्वितीया	अम्	औट्	शस्
तृतीया	टा	भ्याम्	भिस्
चतुर्थी	डे	भ्याम्	भ्यस्
पंचमी	डसि	भ्यास्	भ्यस्
षष्ठी	डस्	ओस्	आम्
सप्तमी	डि	ओस्	सुप्

इस प्रकार 'सु' से लेकर 'सप्' के 'प्' तक 'सुप्' कहलाता है। इस सुप् के अन्तर्गत उपर्युक्त सभी 21 प्रत्यय आ जाते हैं।

प्रश्न 4 - सम्बोधन में किस विभक्ति का प्रयोग होता है?

उत्तर - सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।

प्रश्न 5 - तिङन्त किसे कहते हैं?

उत्तर - तिप् के ति से लेकर महिङ् के ङ् पर्यन्त तिङ् प्रत्याहार कहलाता है। तिप्, तस् आदि में से किसी भी प्रत्यय से युक्त क्रिया पद को तिङन्त कहते हैं।

प्रश्न 6 - परस्मैपद और आत्मनेपद प्रत्ययों को उल्लेख कीजिए।

परस्मैपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	तिप्	तस्	झि
मध्यम पुरुष	सिप्	थस्	थ
उत्तम पुरुष	मिप्	वस्	मस्

आत्मनेपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	त	आताम्	झ
मध्यम पुरुष	थास्	आथाम्	ध्वम्
उत्तम पुरुष	इट्	वहि	महिङ्

प्रश्न 7 - क्या केवल प्रकृति या प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तर - नहीं। केवल प्रकृति या प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 8 - वाक्यों में प्रयुक्त पदों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है?

उत्तर - वाक्यों में प्रयुक्त पदों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1. मूल शब्द।
2. मूल शब्द से जुड़ने वाले सम्बन्ध बोधक शब्द, पद और विभक्ति आदि।

प्रश्न 9 - सम्बन्ध तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।

- उत्तर - 1. स्वतन्त्र शब्द।
- 2, शब्द स्थान।
 3. प्रत्यय।
 - 4, ध्वनिगुण।
 - 5, अपश्रुति।
 - 6, द्वित्व।

7, ध्वनिविनियोजन

8, अभावात्मक ।

प्रश्न 10 - शब्द तत्व और अर्थतत्व में पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार होते हैं?

उत्तर - शब्द तत्व और अर्थतत्व में पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार होते हैं-

1. पूर्ण सहयोग।
2. अपूर्ण सहयोग।
3. दोनो स्वतन्त्र
4. अर्थ तत्व तथा सम्बन्ध तत्व की समानता।
5. लिङ्ग।
6. पुरूष ।
7. वचन ।
8. कारक ।
9. काल ।
10. वाच्य।

(ख-)

प्रश्न 1 - सुप् कितने हैं?

(क) 15 (ख) 18

(ग) 21 (घ) 25

उत्तर - (ग) 21

प्रश्न 2- सम्बोधन में होती है-

(क) प्रथमा (ख) चतुर्थी

(ग) षष्ठी (घ) सप्तमी

उत्तर - (क) प्रथमा।

प्रश्न 3- तिङ् कितने हैं?

(क) 10 (ख) 12

(ग) 18 (घ) 24

उत्तर - (ग) 18

प्रश्न 4- परस्मैपद के कितने प्रत्यय हैं?

(क) 9 (ख) 12

(ग) 15 (घ) 18

उत्तर - (क) 9।

प्रश्न 5 - आधाम् प्रत्यय है -

(क) परस्मैपदी (ख) आत्मनेपदी

(ग) उभय पदी (घ) कोई नहीं

उत्तर - (ख) आत्मनेपदी।

प्रश्न 7- संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ हैं -

(क) 6 (ख) 7

(ग) 8 (घ) 9

उत्तर - (ख) 7।

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यास्क, निरुक्त, सम्पादक डा० शिवबालक द्विवेदी (सं० 2057) - संस्कृत नवप्रभात न्यास, शारदानगर, कानपुर।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2003 ई०) संस्कृत व्याकरणम् - अभिषेक प्रकाशन, शारदानगर, कानपुर।
3. श्रीवरदराजाचार्य (सं० 2017) मध्यसिद्धान्त कौमुदी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।
4. आप्टे वाम शिवराम (1939 ई०) संस्कृत हिन्दी कोश- मोती लाल बनारसीदास बंग्लो रोड, जवाहरनगर दिल्ली।
5. द्विवेदी डा० शिवबालक (1879ई०) संस्कृत भाषा विज्ञान- ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।

1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तिवारी डा० भोलानाथ (2005 ई०) भाषाविज्ञान - किताबमहल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2005 ई०) भाषा विज्ञान - ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।
3. द्विवेदी डा० शिवबालक (2010 ई०) संस्कृत रचना अनुवार कौमुदी, हंसा प्रकाशन, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. शास्त्री भीमसेन (सं० 2006) लघुसिद्धान्तकौमुदी - लाजपतराय मार्केट दिल्ली।
5. महर्षि पतंजलि (1969 ई०) व्याकरण महाभाष्य - मोतीलाल बनारसी दास बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
6. शास्त्री चारुदेव (1969 ई०) व्याकरण चन्द्रोदय, मोतीलाल बनारसीदास, बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
7. डा० रामगोपाल (1973 ई०) वैदिक व्याकरण - नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।

1.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. संस्कृत पद-संरचना पर प्रकाश डालिए।
 2. सम्बन्ध तत्त्वों का निरूपण कीजिए।
 3. सम्बन्ध तत्त्वों और अर्थ तत्व के सम्बन्ध पर प्रकाश डालिये।
 4. संस्कृत के वाच्यों का निरूपण कीजिए।
- (ख) निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
1. सुबन्त
 2. तिङन्त
 3. परस्मैय पद प्रत्यय
 4. आत्मनेपद प्रत्यय
 5. सम्बन्ध -तत्व
 6. अर्थतत्व
 7. पुरुष
 8. वचन
 9. कारक
 10. काल
 11. लकार

इकाई 2. उपसर्ग तथा निपात

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 उपसर्ग तथा निपात -अर्थ एवं स्वरूप
- 2.4 उपसर्ग तथा निपात
 - 2.4.1 उपसर्ग-विमर्श
 - 2.4.2 निपात-विमर्श
 - 2.4.3 सारांश
- 2.5 सारांश
- 2.6 शब्दावली
- 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

संस्कृत भाषा में उपसर्गों तथा निपातों का विशेष महत्त्व है। इनके द्वारा सम्यक् अर्थ के प्रकाशन में विशेष सहायता प्राप्त होती है। ये अर्थ को प्रभावित करने में विशेष सक्षम हैं।

प्रस्तुत इकाई में उपसर्गों एवं निपातों का सम्यक्, अनुशीलन किया गया है। उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक परिवर्तित कर दिया जाता है। निपात अनेक अर्थों को प्रकट करने में सक्षम है। संस्कृत वैयाकरणों ने इनका विशेष रूप से निरूपण किया है।

इस इकाई में निपातों और उपसर्गों से सम्बन्धित विविध प्रकार की सामग्री प्रस्तुत की गयी है, जिससे आप उपसर्गों और निपातों के स्वरूप, प्रकृति तथा प्रयोजन को समझा सकेंगे और इस विषय में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप-

1. संस्कृत के उपसर्गों को जान सकेंगे।
2. संस्कृत के निपातों को समझ सकेंगे।
3. उपसर्गों के द्वारा बलपूर्वक अर्थ बदल दिया जाता है, इसकी जानकारी कर सकेंगे।
4. संस्कृत भाषा में प्र, पर आदि उपसर्गों का विशेष महत्त्व है, यह जान सकेंगे।
5. निपात अनेक प्रकार के अर्थों के प्रकट करने में सक्षम है, यह जान सकेंगे।
6. निपात अर्थ को प्रभावित करने में कितन सक्षम है? इसे जान सकेंगे।
7. उपसर्गों और निपातों का वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में महत्त्व है, इसकी जानकारी कर सकेंगे।
8. भाषा विज्ञान की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व है, यह जान सकेंगे।
9. ये साहित्यिक भाषा को भी प्रभावित करने में सक्षम है, यह जान सकेंगे।

2.3 उपसर्ग तथा निपात- अर्थ एवं स्वरूप

उप+ सृज्+ घञ = उपसर्ग। उपसर्ग प्रायः क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होते हैं और उसके अर्थकोपरिवर्तित कर देते हैं। (उपसर्गाः क्रियायोगे) इस विषय में एक कारिका भी प्रसिद्ध है-

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।

प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्॥

अर्थात् उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है, अर्थात् परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे एक ही 'हृ' धातु से निष्पन्न 'हार' शब्द से उपसर्गों के द्वारा प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार बन जाते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपसर्ग अपनी शक्ति के द्वारा पद का अर्थ बदल देते हैं।

निपाद शब्द की निष्पत्ति नि उपसर्ग पूर्वक पत् धातु का घञ् प्रत्यय के लगने से है। आचार्य यास्क का कथन है कि निपात अनेक अर्थों को प्रकट करने वाले होते हैं। अतएव निपात के विषय में कहा गया है कि वे बहुविध अर्थों को प्रकट करते हैं। 'च', 'वा', 'इव', 'अथवा', आदि निपातों की निष्पत्ति प्रकृति प्रत्ययों के आधान पर नहीं की जाती है। बृहद्देवता के रचयिता महर्षि शौनक निपातों को तीन वर्गों में परिगणित करते हैं।

1. कर्मोपसंग्रहं।
2. उपमार्थक
3. पदपूरण के लिए।

कर्मोपसंग्रहार्थे च क्वचिच्चौपम्यकारणात् ।

ऊनानां पूनणार्था वा पदानामपरे क्वचित्॥(2/13- 94)

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसंगानुकूल निपात विविध अर्थों को प्रस्तुत करते हैं।

2.4 उपसर्ग तथा निपात

2.4.1 उपसर्ग-विमर्श

जब प्र, परा आदि उपसर्ग किसी धातु के आदि में आकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। (उपसर्गाः क्रियायोगे) इस विषय में एक कारिका भी प्रसिद्ध है-

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।

प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्॥

अर्थात् उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है, अर्थात् परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे एक ही 'हृ' धातु से निष्पन्न 'हार' शब्द से उपसर्गों के द्वारा प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार बन जाते हैं।

संस्कृत के 'प्र' आदि उपसर्ग और उनका अर्थ इस प्रकार है-

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
प्र	अधिक, प्रकृष्ट	प्रहरति, प्रलपति

परा	निषेध, विरोध	पराजयते
अप	हीनता, न्यूवता	अपाकरोति, अपहरति
सम्	अच्छा	संवदति
अनु	पीछे	अनुसरति, अनुगच्छति
अव	समझना, नीचे	अवगच्छति, अवतरति
निस्-निस्	निषेध	निर्गच्छति
दुस्-दुस्	कठिन	दुश्शास्ति, दुराचरति
वि	विभिन्न, विशिष्ट, रहित	विजयते, विलपति
आङ् (आ)	सीमा, ग्रहण, विरोध आदि	आगच्छति
नि	निषेध, नीचे	निषेधति
अधि	प्रधानता, समीपता व उपरिभाव	अधिगच्छति
अति	अतिशय तथा उत्कर्ष	अतिशेते
सु	अच्छा	सुशोभते
उत्	ऊपर, ऊँचा	उत्तिष्ठति
अभि	पास, सामेन	अभिगच्छति
प्रति	प्रत्येक, बराबरी, विरोध, परिवर्तन	प्रतिभाषते
परि	आस-पास, चारों ओर	परिचरति
उप	पास, अमुख्य छोटा	उपगच्छति

विशेष- कहीं-कहीं एक से अधिक उपसर्गों का मिलकर प्रयोग हो जाता है। जैसे

वि+ अव+ हरति = व्यवहरति

अभि + नि + विशते = अभिनिविशते

उपसर्गों से युक्त कतिपय संस्कृत वाक्यों का अवलोकन करें-

1. रमेशः गच्छति = रमेश जाता है पुष्पा आगच्छति = पुष्पा आती है।
2. सा गच्छति = वह जाती है। सुरेश उपगच्छति = सुरेश पास जाता है।
3. सः नयति = वह ले जाता है। कल्पना आनयति = कल्पना लाती है।
4. अहं पतामि = मैं गिरता हूँ अहम् उत्पतामि = मैं ऊपर उठता हूँ।
5. वयं वदामः = हम लोग बोलते हैं। वयं प्रतिवदामः = हम लोग उतर देते हैं।
6. त्वं सरसि = तुम सरकते हो। त्वम् अनुसरसि = तुम पीछे-पीछे आते हो।
7. शीला भाषते = शीला बोलती है। रमा प्रतिभाषते = रमा उतर देती है।
8. यूयं हरथ तुम सब ले जाते हो। अहम् अपहरामि = मैं चुराता हूँ।

यहां हम देखते हैं कि उपसर्गों के प्रयोग से धातुओं का अर्थ बदल रहा है। उपसर्गों के प्रयोग से गम्-गच्छ् = जाना। धातु का अर्थ इस प्रकार बदल रहा है।

अवलोकन करें-

गच्छति	=	जाता है।
आगच्छति	=	आता है।
संगच्छते	=	संगत होता है।
निर्गच्छति	=	निकलता है।
अनुगच्छति	=	पीछे जाता है।
अवगच्छति	=	जानता है।
अधिगच्छति	=	प्राप्त करता है।
अभ्यागच्छति	=	सामने आता है।
प्रतिगच्छति	=	लौटता है।
अभ्युपगच्छति	=	स्वीकार करता है।
उद्गच्छति	=	ऊपर जाता है।

अपगच्छति = दूर हटता है।

कभी-कभी उपसर्गों का प्रयोग क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा शब्दों से भी होता है। जैसे-

सु पुरुषः = सुपुरुषः

प्र+ आचार्यः = प्राचार्यः

उप राष्ट्रपति = उपराष्ट्रपतिः

इस प्रकार हम देखते हैं कि पदों की संरचना में उपसर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये उपसर्ग पद का अर्थ बदल देते हैं।

2.4.2 निपात विमर्श

निपात के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए आचार्य यास्क लिखते हैं कि ये निपात अनेक प्रकार के अर्थों में गिरते हैं अर्थात् अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करने वाले होते हैं। कोई निपात उपमा के अर्थ में, कोई अर्थोपसंग्रह के अर्थ में और कुछ केवल पदपूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं-

अथ निपाता उच्चावचेषु अर्थेषु निपातन्ति ।

अप्युपमार्थे, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, अपि पदपूरणाः॥

निपात शब्द की निष्पत्ति नि उपसर्गपूर्वक पत् धातु में घञ् प्रत्यय के प्रयोग से होती है। कतिपय आचार्यों का अभिमत है कि जिस किसी प्रकार ये शब्द प्रयोग में आने लगे हैं जिनकी निष्पत्ति नहीं की जा सकती, जिनके प्रकृति-प्रत्यय के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए इनका अर्थ निपात पड़ा। अतएव-

1. जो बहुधा अर्थों का प्रकट करें।
2. जिनकी निष्पत्ति प्रकृति-प्रत्यय के आधार पर नहीं की जा सकती। आचार्य यास्क ने सामान्य रूप से इन निपातों का तीन भागों में वर्गीकरण किया है-

1. उपमार्थक - उपमा (सादृश्य) अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, इव, न, चित्, नु आदि।

2. कर्मोपसंग्रहार्थक - अर्थोपसंग्रहार्थक - अनेक अर्थों को साथ-साथ प्रकट करने वाले या दूसरे अर्थ का भी संग्रह करने वाले। यहाँ भी पूर्ववत् ('कर्मोपसंयोगद्योतकाः उपसर्गाः के समान) ही 'कर्म' शब्द का प्रयोग 'अर्थ या अभिप्राय' अर्थ में हुआ है। निरुक्त में 'कर्म' शब्द बहुधा 'अर्थवाची' ही प्रयुक्त हुआ है। इस कोटि में च, वा, अह, उ, हि, किल, खलु आदि शब्द आते हैं।

3. पदपूरण- जिनका प्रयोग मन्त्रों में केवल 'पदपूर्ति' अथवा चरणपूर्ति मात्र के लिए ही हुआ है,

किसी विशेष अभिप्राय के प्रकट करने के लिए नहीं, जैसे- नूनम् ननु, सीम्, त्व आदि।

बृहद्देवताकार महर्षि शौनक ने भी निपातों को इन्हीं तीन वर्गों में परिगणित किया है-

कर्मोपसंग्रहार्थे च क्वचिच्चौपम्यकारणात् ।

ऊनानां पूनणार्था वा पदानामपरे क्वचित् ॥ (2/13- 94)

उपमार्थक निपात के विषय में आचार्य यास्क का मत है कि उपमार्थक इव निपात लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में ही प्रयुक्त होता है-

‘इव’ इति भाषायां च, अन्वध्यायञ्च । अग्निरिव, इन्द्र इवेति ॥

न निपात का प्रयोग लौकिक संस्कृत भाषा में निषेधार्थक है। जबकि वैदिक संस्कृत में प्रतिषेध और उपमा बोधक शब्दों का बोधक है। यथा- (अ) इन्द्र को देव नहीं माना- यहाँ ‘न’ प्रतिषेधार्थक है। उस ‘न’ का (प्रतिषेध्य) पहले प्रयोग होता है जो प्रतिषेध करता है। (आ) दुर्मद = बहुत घमण्डी या उन्मत्त व्यक्ति। जैसे सुरा- मदिरा के विषय में यहाँ ‘न’ उपमा सादृश्य बोधक है। उस ‘न’ का उपमान के पश्चात् प्रयोग होता है जिसके द्वारा सादृश्य प्रस्तुत किया जाता है।

आचार्य यास्क ने इव और न के अतिरिक्त चित्, च, अ, व, ह, उ, ही, किल, नु, मा, खलु, नूनम्, अद्य, स्व, इम्, अद्भुतम्, अनन्य, , आधीतम् सीम्, कम्, इम्, इत्, नेति, त, चेत्, आदि निपातों को उद्धृत किया है। निरुक्त में निपातों का त्रिविध निरूपण हुआ है और निपातों की चर्चा इस प्रकार हुयी है-

क- उपमार्थीय इव, न, चित् न आदि।

ख- कर्मोपसंग्रहार्थीय - च, वा, अह, ह, उ, आदि।

ग- विभिन्नार्थक - नहि, किल, ननु, मा, खलु, शश्वत्, नूनम्, सीम् आदि।

घ - पदपूरण - कम्, ईम्, इत्, उ, इव आदि।

ड - समुदायनिपात - न च इत् = नचेत्, च इत् = चेत् आदि।

च - सीमतः त्व तथा त्वत्, निपात नहीं अपितु प्रातिपदिक (नाम) हैं- इनमें ‘त्व’ और ‘त्वत्’ सर्वनाम है ।

महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में स्वरादि निपात को अव्ययसंज्ञयक कहा है। स्वरादि- निपातमव्ययम् (अष्टध्यायी 1/1/37)। भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी में निपातों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है-

स्वर् (स्वः)- स्वर्गा अन्तर् (अन्तः)- मध्य । प्रातर् (प्रातः) - प्रातः काल । पुनः फिर । सनुतर (सतुतः) - अन्तर्धान । उच्चैस् (उच्चैः)- ऊर्ध्वभाग में। नीचैस् (नीचैः)- अधोभाग में। शनैस् (शनैः) -धीरे-धीरे। ऋधक्- सचमुचा ऋते- विना। युगपत् - एकसाथा आरात्-दूर या समीप में । पृथक्-भिन्ना (द्वः) - द्वः पूर्व दिन में। श्वः- पर दिन में। दिवा-दिना रात्रौ-रात में । सायम्-संध्या में। चिरम्-विलम्ब । मनाक्-थोड़ा। ईषत् बहुत थोड़ा, विजिचत् जोषम् -काना- फूँसी। तूष्णीम् -चुपा बहिस् (बहिः), अवस् (अव्) - बाहर। अधस् (अधः)- नीचे। समया, निकषा -समीपा स्वयम्-अपने ही। वृथा-व्यर्था नक्तम् - राता न, नञ्-नहीं। हेतौ-कारण। इद्धा -प्रकाश्या श्रद्धा -स्फुट । सामि -आधा। ब्राह्मणवत्-ब्राह्मण के सामाना क्षत्रियवत् -क्षत्रिय के सामान। सना, सनत्, सनात् - नित्या उपधा -घूस, न जराना। तिरस् (तिरः) - टेढ़ा, पराभवा अन्तार -मध्य, विना। अन्तरेणा -विना । ज्योक्-शीघ्र, सम्प्रति। कम-जल, निन्दा, सुखा शम्-सुख, कल्याण। सहसा- अकस्मात्। विना -अभाव। नाना- अनेका स्वस्ति -मंगल, शुभा स्वाहा - देव हवि- दान में। स्वधा-पितृहविर्दान में। अलम् -भूषण, पर्याप्त (बस), व्यर्थ । वषट् श्रौषट्, वौषट् - देवहविर्दान में। अन्यत् -और, दूसरा। अस्ति -सत्ता, विद्यमान। उपांशु -गुप्त। क्षाम-माफ। विहायसा- आकाश। दोषा -रात्रि । मृषा, मिथ्या-असत्य , झूठा। मुधा - व्यर्थ ही, निष्प्रयोजना पुरा -पहले। मिथो, मिथस् (मिथः) - परस्पर, एकान्ता प्रायस् (प्रायः) -सम्भव, हो सकता है। मुहुस (मुहुः) बार-बार। सार्धम् -साथा नमस् (नमः)- नमस्कार, प्रणाम। हिरूक् -बिना। धिक् -धिक्कार, छी-छी। अथ - अनन्तर , और अथकिम् -और नहीं तो क्या?। अम् -शीघ्र, थोड़ा, किंचिता आम् -हाँ, स्वीकार, मञ्जूरा। प्रताम्- ग्लानि। प्रशास् -नसमाना। प्रतान -विस्तार। मा, माङ्-नहीं, अस्वीकार । च पुनः, अथवा और। वा -अथवा। ह - प्रसिद्धा अह -अद्भुत, खेदा एव -अवश्य, ही। एवम् -इस प्रकार। नूनम् -निश्चय, तर्क। शश्वत् -सदा, साथ-साथ, पुनःपुनः। युगपत् -एक साथ। भूयस् (भूयः) -पुनः प्रचुर, ढेरसा। कूपत्, सपूत्-प्रश्न, प्रशंसा। कुवित् -बहुत, प्रशंसा। नेत्-शंका। चेत् चण -यदि क्वचित् -प्रश्न, कोई । यत्र- जहाँ । नह - प्रत्यारम्भ हन्त-हर्ष, विषाद । माकिः, माकिम् नकिः-विना, वर्जना नञ्-नहीं। यावत् -जब तक। त्वै, द्वै, न्वै -वितर्क । रै - दान, हीन सम्बोधन। श्रौषट्, वौषट्, स्वाहा - देवहविर्दान। अलम् -पर्याप्त। स्वधा - वषट् -पितृहविर्दान । तुम-तुमा तथाहि -जैसे, इस प्रकार। खलू, किल- निश्चया अथ -अनन्तर। सुष्ठु-अच्छा। स्म- भूतकाल । आदह -निन्दा । अवदत्ताम् -दिया। अहंयुः -अहंकारी। अस्तिक्षीरा -दूधवाली। अ - सम्बोधन, जुगुप्सा विस्मया ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ - सम्बोधन। पशु-सम्यक्। शुकम् -शीघ्र। यथाकथाच -जब कभी। पाट् प्याट्, अहं हे, है, भो- अये- सम्बोधन। घ - हिंसा। विषु -अनेक । एकपदे - सहसा। युत्-निन्दा। आतः अतः, इसलिए।

संस्कृत के निपात वाक्यरचना में विशेष महत्व रखते हैं। इनके द्वारा प्रसंगानुकूल विविध अर्थ प्रस्तुत

हो जाते हैं। जैसे - रमेशः सुरेशश्च विद्यालयं गच्छताम्। अर्थात् रमेश और सुरेश विद्यालय जायें। यहाँ प्रयुक्त च निपात समुच्चय का बोधक है।

रमेशः सुरेशो वा गीतां पठतु।

रमेश अथवा सुरेश गीता को पढ़ें। प्रस्तुत पद में प्रयुक्त वा निपात वैकल्पिक भाव को प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार संस्कृत वाक्यरचना में निपातों का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है।

2.5 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं-

1. उपसर्गों के द्वारा बलपूर्वक अर्थ परिवर्तित कर दिया जाता है।
2. प्र, परा आदि महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं।
3. “हरति” के पूर्व जब प्र उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो “प्रहरति” का अर्थ प्रहार करता है, हो जाता है।
4. कहीं-कहीं एक से अधिक उपसर्गों का मिलकर प्रयोग हो जाता है। जैसे - विउदात्त अवउदात्त हरति = व्यवहरति।
5. निपात अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करते हैं।
6. निपातों की निष्पत्ति प्रकृति प्रत्यय के आधार पर नहीं की जा सकती।
7. कभी-कभी निपातों की प्रयोग पदपूर्ति के लिये भी होता है।
8. निपातों को अव्यय संज्ञक कहा गया है।
9. निपातों का प्रयोग वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में हुआ है।

2.6 शब्दावली

उपसर्ग संस्कृत पद संरचना में विशेष महत्व रखते हैं। इसके द्वारा धातु एवं शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दिया जाता है।

गच्छति = जाता है।

आगच्छति = आता है।

व्यवहरति = यहाँ वि और आव इन दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं-कहीं उपसर्गों का दो या अधिक मिलकर प्रयोग होता है।

उत् - इस उपसर्ग का प्रयोग ऊपर या ऊँचा के अर्थ में होता है।

जैसे - उत्तिष्ठति।

प्राचार्यः - यहाँ आचार्य से पूर्व 'प्र' उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।

निपात - नि + पत् + घञ् - निपात। आचार्य यास्क लिखते हैं कि ये निपात अनेक प्रकार के अर्थों में गिरते हैं। अर्थात् अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करते हैं। इसलिए इन्हें निपात कहते हैं।

कर्मोपसंग्रहार्थक - अनेक अर्थों को बार-बार प्रकट करने वाले या दूसरे अर्थ का भी संग्रह करने वाले।

उपमार्थक - उपमा अर्थात् सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाले इव आदि पद।

पूरणार्थक - जिनका प्रयोग केवल पदपूर्ति अथवा चरण पूर्ति मात्र के लिए होता है।

जैसे - नूनम्, सीम् आदि।

समुदाय निपात- जिनका प्रयोग समुदाय के अर्थ में होता है। च, न, इत् नचेत्।

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1 - संस्कृत वाक्यसंरचना में उपसर्ग क्या करते हैं?

उत्तर - संस्कृत वाक्यसंरचना में उपसर्ग धातु या शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं।

प्रश्न 2 परा उपसर्ग के अर्थ और प्रयोग को बताइये।

उत्तर - परा उपसर्ग का अर्थ निषेध और विरोध है। जैसे - जचते में पर उपसर्ग के प्रयोग से पराजयते रूप बनता है।

प्रश्न 3 -उप उपसर्ग का अर्थ एवं प्रयोग बताइये?

उत्तर - उप उपसर्ग का अर्थ पास, अमुख्य और छोटा है। जैसे - गच्छति में उप उपसर्ग के लगने से उपगच्छति बनता है।

प्रश्न 4 -क्या एक से अधिक उपसर्गों का मिलकर प्रयोग हो सकता है?

उत्तर - हाँ, एक से अधिक उपसर्गों से मिलकर प्रयोग होता है। जैसे - वि+ अव+ हरति- व्यवहरति।

प्रश्न 5- गच्छति में आङ् उपसर्ग के प्रयोग से धातु रूप क्या बनेगा?

उत्तर - आगच्छति।

प्रश्न 6 - गच्छति में सम् उपसर्ग के प्रयोग करने से क्या रूप बनेगा?

उत्तर - संगच्छते।

प्रश्न 7 - प्राचार्यः पद में उपसर्ग बललाइए।

उत्तर - प्राचार्यः पद में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ।

प्रश्न 8- निपात शब्द की निष्पत्ति कीजिए।

उत्तर - नि+ पत् + घञ।

प्रश्न 9- निपातों का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर - निपातों तीन भागों में वर्गीकृत है-

1. उपमार्थक।
2. कर्मोपसंग्रहार्थक
3. पदपूरण

प्रश्न 10 - न निपात के वैदिक अर्थ बतलाइए।

उत्तर - वैदिक संस्कृत में न निपात के दो अर्थ हैं - प्रतिषेध और उपमा।

प्रश्न 11- क्या निपात पदों के रूप चल सकते हैं?

उत्तर - नहीं। क्योंकि निपात शब्द अव्यय है।

प्रश्न 12- सामि निपात का अर्थ लिखिए।

उत्तर - सामि निपात का अर्थ है आधा।

प्रश्न 13 - हिरूक् निपात का क्या अर्थ है।

उत्तर - बिना।

प्रश्न 14- विषु निपात का अर्थ बतलाइये।

उत्तर - अनेक।

प्रश्न 15- 'सीता गीता या गायुत ' इस वाक्य में प्रयुक्त निपात बतलाइये।

उत्तर - वा निपात।

(ख) -

1. प्राचार्यः पद में उपसर्ग है-

- | | |
|---------|---------|
| (क) प्र | (ख) आङ् |
| (ग) उप | (घ) नि |

उत्तर - (क) प्रा

2. निपात वर्गीकृत है -

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (क) तीन भागों में | (ख) चार भागों में |
| (ग) पाँच भागों में | (घ) छः भागों में |

उत्तर - (क) तीन भागों में।

3. न निपात का वैदिक अर्थ है-

- | | |
|----------|-----------|
| (क) उपमा | (ख) निषेध |
|----------|-----------|

(ग) प्रतिषेध और उपमा (घ) कोई नहीं

उत्तर - (ग) प्रतिषेध और उपमा।

4. हिरूक् निपात का अर्थ है-

(क) आधा (ख) पूरा
(ग) विना (घ) अनेक

उत्तर - (ग) विना

5. आगच्छति में उपसर्ग है-

(क) परा (ख) सु
(ग) आङ् (घ) सम्

उत्तर - (ग) आङ्।

2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यास्क, निरुक्त, सम्पादक डा० शिवबालक द्विवेदी (सं० 2057) - संस्कृत नवप्रभात न्यास, शारदानगर, कानपुर।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2003 ई०) संस्कृत व्याकरणम् - अभिषेक प्रकाशन, शारदानगर, कानपुर।
3. श्रीवरदराजाचार्य (सं० 2017) मध्यसिद्धान्त कौमुदी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।
4. आप्टे वाम शिवराम (1939 ई०) संस्कृत हिन्दी कोश - मोतीलाल बनारसीदास बंग्लो रोड जवाहरनगर दिल्ली।
5. द्विवेदी डा० शिवबालक (1879 ई०) संस्कृत भाषा विज्ञान - ग्रन्थ रामबाग, कानपुर।

2.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री।

1. तिवारी डॉ. भोलानाथ (2005 ई०) भाषाविज्ञान - किताबमहल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2005 ई०) भाषाविज्ञान - ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।
3. द्विवेदी डॉ० शिवबालक (2010 ई०) संस्कृत रचना अनुवाद कौमुदी, हंसा प्रकाशन, चांदपोल बाजार, जयपुर।

-
4. शास्त्री भीमसेन (सं० 2006) लघुसिद्धान्तकौमुदी- लाजपतराय माकेट दिल्ली।
 5. महर्षि पतंजलि (1969 ई०) व्याकरण महाभाष्य - मोतीलाल बनारसी दास बंग्लोरोड ,जवाहरनगर, वारणसी।
 6. शास्त्री चारूदेव (1969 ई०) व्याकरण चन्द्रोदय, मोतीलाल बनारसीदास, बंग्लोरोड, जवाहरनगर ,वारणसी।
 7. डा० रामगोपाल (1973 ई०) वैदिक व्याकरण - नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
-

2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

- (क) 1. संस्कृत का अर्थ बतलाकर प्रयोग कीजिये।
2. उपसर्गों का अर्थ बतलाकर प्रयोग कीजिये।
 3. निपातों पर प्रकाश डालिये।
 4. निपातों का वर्गीकरण कीजिये।
- (ख) निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
1. निपात
 2. उपसर्ग
 3. कर्मोपसंग्रहार्थक
 4. पदपूरण
 5. 'न' निपात

इकाई - 3 आख्यात पदरचना

इकाई की रूपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 आख्यात पदरचना- अर्थ एवं स्वरूप
- 3.4 आख्यात पदरचना
 - 3.4.1 आख्यात पदरचना विमर्श
 - 3.4.2 णिजन्त (प्रेरणार्थक क्रियाएँ)
 - 3.4.3 सन्नन्त्र (इच्छार्थक)
 - 3.4.4 यडन्त (यौन पुन्य तथा अतिशयार्थ)
 - 3.4.5 नामघातु
 - 3.4.6 कृदन्त
- 3.5 सारांश
- 3.6 शब्दावली
- 3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 3.10 निबन्धात्मक

3.1 प्रस्तावना

संस्कृत भाषा में चार प्रकार के पद हैं-नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपाता। इनमें आख्यात का विशेष महत्व है। आख्यात को भावप्रधान कहा गया है- “ भावप्रधानम् आख्यातम्”।

प्रस्तुत इकाई में आख्यात का अनुशीलन किया गया है। आख्यात के सम्बन्ध में संस्कृत वैयाकरणों ने विस्तारपूर्वक विचार किया है। वाक्यरचना में आख्यात की प्रायः प्रधानता रहती है।

इस इकाई में आख्यात से सम्बन्धित विविध सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिससे आप संस्कृत आख्यात के सम्बन्ध में विधिवत् समझ सकेंगे और इस विषय में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप-

1. संस्कृत आख्यात के विषय में जान पायेंगे।
2. नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात पद के इन चार भेदों में आख्यात प्रमुख हैं, यह जान सकेंगे।
3. आख्यात भावप्रधान होता है, इसकी जानकारी कर सकेंगे।
4. पदसंरचना में आख्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होती, इसकी जानकारी कर सकेंगे।
5. साधन ही क्रिया को बनाते हैं, इसे विधिवत् समझ सकेंगे।
6. संस्कृत भाषा में धातुओं से क्रियायें निर्मित होती हैं, इसका ज्ञान पा सकेंगे।
7. धातुएँ दस भागों में विभक्त हैं, इन्हें गण कहते हैं, इसे समझ सकेंगे।
8. धातुएँ परस्मैदी, आत्मनेपदी और उभयपदी के भेद से तीन प्रकार की होती हैं, इसकी जानकारी कर सकेंगे।
9. णिजन्त, सन्नन्त, यङन्त, नाम धातु आदि का ज्ञान पा सकेंगे।

3.3. आख्यात - अर्थ एवं स्वरूप

आङ् उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से क् प्रत्यय के योग से (आ + ख्या + क्) आख्यात शब्द की निष्पत्ति होती है। आख्यात को स्पष्ट करते हुए आचार्य यास्क लिखते हैं कि आख्यात भाव प्रधान होता है- भावप्रधानम् आख्यातम्।

इसका आशय यह है कि जहाँ भाव अर्थात् क्रिया प्रधान है और कारक आदि गौण हैं वह आख्यात कहलाता है। इस प्रकार आख्यात शब्द का संकेतिक अर्थ पठति, गच्छति, खादति आदि क्रिया पद होता है। केवल भू, पा, गम् आदि धातुमात्र या तिप्, तस्, झि आदि तिङ् प्रत्यय आख्यात नहीं कहलायेंगे। वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है। अतएव आचार्य यास्क स्पष्ट लिखते हैं कि जहाँ नाम और आख्यात दोनों ही पद प्रयुक्त होते हैं, वहाँ आख्यात की प्रधानता होती है। जैसे- यदि किसी वाक्य में केवल आख्यात में केवल आख्यात का ही प्रयोग होता है तो उसके द्वारा ही वाक्य में पूर्णता आ जाती है जबकि अनेक नामों के प्रयुक्त होने पर वाक्य पूर्ण नहीं होता है। जैसे- गच्छति क्रिया पद के आधान पर कर्ता को अधात् करने से निश्चितार्थकी प्रतीति हो जाती है। जबकि केवल कर्ता या अन्य रूप में प्रयुक्त किसी भी नाम के द्वारा निश्चितार्थ की प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार यहाँ गच्छति आख्यात प्रधान रूप में गमन रूप भाव क्रिया का बोध कराता है और गौण रूप में अन्य पुरुष स्थित एकवचनत्व, कर्ता पद के साथ, कर्म, करण आदि की ओर भी स्वतः समुद्भूत प्रश्नों के माध्यम से इंगित कर वाक्य गत विचार को पूर्णता प्रदान करता है।

आख्यात पद को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि पूर्वापर रूप में अवस्थित पहले तथा पीछे के वर्तमान क्रम में गच्छति आदि पदों में क्रिया के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति पर्यन्त वर्तमान भाव को आख्यात पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है।

3.4 आख्यात पद रचना

3.4.1 आख्यात पदरचना विमर्श

संस्कृत भाषा में चार प्रकार के पदसमूह - नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात बतलाये गये हैं। महर्षि यास्क अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं-

तद् यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते

चोपरसर्गनिपाताश्च तामीमानि भवन्ति॥

महाभाष्यकार पंतजलि ने इस पद जाति को चार प्रकार से विभाजित किया है-

‘ चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपर्सनिपाताश्च ।’ (1/1/1)

आख्यात की परिभाषा करते हुये आचार्य यास्क लिखते हैं कि आख्यात भाव प्रधान होता है- भावप्रधानम् आख्यातम्। (निरुक्त) इसका आशय यह है कि जहाँ भाव अर्थात् क्रिया प्रधान है और कारक आदि गौण हैं, वह आख्यात कहलाता है। इस प्रकार आख्यात शब्द का संकेतिक अर्थ

तिङन्त क्रिया पद पठति, पचति, आदि होता है। केवल तस्, झि, तिङ् प्रत्यय या भू, पा, गम् आदि धातु मात्र नहीं। तिङन्त अर्थात् क्रिया ही वाक्य में प्रधान होती है। आचार्य यास्क यह स्पष्ट करते हैं कि जहाँ नाम और आख्यात दोनों ही पद होते हैं, वहाँ भाव प्रधान होते हैं अर्थात् क्रिया की प्रधानता होती है। यदि किसी वाक्य में आख्यात् पद एकाकी होता है तो उसके द्वारा की वाक्य में पूर्णता आती है तथा अनेक नामों के प्रयुक्त होने पर भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया पद 'पठति' के आधान 'छात्रः' अध्याहृत होकर निश्चितार्थ की प्रतीति हो जाती है, - जबकि केवल कर्ता या अन्य कारण के रूप में प्रयुक्त किसी भी 'नाम' द्वारा निश्चितार्थ की प्रतीति संभव नहीं है। इस प्राकर 'पठति' आख्यात प्रधान रूप में 'पठन' रूप भाव-क्रिया का बोध कराता है और गौण रूप में अन्य पुरुषस्थ एकवचनत्व (कर्ता पद) के साथ कर्म, करण आदि की ओर भी स्वतः समुद्भूत प्रश्नों के माध्यम से इंगित कर वाक्यगत विचार को पूर्णता प्रदान करता है।

आख्यात अर्थात् तिङन्त पद का प्रयोग, कर्ता, भाव, कर्म इन रूपों में होता है और सब जगह इसकी प्रधानता रहती है। इस आख्यात के भीतर पुरुष, वचन एवं काल प्रतिबिम्बित होते हैं। जबकि यह लिंग की विशिष्टता अर्थात् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग से सर्वथा दूर होता है। जैसा कि इस सम्बन्ध में कहा गया है-

क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते।

त्रीनत्र पुरुषान् पिद्यात् कालतस्तु विशिष्यते॥

आख्यात पद को और अधिक स्पष्ट करते हुये आचार्य यास्क कहते हैं कि पूर्वापर रूप में अवस्थित अर्थात् पहले तथा पीछे के वर्तमान क्रम में व्रजति आदि पदों में क्रिया के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति पर्यन्त वर्तमान भाव को आख्यात पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है।

क्रिया साध्य होती है, उसे सिद्ध करने के लिए साधन रूपी अन्य पद नाम, कारक आदि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि साधन ही क्रिया को बनाते हैं। जैसा कि महाभाष्य में कहा गया है-

साधनं हि क्रियां निवर्तयति।(महाभाष्य- 6/1/35)

इस प्रकार साध्यावस्था पर्यन्त वर्तमान भाव प्रधानता को प्राप्त रहता है और सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाने पर वही भाव मूर्त रूप धारण कर कृदन्त प्रत्ययों के द्वारा अभिहित होता हुआ सत्ववत् (द्रव्यवत्) हो जाता है।

जब तक भाव (क्रिया) साध्यावस्था में रहता है तब क्रिया के प्रारम्भ होने से लेकर उसके सम्पन्न होने तक जो उसकी असम्पूर्ण स्थिति है उसे आख्यात द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे-व्रजति कहने पर

गमन विचारणा से प्रेरित होकर यात्रा की तैयारी, पाथेय का प्रबन्ध करना, विस्तर आदि बाँधना, वस्त्र पहनकर तैयार होना, वाहन का प्रबन्ध आदि, आदि विविध अवान्तर क्रियाकलापों का जो कि गन्तव्यस्थान के पहुँचने तक हो रहे हैं-बोध होता है। तथा 'पचति' कहने पर भोजन बनाने की विचारणा से प्रेरित होकर रसोईघर में प्रवेश, अग्नि प्रज्वलन, दाल-चावल-आटा-शाक-मसालों आदि के परिष्करण के साथ समस्त क्रमागत अवान्तर क्रियाओं से युक्त भोज्य - वस्तु के संराधन का बोध होता है। इस प्रकार 'व्रजति' और 'पचति' क्रिया के अन्तर्गत यद्यपि पूर्वापर अनेक क्रियाएँ हैं किन्तु वे सभी 'व्रजति' और 'पचति' की अंग-भूत हैं, अतः उन सभी का बोध अंगीभूत प्रधान क्रिया व्रजति या पचति आख्यात के प्रयोग से होता है।

इस सम्बन्ध में बृहदेवताकार ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-

क्रियासु बह्वीष्वभिसंश्रितो यः पूर्वाऽपरीभूतइवैक एं

क्रियाभिनिर्वृत्तिवशेन सिद्धः आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः॥

अर्थात् जो अनेक क्रियाओं पर आश्रित रहता है जिसमें क्रमागत पूर्व-पश्चात् जैसे विभाग प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में वे होते एक ही हैं तथा जो अनेक क्रियाओं की सिद्धि के साथ सिद्ध होता है उसे बुधजन आख्यात पद के द्वार व्यक्त करते हैं।

संस्कृत में धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है, क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। भू, पा, गम्, अद्, वित्, दिव्, सुन्, रूध्, तन्, क्री, और चुर आदि आज्ञा एवं विधि लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ् और लृङ्।

ये दश लकार हैं। इनमें से लेट् लकार का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है।

लट्लकार-वर्तमान काल के अर्थ में लट्लकार का प्रयो होता है। वर्तमाने लट्

जैसे - पठति।

लिट्लकार- अनद्यतन भूत परोक्ष क्रिया के अर्थ में धातु से लिट्लकार होती है।

जैसे- बभूव।

लुट्लकार- अनद्यतन भविष्यत् क्रिया को बतलाने के लिये क्रिया में लुट्लकार होता है।

जैसे- भविता।

लृटलकार- भविष्यत्काल की क्रिया को बताने के लिए धातु से लृटलकार होता है।

जैसे - भविष्यति।

लोटलकार - विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न, और प्रार्थना इन अर्थों में धातु से लोटलकार होता है।

जैसे - गच्छतु।

लङलकार - अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में धातु से लङलकार होता है।

जैसे - अपठत्।

विधिलिङलकार - विधि निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न और प्रार्थना आदि अर्थों में धातु से लिङलकार होता है।

जैसे - पठेत्।

आशीर्लिङ् - आशीर्वाद के अर्थ में धातु से लिङलकार होता है।

जैसे - भूयात्।

लुङलकार - भूतकाल में धातु से लुङलकार होता है।

जैसे - अभूत्।

लृङलकार - लिङ् के निमित्तहोने पर यदि क्रिया की असिद्धि गम्यभान हो तो धातु से लृङलकार होता है।

जैसे - अभविष्यत्।

गण- धातुएँ दश भागों में बाँटी गई हैं। इनको गण कहते हैं। यहाँ गण का अर्थ समूह है। धातुओं के उस समूह को भ्वादिगण कहते हैं जिसके आदि में भू धातु आती है। इसी प्रकार से दूसरे गणों को समझना चाहिए। ये गण 10 हैं।

1. भ्वादि
2. अदादि

3. जुहोत्यादि
4. दिवादि
5. स्वादि
6. तुदादि
7. रूधादि
8. तनादि
- 9- क्रयादि
- 10- चुरादि।

इन गणों ने आने वाले धातुयें परम्पैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी होती है।

उदाहरण के लिए भू धातु परम्पैपदी है। एध् धातु आत्मनेपदी है और रूघ् धातु उभयपदी है। संस्कृत में लकारों के स्थान पर जो तिप्, तस्, झि आदि आदेश होते हैं उन्हें परम्पैपद कहते हैं और तड् प्रत्याहार अर्थात् त से लेकर महिड् तक सभी प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है-

(लः परम्पैपदम् 1/4/ 99)

(तडानावात्मनेपदम् 1/4/100)

आत्मनेपद के चार निमित्त हैं-

1. अनुदात्त
2. डित्
3. स्वरितेत् तथा

4. जित् - इन चार आत्मनेपद के निमित्तोंका विचार करने के बाद 'तिड्' लेना चाहिए। यदि आत्मनेपद के निमित्तों में से कोई आत्मनेपद न हो तो परम्पैपद का प्रयोग करना चाहिए। 'भू- धातु से परम्पैपद ही आयेगा क्योंकि यहाँ आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है।

इन तिड् के दोनों पदों आत्मनेपदों और परम्पैपदों के तीन त्रिक अर्थात् तीन के समूह हैं। उनकी क्रम

से पहले की प्रथम, दूसरे की मध्यम और तीसरे की उत्तम संज्ञा होती है, तिङ्स्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमाः। (अष्टाध्यायी - 1/4/ 101)

इस प्रकार तिङ्प्रत्याहार में परस्मैपद और आत्मनेपद के भेद से नौ-नौ प्रत्यय हैं और उन नौ प्रत्ययों के भी तीन वर्ग बने हुए हैं। उन तिङ् के त्रिकों अर्थात् प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञाओं के तीनों वर्गों के प्रत्ययों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। इसे पुरुष वचन सूचक चक्र से समझें-

परस्मैपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	तिप्	तस्	झि
मध्यम पुरुष	सिप्	थस्	थ
उत्तम पुरुष	मिप्	वस्	मस्

आत्मनेपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	त	आताम्	झ
मध्यम पुरुष	थास्	आथाम्	ध्वम्
उत्तम पुरुष	इट्	वहि	महिङ्

इस प्रकार एक धातु क्रिया की एक अवस्था (काल) आदि को प्रकट करने को तीन पुरुष एवं तीन वचन = 9 रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमानकाल में लट् लकार से युक्त एक परस्मैपद और एक आत्मनेपद धातु को उद्धृत कर रहे हैं।

परस्मैपदी पठ् (पठना) धातु (वर्तमानकाल) लट् लकार

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठति	पठतः	पठन्ति

मध्यम पुरुष पठसि पठथः पठथ

उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः

आत्मनेपदी शुभ् (शोभ्)= शाभित होना वर्तमान काल लट् लकार

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	शोभते	शोभेते	शोभन्ते
मध्यम पुरुष	शोभसे	शोभेथे	शोभध्वे
उत्तम पुरुष	शोभे	शोभावहे	शोभामहे

1. कर्तृवाच्य
2. कर्मवाच्य
3. भाववाच्य

संस्कृत में लगभग दो हजार धातुएँ हैं। जिनसे अनेक रूपों की रचना होती है। धातुओं से पूर्व उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। जिससे उन धातुओं का अर्थ ही बदल जाता है। उपसर्गों के सम्बन्ध में महर्षि पाणिनि इस प्रकार लिखते हैं-

उपसर्गाः क्रियायोगे। (अष्टाध्यायी - 1/4/59)

उपसर्ग उनका अर्थ और प्रयोग का अवलोकन करें-

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
प्र	अधिक, प्रकृष्ट	प्रहरति, प्रलपति
परा	निषेध, विरोध	पराजयते
अप	हीनता, न्यूनता	अपाकरोति, अपहरति
सम्	अच्छा	संवदति
अनु	पीछे	अनुसरति

अव	समझना,	नीचे	अवगच्छति
निस्-निस्	निषेध		निर्गच्छति
दुस्-दुर्	कठिन		दुश्शास्ति, दुराचरति
वि	विभिन्न		विजयते
आङ् (आ)	सीमा, ग्रहण,		विरोध आदि आगच्छति
नि	निषेध, नीचे		निषेधति
अधि	प्रधानता,		समीपता अधिगच्छति
अति	अतिशय तथा		उत्कर्ष अतिशेते
सु	अच्छा		सुशोभते
उत्	ऊपर, ऊँचा		उपतिष्ठति
अभि	पास, सामने,		अभिगच्छति
प्रति	प्रत्येक, बराबरी,		प्रतिभाषते
परि	आस-पास		परिचरति
उप	पास, अमुख्य,		उपगच्छति

कहीं-कहीं एक से अधिक भी उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे - वि+ अव + हरति = व्यवहरति
अभि+ नि+ विशते = अभिनिविशते।

3.4.2 णिजन्त (प्रेरणार्थक क्रियाएँ)

नियम-

1. एक कर्ता तो किसी कार्य को स्वयं करने वाला होता है और दूसरा कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा कराने वाला होता है। जो कार्य करने वाले को प्रेरित करता है, उसे प्रयोजक कर्ता

कहते हैं तथा जिसको प्रेरणा दी जाती है उसे प्रयोज्य कहते हैं। जैसे- रमेशः ग्रामं गच्छति = रमेश गाँव जाता है- यहाँ 'रमेश' स्वयं गमन क्रिया करने वाला है, अतः वह साधारण दशा का कर्ता है। सुरेशः रमेशं ग्रामं गमयति = सुरेश रमेश को ग्राम भेजता है। यहाँ 'रमेश' ग्राम को जाता है। 'सुरेश' उसे जाने के लिए प्रेरित करता है, अतः सुरेश प्रयोजक (प्रेरित करने वाला) कर्ता है तथा रमेश को प्रेरणा दी जा रही है, अतः वह प्रयोज्य कर्ता है।

2. प्रयोजक (प्रेरित करने वाला) कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोज्य (जिसे प्रेरणा दी जाती है) कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे- पुष्पा भृत्येन ओदनं पाचयति = पुष्पा नौकर से चावल पकवाती है। यहाँ 'पुष्पा' प्रयोजक कर्ता के रूप में है, अतः उसमें प्रथमा तथा 'भृत्य' प्रयोज्य कर्ता के रूप में है, अतः उसमें तृतीया विभक्ति होती है।

जैसे-

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1. | गुरुः रमेशं पाठयति | = | गुरु रमेश को पढाता है। |
| 2. | पुष्पा तं ग्रामं गमयति | = | पुष्पा उसे गाँव भेजती है। |
| 3. | सा रमया ओदनं पाचयति | = | वह रमा से चावल पकवाती है। |
| 4. | आचार्यस्तं रामेण पाठयिष्यति | = | आचार्य उसे राम से पढवायेगा। |
| 5. | सुरेशस्तं वृक्षमारोहयति | = | सुरेश उसे वृक्ष पर चढाता है। |

3.4.3 सन्नत (इच्छार्थक)

नियम

1. पठितुम् इच्छति = पढने की इच्छा करता है' इस आशय को प्रकट करने के लिए दो धातुओं (पठ् इच्छ्) के स्थान पर सन्नत पठ् ही क्रियापद का प्रयोग होता है। जैसे -रमेशः पठितुम् इच्छति ' (रमेश पढना चाहता है) के स्थान पर, रमेशः पिपठिषति' भी उसी अर्थ को प्रकट करता है।

2. यदि इच्छा तथा धातु के कर्म का कर्ता एक ही हो तो इच्छा के अर्थ में धातु के बाद 'सन्' प्रत्यय होता है। धातु से सन् प्रत्यय लगने पर द्वित्व, कहीं-कहीं पर इत्व, इट् का आगम तथा षत्व कार्य होते हैं। जैसे - पठ् + सन् = पिपठिष + ति = पिपठिषति।

3. प्रायः परस्मैपदी धातुएँ सन् लगने पर परस्मैपदी होती हैं तथा आत्मनेपदी धातुएँ सन् लगने पर आत्मनेपदी रहती हैं।

1. छात्राः पिपठिषन्ति = छात्र पढने की इच्छा करते हैं।
2. ताः बालिकाः लिलेखिषन्ति = वे बालिकार्ये लिखने की इच्छा करती हैं।
3. तौ धनं लिप्सेते - वे दोनों धन पाने की इच्छा करते हैं।

3.4.4 यङन्त पौनः पुन्य तथा अतिशयार्थ

नियम-

1. क्रिया के पुनः पुनः अथवा अधिक होने के अर्थ में धातु से 'यङ्' प्रत्यय लगता है।
2. 'यङ्' प्रत्यय में 'य' शेष रहता है, धातु को द्वित्व हो जाता है, द्वित्व में कुछ परिवर्तन भी होते हैं तथा यङन्त धातुओं के रूप आत्मनेपद में चलते हैं। जैसे- दा (धातु) + य (यङ्) = देदीय + त = देदीयते।

1. पुष्पा पुष्पं जेघ्रीयते = पुष्पा फूल को पुनः पुनः सूँघती हैं।
2. धनिकाः धनं देदीयन्ते = धनी लोग धन बार - बार दे रहे हैं।
3. कृषकाः क्षेत्रं चरीकृष्यन्ते = किसान खेत को पुनः पुनः जोत रहे हैं।

3.4.5 नामधातु-

नियम-

1. नाम अर्थात् प्रातिपदिक या सुबन्त पद के कुछ प्रत्यय लगाकर जो धातु बनायी जाती है, उसे 'नामधातु' कहते हैं। जैसे सुबन्त 'पुत्र' शब्द से पुत्रीयति।
2. नामधातु में विभिन्न अर्थों में विभिन्न प्रत्यय लगते हैं। जैसे-

पुत्रीयति - आत्मनः पुत्रमिच्छति - पुत्र + क्यच् = पुत्र की इच्छा करता है।

विष्णूयति द्विजम् - विष्णुमिवाचरित - विष्णु + क्यच् = ब्राह्मण से विष्णु के समान व्यवहार (आचरण) करता है।

कृष्णति - कृष्ण इवाचरति - कृष्ण + क्विप् = कृष्ण के समान आचरण करता है।

लोहितायते - ति - लोहित + क्यष् = लाल हो जाता है।

शब्दायते - शब्दं करोति - शब्द - क्यङ् = शब्द करता है।

विशेष - क्यङ्प्रत्ययान्त शब्दों के रूप आत्मनेपद में चलते हैं।

1. पुष्पा छात्रं पुत्रयति = पुष्पा छात्र के साथ पुत्र के समान आचरण करती है।
2. सः कृष्णति = वह कृष्ण के समान आचरण करता है।
3. सुरेशः कलहायते = सुरेश कलह करता है।

3.4.6 (क) कृत्यप्रत्यय

नियम-

1. कृत्य प्रत्यय जिसके अन्त में होता है , वह 'कृदन्त' कहलाता है। से कृत्य प्रत्यय धातुओं से ही होने वाले 18 तिङ् प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। इन कृत्य प्रत्ययों से संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा क्रियापद बनते हैं।
2. तव्यत्, तव्य, अनीयर, यत् ण्यत् और क्यप् प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता है।
3. कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तथा कर्म के ही लिङ् तथा वचन के अनुसार क्रिया का भी लिङ्ग एवं वचन होता है। जैसे- त्वया धर्मः चेतव्यः, मया कर्म कर्तव्यम् तथा रूप्यके नेतव्ये इत्यादि।
4. भाववाच्य की क्रिया में नपुंसकलिंग तथा एकवचन का ही प्रयोग होता है।

जैसे - त्वया एधितव्यम्, ताभिरेधितव्यम् इत्यादि।

उदाहरण-

1. तेन ग्रामः गन्तव्यः - उसे गाँव को जाना चाहिए।
2. त्वया तत्कर्म कर्तव्यम् - तुम्हें वह काम करना चाहिए।
3. त्वया एधनीयम् - तुम्हें बढना चाहिए।

(ख) कृत् प्रत्यय-

नियम-

1. क्त (त) और क्तवतु (तवत्) प्रत्यय भूतकालीन है। अतएव इनका प्रयोग भूतकाल में होता है।
 2. 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है तथा 'क्तवतु' प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। जैसे - मया पाठः पठितः - मैंने पाठ पढा (क्त प्रत्यय) तथा सः पाठं पठितवान् = उसने पाठ पढा (क्तवतु प्रत्यय)
 3. 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातुओं से कर्म में होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। 'क्त' प्रत्ययान्त क्रियापद में कर्म के अनुसार लिङ्ग तथा वचन का प्रयोग होता है। जैसे - तेन पाठः पठितः, मया पुस्तके पठिते, मया पुस्तकाति पठितानि।
 4. अकर्मक धातुओं से 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग कर्ता तथा भाव दोनो मे ही होता है। जब 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग कर्ता में होता है। तब 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के अनुसार प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे - रामः गतः। जब 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग भाव में होता है, तब कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा के एकवचन में प्रयुक्त होता है जैसे - देवेन हसितम्।
 5. 'क्तवतु' प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक से कर्ता में होता है। इसके कर्ता में प्रथाम विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्रिया में लिग् तथा वचन कर्ता के समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे - रमेशः जलं पीतवन् = रमेश ने जल पिया। तौ वनं गतवन्तौ = वे दोनों वन गये।
 6. गत्यर्थक, अकर्मक, श्लिष् शीङ्, स्था, आस्, वस्, जन्, रूह, जृ - इन धातुओं से 'क्त' प्रत्यय कर्ता में होता है। जैसे स गतः वृक्षामारूढ कपिः।
 7. कभी-कभी क्त क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे - वनं गतः रामः तथाकरोत् - यहाँ वनं गतः यह रामः का विशेषण है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर 'क्त' तथा क्तवतु' प्रत्ययान्त शब्दों के लिङ्ग वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं।
1. तेन पाठः पठितः = उसने पाठ पढा।
 2. बालकेन फलं भक्षितम् = बालक ने फल खाया।
 3. रामेण सीता त्यक्ता = राम ने सीता को छोड़ा।

3.5 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं'

1. संस्कृत भाषा में आख्यात का महत्वपूर्ण स्थान है। आख्यात के सम्बन्ध में संस्कृत वैयाकरणों ने विधिवत् प्रकाश डाला है।
2. पद रचना के लिए आख्यात आवश्यक है।
3. आख्यात की परिभाषा करते हुए आचार्य यास्क बतलाते हैं कि जहाँ भाव अर्थात् क्रिया प्रधान हो, वह आख्यात कहलाता है।
4. पूर्वापर रूप में अवस्थित पहले और पीछे के वर्तमान क्रम में पठति आदि पदों में क्रिया के प्रारम्भ से लेकर सामप्ति पर्यन्त वर्तमान भाव को आख्यात कहते हैं।
5. जब तक क्रिया साध्यावस्था में रहती है तब तक क्रिया के प्रारम्भ होने से उसके सम्पन्न होने तक जो उसकी असम्पन्न स्थिति है, उसे आख्यात के द्वारा व्यक्त करते हैं।
6. संस्कृत भाषा में धातुओं से क्रियाएँ निर्मित होती हैं।
7. धातुएँ 10 भागों में विभक्त हैं, इन्हें गण कहते हैं।
8. धातुएँ परमैयपदी, आत्मनेपदी, और उभयपदी होती हैं।
9. धातुओं से अनेक रूपों की रचना होती है।
10. संस्कृत में तीन वाच्य होते हैं - कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, भाववाच्य।

3.6 शब्दावली

आख्यात-आख्यात पद की निष्पत्ति आङ् (आ) उपसर्गपूर्वक ख्या धातु से क्त प्रत्यय के योग से होती है। यहाँ आख्यात पद का अर्थ क्रिया है। जैसे कि निरुक्त में कहा गया है। भावप्रधानम् आख्यातम्। आख्यात शब्द की व्युत्पत्ति आपटे द्वारा रचित संस्कृत हिन्दी कोष में इस प्रकार की गयी है- धात्वर्थेन विशिष्टस्य विधेयत्वेन बोधन समर्थस्वार्थयत्नस्य शब्दो वाख्यात उच्यते।

(संस्कृत हिन्दी कोष - वामन शिवराम आपटे पृ0 139)

तिङन्त- यह प्रत्याहार है। इसके अन्तर्गत 18 प्रत्यय आते हैं। ये 18 प्रत्यय निम्नलिखित हैं-

परस्मैपद

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	तिप्	तस्	झि
मध्यम पुरुष	सिप्	थस्	
उत्तम पुरुष	मिप्	वस्	भस्
आत्मनेपद			

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	त	आताम्	झ
मध्यम पुरुष	थास्	आथाम्	ध्वम्
उत्तम पुरुष	इट्	वहि	महिङ्

लकार- लट्, लिट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लिङ्, लुङ् और लुङ् से दश लकार हैं।

इनमें से लेट् लकार का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है। ये विभिन्न कालों के वाचक हैं। इनमें से कुछ लकार आज्ञा, निमन्त्रण आदि अर्थ विशेष को भी बतलाते हैं।

धातु- धा धातु से तुल् प्रत्यय के योग से धातु शब्द निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ हैं संघटम या मूल भाग। संस्कृत भाषा में धातुओं से क्रियाओं का निर्माण होता है। क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। जैसे- भू, एध, आदि।

लट्- वर्तमान के अर्थ में लट् लकार का प्रयोग होता है। (वर्तमान लट्)

लिट्- परोक्ष भूत अनद्यतन क्रिया के अर्थ में लिट् लकार का प्रयोग होता है। (परोक्षे लिट्)

लृट् - अनद्यतन भविष्यत् क्रिया के अर्थ में लृट् लकार का प्रयोग होता है। (अनद्यतने लृट्)

लोट् - भविष्यत् काल में होने वाल क्रियाओं का ज्ञान कराने के लिए लृट् लकार का प्रयोग होता है। (लृट् शेषे च)

लोट्- आज्ञा, निमन्त्रण, आमन्त्रण , अधीष्ट सम्प्रश्न और प्रार्थना इन अर्थों में धातुओं से लोट् लकार होता है। (लोट् च)

लङ् - यह लकार अनद्यतन भूतकाल को द्योतित करता है। (अनद्यतने लङ्)

विधिलिङ् विधि, निमन्त्रण आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न और प्रार्थना इन अर्थों से धातु में लिङ् लकार होता है। (विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रार्थनेषु लिङ्)

आशीर्लिङ् यह लकार आशीर्वाद अर्थ को द्योतित करती है। (आशिषि लिङ्लोटौ)

लुङ्- यह लकार भूतकाल में होने वाले सभी प्रकार की क्रियाओं का बोध करता है। आसन्नभूतकालिक कार्यों के लिए इसका अधिक प्रयोग होता है। (लुङ्)

लृङ्- लिङ् के निमित्त होने पर क्रिया की असिद्धि गम्यमान हो तो भविष्यत् काल में धातु से लृङ् लकार होता है। (लिङ्निमित्तौ लृङ् क्रियातिपत्तौ)

गण- गण धातु से अच् प्रत्यय के योग से गण शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ समूह है। संस्कृत की धातुएं दश भागों में बाँटी गई हैं, इनको गण कहते हैं। यहाँ गण का अर्थ समूह है। धातुओं के उस समूह को भ्वादिगण कहते हैं जिसके आदि में भू धातु हो। इसी प्रकार से दूसरे गणों को समझना चाहिए। ये गण 10 हैं।

1. भवादि
2. अदादि

3. जुहोत्यादि
4. दिवादि
5. स्वादि
6. तुदादि
7. रूधादि
8. तनादि
- 9- क्रयादि
11. चुरादि।

परस्मैपद

परस्मै = परार्थ पदम् = परस्मैपदम् दूसरे के लिए प्रयुक्त वाच्य। इसमें संस्कृत की धातुओं के रूप चलते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कहा गया है कि आत्मनेपद के निमित्त से हीन धातु से कर्ता (कर्तृवाच्य) में परस्मैपद होता है। (शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्)

आत्मनेपद-

आत्मने = आत्मार्थफलबोधनाय पदम् अर्थात् आत्मवाची क्रिया पद।

तद् प्रत्याहार तथा शानच् और कानच् की आत्मनेपदसंज्ञा होती है-

1. अनुदात्तेत्
2. इति
3. स्वरितेत् तथा

4. जित्, ये चार आत्मनेपद के निमित्त हैं। इन निमित्तों के होने पर आत्मनेपद होता है।

उपसर्ग- उप उपसर्गपूर्वक सृज् धातु से धञ प्रत्यय के योग से उपसर्ग शब्द की निष्पत्ति होती है। ये धातु के पूर्व लगते हैं। इनके सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है- उपसर्ग- निपाताश्चादयोज्ञेयाः प्रादयस्तूपसर्गकाः द्योतकत्वात् क्रियाकत्वात् क्रियायोगे लोकादवगता इमे।

प्र परा आदि 20 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों की विशेषता के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं। एक सिद्धान्त के अनुसार तो धातुओं से अनेक अर्थ होते हैं। जब उपसर्ग उन धातुओं के केवल धातुओं में पहले से विद्यमान परन्तु गुप्त पड़े हुए अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं। वे स्वयं अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं। वे स्वयं अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करते क्योंकि वे स्वयं अर्थहीन ही हैं। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार उपसर्ग अपना स्वतन्त्र अर्थ प्रकट करते हैं। वे धातुओं के अर्थों में सुधार करते हैं, बढ़ाते हैं और उनके अर्थों को बदल देते हैं। अतएव कहा गया है कि धात्वर्थ बाधते कश्चित्कश्चित्तमनुवर्तते, तमेव विशिनष्टि अन्य उपसर्गगतिस्त्रिधा॥

णिजन्त- जब धातुओं में णिच् प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उन्हें णिजन्त कहते हैं। एक कर्ता किसी कार्य को स्वयं करने वाला होता है। दूसरा कर्ता किसी दूसरे के द्वारा कार्य करानेवाला होता है। जो

कार्य करने वाले को प्रेरित करता है उसे प्रयोजक कर्ता कहते हैं। जिसको प्रेरणा दी जाती है , उसे प्रयोज्य कहते हैं। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रयोज्य कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। णिच् प्रत्यय के प्रयोग करने से धातु रूप बदल जाता है। जैसे - गच्छति- गमयति।

यङन्त- क्रिया पुनः-पुनः अथवा अधिक होने के अर्थ में यङ् प्रत्यय लगता है। ऐसी धातुओं को यङन्त कहते हैं। जैसे - दा धातु से यङ् प्रत्यय के लगने पर देदीयते रूप बनता है।

नामधातु- नाम अर्थात् प्रातिपदिक या सुबन्त से प्रत्यय लगाकर जो धातु बनायी जाता है , उसे नामधातु कहते हैं।

जैसे- सुबन्त कृष्ण शब्द से क्विच् प्रत्यय के लगने से कृष्णति रूप बनता है।

कृदन्त- धातुओं से 18 तिङ् प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं, उन्हें कृत् प्रत्यय कहते हैं और कृत् प्रत्यय जिनक अन्त में होते हैं उन्हें कृदन्त कहते हैं।

जैसे - चि + तव्य = चेतव्य।

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(ख) 1. तिङन्त में कितने प्रत्यय हैं?

क- 12 ख- 18

ग- 20 ध- 24

उ0 - ,ख- 18

2- परस्मैपदी प्रत्यय हैं-

क- 9 ख- 10

ग- 12 ध- 15

उ0 - क- 9

3- लकारों हैं-

क- 8 ख- 10

ग- 12 ध- 18

उ0 - ,ख- 10

4- वर्तमान काल के अर्थ में लकार का प्रयोग होता है-

क- लट् ख- लिट्
ग- लृट् ध- लृट्

उ0 - क- लट्

5- गण हैं-

क- 8 ख- 10
ग- 15 ध- 18

उ0 - ,ख- 10

6- गभयति में प्रत्यय लगता है-

क- णिच् ख- सन्
ग- घञ ध- तव्य

उ0 - क- णिच्।

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यास्क, निरुक्त, सम्पादक डा0 शिवबालक द्विवेदी (सं0 2057) - संस्कृत नवप्रभात न्यास, शारदानगर, कानपुर।
2. द्विवेदी डा0 शिवबालक (2003 ई0) संस्कृत व्याकरणम् - अभिषेक प्रकाशन, शारदानगर, कानपुर।
3. श्रीवरदराजाचार्य (सं0 2017) मध्यसिद्धान्त कौमुदी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।
4. आप्टे वाम शिवराम (1939 ई0) संस्कृत हिन्दी कोश- मोती लाल बनारसीदास बंग्लो रोड, जवाहरनगर दिल्ली।
5. द्विवेदी डा0 शिवबालक (1879ई0) संस्कृत भाषा विज्ञान- ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।

3.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तिवारी डा0 भोलानाथ (2005 ई0) भाषाविज्ञान - किताबमहल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी डा0 शिवबालक (2005 ई0) भाषा विज्ञान - ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।

3. द्विवेदी डा0 शिवबालक (2010 ई0) संस्कृत रचना अनुवार कौमुदी, हंसा प्रकाशन, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. शास्त्री भीमसेन (सं0 2006) लघुसिद्धान्तकौमुदी - लाजपतराय मार्केट दिल्ली।
5. महर्षि पतंजलि (1969 ई0) व्याकरण महाभाष्य - मोतीलाल बनारसी दास बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
6. शास्त्री चारूदेव (1969 ई0) व्याकरण चन्द्रोदय, मोतीलाल बनारसीदास, बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
7. डा0 रामगोपाल (1973 ई0) वैदिक व्याकरण - नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।

3.10 निबन्धात्मक प्रश्न

(क)

1. आख्यात के स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
2. 10 लकारों का नाम लिखकर उनका विश्लेषण कीजिए।
3. आत्मनेपद के निमित्तों का उल्लेख कीजिए।
4. संस्कृत के वाच्यों पर प्रकाश डालिए।
5. नामधातु के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

1. लिट् लकार
2. लृट् लकार
3. परस्मैपद
4. आत्मनेपद
5. यङन्त
6. कृदन्त

खण्ड तीन - ध्वनि विज्ञान

इकाई 1 .संस्कृत ध्वनियों का विकासक्रम

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 संस्कृतध्वनियों का विकास क्रम अर्थ एवं स्वरूप
- 1.4 संस्कृतध्वनियों का विकासक्रम
 - 1.4.1 वैदिक संस्कृत
 - 1.4.2 वैदिक भाषा की ध्वनियाँ
 - 1.4.3 लौकिक संस्कृत
 - 1.4.4 लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ
 - 1.4.5 प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण
 - 1.4.6 आभ्यन्तर एवं बाह्य भेद से ध्वनियों का वर्गीकरण
 - 1.4.6.1 आभ्यन्तर प्रयत्न
 - 1.4.6.2 बाह्य प्रयत्न
 - 1.4.6.3 संस्कृत वैयाकरणों द्वारा ध्वनि विभाजन
 - 1.4.6.4 बाह्य प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के ग्यारह भेदों का विश्लेषण
- 1.5 सारांश
- 1.6 शब्दावली
- 1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसूची
- 1.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

संस्कृत वाङ्मय अपनी अनेक मौलिक विशेषताओं के कारण विशेष महत्व रखता है। संस्कृत भाषा में ध्वनियों का विशेष महत्व है। ध्वनियों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अन्तर्गत आता है।

प्रस्तुत इकाई में संस्कृत ध्वनियों के विकास क्रम का अनुशीलन किया गया है। संस्कृत ध्वनियों के सम्बन्ध में प्राचीनकाल से ही विश्लेषण होता चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में महर्षि यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पंतजलि आदि आचार्यों ने मौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं।

इस इकाई में संस्कृतध्वनियों के विकासक्रम से सम्बन्धित विषय को प्रस्तुत किया गया है, जिससे आप संस्कृतध्वनियों के विकासक्रम को विधिवत् समझ सकेंगे और इस विषय में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप-

- संस्कृतध्वनियों के विकासक्रम को जान पायेंगे।
- वैदिक संस्कृतध्वनियों को समझ पायेंगे।
- वैदिक भाषा की मूल बावन ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- लौकिक संस्कृत की ध्वनियों के विषय में जानकारी पा सकेंगे।
- सुप्रसिद्ध 14 माहेश्वर सूत्रों की जानकारी पा सकेंगे।
- ध्वनियों के भेदों प्रभेदों को जान सकेंगे।
- स्थान और प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों को समझ सकेंगे।
- किसी ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है? इसकी जानकारी पा सकेंगे।
- प्रयत्न के अनुसार उच्चरित ध्वनि की जानकारी कर सकेंगे।
- आभ्यन्तर प्रयत्नों को समझ सकेंगे।
- विचार, संवार, श्वास आदि बाह्य प्रयत्नों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

1.3 संस्कृत ध्वनियों का विकास क्रम- अर्थ एवं स्वरूप

संस्कृतध्वनियों का मूल रूप वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल से लेकर नवें मण्डल तक का भाग भाषा की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन माना गया है। वैदिक वाङ्मय के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि वैदिक भाषा का क्रमिक विकास होता गया। इसी प्रकार वैदिक ध्वनियों के भी विषय में कहा जा सकता है। वैदिक भाषा की मूल ध्वनियाँ 52 हैं जो कि इस प्रकार हैं-

- 1- मूलस्वर - ह्रस्व - अ, इ, उ, ऋ, लृदीर्घ - आ, ई, ऊ, ऋ
- 2- संयुक्त स्वर - ए (अ उदात्त इ) ओ (अ उदात्त उ) औ (आ उदात्त उ)
- 3- स्पर्श व्यञ्जन - कण्ठ्य - क् ख् ग् घ् ङ् ।
तालव्य - च् छ् ज् झ् ञ् ।
मूर्धन्य - ट् ठ् ड् ढ् ल्ह् ण् ।
दन्त्य - त् थ् द् ध् न ।
ओष्ठ्य - प् फ् ब् भ् म् ।
- 4- अन्तः स्थ - य् र् ल् व् ।
- 5- ऊष्म - श् (तालव्य) ष् (मूर्धन्य) स् (दन्त्य) ।
- 6- महाप्राण - ह्
- 7- शुद्ध अनुनासिक - अनुस्वार
- 8- अघोष संघर्षी -: विसर्ग (विसर्जनीय)
- जिह्वामूलीय
- उपध्मानीय

यद्यपि इन ध्वनियों में से कुछ ध्वनियों के विषय में विद्वान् एक मत नहीं है। परन्तु यही वैदिक ध्वनियाँ विकसित होती हुईं लौकिक संस्कृत ध्वनियों का स्वरूप ग्रहण करती है।

1.4 संस्कृत ध्वनियों का विकासक्रम

1.4.1 वैदिक संस्कृत

संस्कृत की ध्वनियों के अध्ययन के लिए हमें वैदिक संस्कृत का अनुशीलन करना होगा। वैदिक संस्कृत - इस काल की भाषा को छन्दस् या प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं। छन्दस् भाषा में हिन्दू धर्म के मूलाधार वेदों की रचना की गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् साहित्य का प्रणयन वैदिक संस्कृत में ही हुआ है। वैदिक साहित्य का निर्माण एक काल में न होकर अधिक समय में हुआ है। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल से लेकर नवें मण्डल तक का भाग भाषा की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भाषा का क्रमिक विकास होता गया है। जब आर्यों की निवास भूमि सप्तसिन्धु पंजाब के आस-पास का क्षेत्र था, उस काल की साहित्यिक रचनाओं के वैदिक संस्कृत का प्राचीन रूप मिलता है। मध्यप्रदेश में हुई रचनाओं में वैदिक भाषा का निखरा हुआ रूप पाया जाता है। उसके बाद भी आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर होता रहा। उस समय की भाषा भी अपने विकसित रूप से और आगे बढ़ चुकी थी। वैदिक संस्कृत में यत्र तत्र भाषा सम्बन्धी अन्तर पाया जाता है। अत्यन्त प्राचीन रूप में रेफ का प्रयोग अधिकता से किया जाता था किन्तु बाद की संस्कृत में रेफ का प्रयोग कम हो गया तथा लकार के प्रयोग का आधिक्य हो गया। ऋग्वेद की प्राचीनतम भाषा में पुँल्लिंग आकारान्त शब्दों के प्रथमा द्विवचन में आ का प्रयोग अधिक किया जाता था जो ओग चल कर औ के रूप में प्रचलित हो गया। जैसे - द्वार सुपर्णा सयुजा सखाया में आकार का प्रयोग ऋग्वेद के दशम मण्डल में “मा वामेतौ मा परेतो रिषाम् ” में औकार के रूप में प्रचलित हो गया। प्राचीन भाषा में तुमुन् प्रत्यय का अधिक प्रयोग हुआ है। भाषा सम्बन्धी भिन्नता लौकिक संस्कृत की तुलना में अधिक हो गयी थी।

1.4.2 वैदिक भाषा की ध्वनियाँ

वैदिक भाषा में मूलतः बावन ध्वनियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं-

- 1- मूलस्वर -ह्रस्व - अ, इ, उ, ऋ, लृ
दीर्घ - आ, ई, ऊ, ऋ
- 2- संयुक्त स्वर - ए (अ उदात्त इ) ओ (अउदात्त उ) औ (आ उदात्त उ)
- 3- स्वर्श व्यञ्जन - कण्ठ्य - क् ख् ग् घ् ङ् ।
तालव्य - च् छ् ज् झ् ञ् ।

मूर्धन्य	- ट् ढ् ढ् लह् ण् ।
दन्त्य	- त् थ् द् ध् न ।
ओष्ठ्य	- प् फ् ब् भ् म् ।

- 4- अन्तः स्थ - य् र् ल् व् ।
- 5- ऊष्म - श् (तालव्य) ष् (मूर्धन्य) स् (दन्त्य) ।
- 6- महाप्राण - ह्
- 7- शुद्ध अनुनासिक - अनुस्वार
- 8- अघोष संघर्षी - :
विसर्ग (विसर्जनीय)
- जिह्वामूलीय
- उपध्मानीय

इन ध्वनियों में कुछ ध्वनियों के विषय में विद्वान् एक मत नहीं हैं। कतिपय विद्वान् ए तथा ओ को मूल स्वर मानकर उनका संयुक्त रूप ऐ तथा औ मानते हैं। कुछ विद्वान् संस्कृत की मूर्धन्य ध्वनियों को द्रविड भाषाओं से ली गयी बताते हैं।

घोष ह का अघोष ह विसर्गः माना जाता है। जिह्वामूलीय का उच्चारण ख की तरह होता था तथा उपध्मानीय का उच्चारण फ की तरह होता था। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार ऋ ध्वनि का उच्चारण व स्तर्त्य (तवर्ग) माना गया था। लृ ध्वनि का प्रयोग बहुत कम होता है। वैदिक भाषा में ङ् तथा ढ् ध्वनियाँ जब दो स्वरों के बीच आती हैं तो उनका रूप ढ् लह् की भाँत होता है। वैदिक भाषा में कहीं-कहीं स् तथा म् से पहले आने वाले स् की जगह त् तथा द् हो जाता है।

वैदिक भाषा की पाँच अनुनासिक स्पर्श-ध्वनियों में न तथा म ध्वनियाँ स्वतन्त्र रूप से शब्द में किसी भी प्रकार प्रयोग की जा सकती हैं (अर्थात् प्रारम्भ में बीच में) अन्त में ङ्, ज्, न् अनुनासिक स्पर्श ध्वनियाँ शब्द के प्रारम्भ में प्रयोग नहीं की जाती हैं। ङ् का प्रयोग कण्ठ्य ध्वनियों के पहले ञ् का तालव्य ध्वनियों के पहले तथा न् का प्रयोग मूर्धन्य ध्वनियों के पहले किया जाता है। संस्कृत की ध्वनि श् तालव्य का विकास इण्डो ईरानी शाखा में हुआ। दन्त्य स् मूल भारोपीय भाषा की ध्वनि है।

मूर्धन्य ष् संस्कृत की भारतीय ध्वनि है। विसर्ग या विसर्जनीय ध्वनि का विकास स् या र् ध्वनि से हुआ है। जब कवर्ग ध्वनियों से पहले विसर्ग आता है तो उच्चारण जिह्वामूलीय होता है तथा विसर्ग पवर्ग ध्वनियों से पहले आता है तो उच्चारण उपाध्मानीय होता है।

1.4.3 लौकिक संस्कृत

वैदिक संस्कृत के पश्चात् लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत का रूप धारण करते-करते वैदिक भाषा में कुछ परिवर्तन हो गये। इसी भिन्नता के कारण इसे लौकिक संस्कृत, देववाणी तथा देवभाषा कहा गया है। इसका साहित्य 8वीं शताब्दी ई0 पू0 से प्रारम्भ हो जाता है। 500 ई0 पू0 तक संस्कृत बोलचाल या जनसम्पर्क की भाषा रही है। शनेःशनैः इसके रूप में भी परिवर्तन होने लगे तो पाणिनि तथा अन्य महान् वैयाकरणों ने साहित्यिक रूप से शुद्ध बनाये रखने के लिए नियम बनाये। पाणिनि की अष्टाध्यायी इन सबमें अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुयी। संस्कृत का साहित्यिक रूप में नियमबद्ध होकर आज भी वैसा ही है परन्तु बोलचाल की भाषा विकसित होती रही जो बाद में प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों में परिवर्तित होती रही। संस्कृत भाषा का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर पडा है और भारत के बाहर भी चीनी, जापानी, तिब्बती, द0पू0 ऐशियाई देशों की भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव मिलता है। वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ बहुत कुछ मिलती है। वैदिक संस्कृत की कुछ ध्वनियाँ जैसे ढ् लह् जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ध्वनियाँ लौकिक संस्कृत में नहीं पाई जाती है। वैदिक संस्कृत में स्वर तीन प्रकार के थे-

1. उदात्त
2. अनुदात्त
3. स्वरित ।

स्वरों के उच्चारण पर विशेष ध्यान रखा जाता था। स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन भी हो जाता था। स्वर की शुद्धता का कितना महत्व था, यह इस श्लोक से प्रकट है-

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति,
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् ॥

1.4.4 लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ

पाणिनीय व्याकरण मुख्य रूप से 14 माहेश्वर सूत्रों पर निर्भर है। पाणिनि ने तीर्थराज प्रयाग में अक्षवट के नीचे कठिन तपश्चर्या से भगवान् शिव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न भगवान् शंकर ने ताण्डव नृत्य करते हुए उन्हें दर्शन दिया और 14 बार अपना डमरू बजाकर 14 सूत्रों का उपदेश दिया । ये 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं-

1. अइउण् ।
2. ऋलृक् ।
3. एओङ् ।
4. ऐऔच् ।
5. हयवरट् ।
6. लण् ।
7. जमडणनम् ।
8. झभञ् ।
9. घढधष् ।
10. जबगडदश् ।
11. खफछठथचटतव् ।
12. कपय् ।
13. शषसर् ।
14. हल् ।

इन माहेश्वर सूत्रों में लौकिक संस्कृत ध्वनियाँ प्रस्तुत हुयी है। अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं जो कि चार माहेश्वर सूत्रों में प्रस्तुत हुए हैं। शेष 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यञ्जन प्रस्तुत हुए हैं। पाणिनि ने स्वरो क ह्रस्व, दीर्घ औ प्लुत से तीन भेद प्रस्तुत किए हैं और इनक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन भेद किए हैं।

- 1- उच्चैरुदात्तः । अष्टाध्यायी। 1/ 2/ 29।
- 2- नीचैरनुदात्तः । अष्टाध्यायी 1/2/ 30
- 3- समाहारः स्वरितः । अष्टाध्यायी 1/2/ 31।

ये नौ प्रकार के स्वर अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 18 प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार अ इ उ औ ऋ - इन वर्णों में प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। दीर्घ न होने के कारण लृ वर्ण के 18

भेद न होकर 12 भेद होते हैं। ए ओ ऐ औ - के ह्रस्व न होने के कारण 18 भेद न होकर 12 भेद होते हैं। भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी में इन वर्णों का उच्चारण स्थान वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार अ क् ख् ग् घ् ङ् ह् औरः का उच्चारण स्थान कण्ठ है। इ च् छ् ज् झ् ञ् श् का उच्चारण स्थान तालु है। ऋ ट् ठ् ड् ढ् ण् और ष् का स्थान मूर्धा है। लृ त् थ् द् ध् न् ल् और स् का उच्चारण स्थान दन्त है। उ प् ब् भ् म् उपध्मानीय है प् फ् का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ज् म् ङ् ण् न् का उच्चारण स्थान नासिका भी है। एकार और ऐकार उच्चारण स्थान कण्ठ तालु है। ओकार और औकार का उच्चारण स्थान कण्ठ और ओष्ठ है। वकार का उच्चारण स्थान दन्त और ओष्ठ है। जिह्वामूलीय क् ख् का उच्चारण स्थान जीभ का मूल भाग है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है।

1.4.5 प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण

1-**स्पर्श या स्फोटक** - सघोष या अघोष होकर कंठपिटक से निकली वायु जब मुख में ओठों एवं जिह्वा के कारण थोड़ी देर पूरी तरह रूककर फिर तेजी से बाहर जाती है तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ स्पर्श (व्यञ्जन) कहलाती है। मुख से वायु झटके से बाहर निकलती है अतः इसको स्फोटक भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण के से प्रारम्भ होकर म तक कुल 25 हैं। इनके पाँच वर्ग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग सम्मिलित हैं।

2-**संघर्ष या संघर्षी** - जब ध्वनि उच्चारण के समय ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवयव अधिक पास आ जाते हैं तथा वायु रगड़ती हुई बाहर निकलती है तो इस प्रकार की ध्वनि को संघर्षी ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के काकल से ओठ तक भिन्न-भिन्न अवयवों से वायु से घर्षण होने के कारण कई ध्वनि भेद किए जा सकते हैं। संस्कृत की श् ष् स्, ह् संघर्षी ध्वनियाँ हैं। इनको ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं ' - शल ऊष्माणः । इन ऊष्म ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना भी किया जा सकता है। श् ष् स् अघोष ध्वनियाँ हैं। ह् ध्वनि सघोष है। हशः संवारा नादा घोषाश्च से भी यह निश्चित है कि ह् सघोष ध्वनि है। कुछ लोग ह् को अघोष भी मानते हैं।

3-**स्पर्श** - घर्ष या स्पर्श - संघर्षी ध्वनि उच्चारण के समय वायु पूरी तरह अवरूद्ध होकर स्पर्श करके फिर रगड़ती हुई धीरे- धीरे बाहर निकलती है यह स्थिति स्पर्श और घर्ष के बीच की है। हिन्दी में च् छ् ज् झ् ध्वनियाँ स्पर्श-घर्ष ध्वनियाँ मानी जाती है। संस्कृत में चवर्ग स्पर्श ध्वनियाँ मानी जाती हैं।

4-**अनुनासिक** - मुख तथा नासिका दोनों से जब वायु निकल कर ध्वनि उच्चरित करती है तो इस

प्रकार की ध्वनियों को अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है। जैसा कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने लिखा है- मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः। अनुनासिक ध्वनियाँ ये हैं - ड ज्, ण्, न्, म् अर्थात् वर्गों के पञ्चमवर्ण । हिन्दी में दो अन्य ध्वनियाँ न्ह तथा म्ह को भी अनुनासिक ध्वनि माना जाता है। न् तथा म् इन दो अनुनासिक ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया जाता है।

5- **पार्श्विक** -ध्वनि उच्चारण करते समय जब जीभ की नोक कठोर तालु को स्पर्श करके वायु को रोक लेती है तो वायु जीभ के एक या दोनो किनारों की ओर से पार्श्वों से निकल जाती है।

इस प्रकार उत्पन्न हुई ध्वनियों को पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं। बोलते समय जिह्वा के एक पार्श्व या दोनों पार्श्वों से निकलते वाली वायु के आधार पर इसके दो भेद हैं-

1- एक पार्श्विक ध्वनि तथा 2- उभय पार्श्विक या द्विपार्श्विक ध्वनि। हिन्दी में ल तथा ल्ह पार्श्विक ध्वनियाँ मानी जाती हैं जैसे- लड़का अल्हड शब्दों में। संसार की अनेक भाषाओं में पाई जाने वाली पार्श्विक ध्वनियों के आधार पर इनके तीन भेद हैं- 1- वस्वर्त्य 2- तालव्य तथा 3- मूर्धन्य। इनमें वस्वर्त्य पार्श्विक ध्वनि के भी दो भाग शुक्ल पार्श्विक तथा कृष्ण पार्श्विक किए जाते हैं।

6- **लुंठित या लोडित** -जब बोलते समय बाहर निकलती वायु प्रभाव से कौआ हिलकर जीभ के पिछले भाग को स्पर्श करे अथवा जीभ की नोक वर्स्व को अनके बार छुए तो इस प्रकार उत्पन्न ध्वनियाँ लुंठित कहलाती हैं। इनमें अल्पप्राण सघोष ध्वनियाँ आती है। हिन्दी की र तथा रह ऐसी ही ध्वनियाँ हैं। से ध्वनियाँ शब्द के मध्य अधिक पायी जाती है। इस प्रकार के उदाहरण - रजाई, करहानो (ब्रज० कराहना) शब्दों में देखे जा सकते हैं। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं वस्वर्त्य लुंठित तथा अलिजिह्वीय लुंठित।

7- **उत्क्षिप्त** -ध्वनि उच्चारण के समय जीभ की नोक या कौए में एक बार ही तेज टक्कर लगने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं। इसके तीन भेद हैं - वस्वर्त्य उत्क्षिप्त, मूर्धन्य, उत्क्षिप्त, तथा अलिजिह्वीय उत्क्षिप्त । हिन्दी में ड तथा ढ उत्क्षिप्त मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत की क् क्क् उत्क्षिप्त मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। प्रसिद्ध विद्वान् मारिओं पेई उत्क्षिप्त ध्वनियों को लुंठित ध्वनियों का ही भेद मानते हैं।

8- **अर्द्ध स्वर** - इन ध्वनियों को स्वर तथा व्यञ्जन ध्वनियों के मध्य रखा जाता है क्योंकि इनमें दोनों के गुण पाये जाते हैं । ये स्वरों की भाँति मुखर स्वराघात वहन करने में समर्थ तथा अक्षर संघटना में समर्थ नहीं हैं। स्वरों के इन तीन गुणों के अभाव से इन्हें स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनमें स्वल्पमुखरता, स्वराघातहीनता, अक्षरसंघटना करने की असमर्थता आदि व्यञ्जनों के से गुण पाये जाते हैं। संस्कृत में अर्द्ध स्वरों को अन्तःस्थ बताया गया है, इनके अन्तर्गत य् व् र् ल् आते रूप में

होता है। वे न पूर्णतया स्वर होते हैं और न व्यञ्जना। ऐसी ध्वनियों को अर्धस्वर के नाम से पुकारा जाता है। (भाषाविज्ञान और हिन्दी)। इसी से मिलती परिभाषा श्री राजेन्द्र द्विवेदी की है। उन्होंने अपने ग्रन्थ भाषाशास्त्र का पारिभाषिक शब्दोश में लिखा है कि इनके उच्चारण में मुख द्वारा संकीर्ण तो करते हैं पर इतना नहीं कि रगड़ (संघर्ष) हो। इन्हें अर्द्धस्वर या व्यञ्जन और स्वर के बीच की ध्वनि माना जाता है। अन्तःस्थ वर्ण य् व् र् ल् व्यंजनघर्मी हैं किन्तु स्वरवत् भी माने गये हैं क्योंकि इनका अपने समस्थानीय स्वरों इ उ ऋ लृ से अत्यधिक सम्बन्ध है एवं इनमें अन्तः परिवर्तन भी होता है। जैसे इको यणचि सूत्र से विधान है कि इ उ ऋ लृ के स्थान पर क्रमशः य् व् र् ल् हो जाते हैं तथा इग्यणः सम्प्रसारणम् सूत्र से सम्प्रसारण होने पर पुनः इ उ ऋ लृ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी समीपता के कारण इनको स्वरगत भी माना गया है। हिन्दी में य् व् अर्द्धस्वर माने जाते हैं। र् तथा ल् - व्यञ्जन हैं एवं ऋ लृ का स्वर की भाँति प्रयोग लुप्त हो गया है।

1.4.6 आभ्यन्तर एवं बाह्य भेद से ध्वनियों का वर्गीकरण-

प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं- आभ्यन्तर एवं बाह्य। मुख विवर के अन्दर होने वाले प्रयत्नों को आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। कंठ के नीचे जो प्रयत्न किये जाते हैं, वे बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं।

1.4.6.1 आभ्यन्तर प्रयत्न

आभ्यन्तर प्रयत्न के अनुसार स्वरों का चार प्रकारों में तथा व्यञ्जनो को आठ प्रकारों में बाँटा गया है। से स्वर तथा व्यञ्जन के विभेद निम्न प्रकार हैं-

1. **संवृत स्वर-** जब ध्वनि उच्चारण के समय मुख द्वारा संकुचित रहता है तो उस प्रकार उत्पन्न ध्वनि को संवृत स्वर कहते हैं जैसे - इ-ई, उ-ऊ।
2. **संघर्षी** - ध्वनि उच्चारण के समय अधिक संकुचित मुख द्वारा से वायु घर्षण करती हुई निकलती है तो उस समय उत्पन्न ध्वनियाँ संघर्षी ध्वनि कहलाती हैं। इस प्रकार की ध्वनियाँ हैं- फ ब स ज श ख ग ह।
3. **अनुनासिक** - जब वायु उच्चारण करते समय मुख विवर तथा नासिका विवर से होकर बाहर जाती है तो अनुनासिक ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। वर्गों के पंचम वर्ण अर्थात् ज म ङ ण न अनुनासिक ध्वनियाँ हैं।
4. **पार्श्विक** - जब बाहर आती हुई वायु को जीभ ऊपर तालु से स्पर्श करके रोक लेती है तो वायु जीभ के एक या दोनो पार्श्वों की ओर से निकलती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को पार्श्विक कहते हैं। जैसे - ल।

5. लुंठित - जब ध्वनि उच्चारण करते समय जीभ कई बार मुख द्वार को खोलती बन्द करती है तो उस समय होने वाल ध्वनि लुण्ठित कहलाती है। जैसे - र। उत्क्षिप्त -जब जीभ की नोक परिवेष्टित होकर तालु को छूकर मुख विवर को झटके से खोल देती है तो जो ध्वनि उत्पन्न है उसे उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं। जैसे - ड ढ।

6. अर्धस्वर- बोलते समय मुख के अधिक संकुचित होने से वायु स्वर की तरह ध्वनि करती बाहर निकल जाती है तो उसे अर्धस्वर कहते हैं। जैसे - य व।

1.4.6.2 बाह्य प्रयत्न

बाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों को 11 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है-

1. विवार
2. संवार
3. श्वास
4. नाद
5. अघोष
6. घोष
7. अल्पप्राण
8. महाप्राण
9. उदात्त
10. अनुदात्त
11. स्वरित।

कुछ विद्वान् बाह्य प्रयत्नों को तीन भागों में बांटते हैं।

1. स्वरयन्त्रीय प्रयत्न (कण्ठ्य) श्वास तथा नाद।
2. औरस्य या उरस्य प्रयत्न- महाप्राण तथा अल्पप्राण।
3. अनुनासिक प्रयत्न- अननुनासिक तथा अनुनासिक।

कुछ ध्वनिविद् (महाभाष्यकार आदि) के अनुसार बाह्य प्रयत्न आठ प्रकार के होते हैं-विवार-संवार, श्वास-नाद, घोष- अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण।

प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान् कैयट एवं भट्टोजि दीक्षित आदि ने इन विभागों में उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित को सम्मिलित करके बताया है कि बाह्य प्रयत्न कुल ग्यारह प्रकार के होते हैं-

1. विवार
2. संवार

3. श्वास
4. नाद
5. अघोष
6. घोष
7. अल्पप्राण
8. महाप्राण
9. उदात्त
10. अनुदात्त
11. स्वरित ।

1.4.6.3 संस्कृत वैयाकरणों द्वारा ध्वनि विभाजन

ध्वनि समूह को संस्कृत वैयाकरणों ने पांच भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है-

1. संवृत स्वर

2. **अर्द्ध संवृत स्वर** -जब उच्चारण करते समय मुख आधा संकुचित होता है तो उस समय उत्पन्न ध्वनि अर्द्ध-संवृत होती है। उच्चारण की दृष्टि से यह संवृत ध्वनि की ओर झुकी होती है। इस प्रकार के अर्द्ध संवृत स्वर ए तथा ओ हैं।

3. **अर्द्ध विवृत स्वर**-जब ध्वनि उच्चारण के समय मुख आधा खुलता है तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अर्द्ध विवृत स्वर कहलाती है। यह ध्वनि उत्पन्न होने की दृष्टि से विवृत ध्वनि की ओर झुकी होती है। इस प्रकार की ध्वनियाँ - ऐ तथा औ हैं।

4. **विवृत - स्वर**- ध्वनि उच्चारण के समय जब मुख द्वार पूरा खुलता है तो उस समय उत्पन्न ध्वनि को विवृत - स्वर कहते हैं जैसे - अ, आ।

जीभ के अगले मध्य तथा अन्तिम भाग की सहायता से जिन स्वरों की उत्पत्तियाँ होती है उन्हें अग्रस्वर, मध्यस्वर तथा पश्चस्वर कहते हैं। अग्रस्वर - ई ए ऐ मध्य स्वर- अ तथा पश्च स्वर- आ, ऊ, और ओ हैं।

5. **स्पर्श व्यंजन**- जब वायु मुख में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवयवों को स्पर्श करती हुई निकलती है तो स्पर्श ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। इस प्रकार की स्पर्श ध्वनियाँ व्यञ्जन हैं- क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ ।

स्पर्श संघर्षी - जब वायु मुख में अवरूद्ध होकर उच्चारण अवयवों से रगड़ती (घर्षण करती) निकलती है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। संस्कृत की

स्पर्श ध्वनियाँ हैं - च क ज झ।

स्पृष्ट - स्पर्श वर्णों के उच्चारण का जो प्रयत्न किया जाता है, उसे स्पृष्ट कहते हैं। इन ध्वनियों को बोलते समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का पूरी तरह स्पर्श करती हैं। क से म तक के वर्णों को स्पृष्ट या स्पर्श कहते हैं (कादयो मावसानाः स्पर्शाः)।

ईषत्स्पृष्ट - जब जीभ उच्चारण अवयवों का थोड़ा स्पर्श करती है तो उस समय उत्पन्न होने वाला ध्वनि को ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। इन ध्वनियों की स्थिति स्वर तथा व्यञ्जन के बीच की होती है। अतः इनको अन्तःस्थ भी कहा जाता है। इन ध्वनियों को अर्ध - स्वर भी कहते हैं। ईषत्स्पृष्ट ध्वनियाँ य र ल व हैं (यणोऽन्तस्थाः)।

ईषद्विवृत (ईषद्विवृत) - इनके उच्चारण के समय मुख पूरी तरह खुल जाता है। इनको ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं। ऊष्म ध्वनियाँ हैं - श ष स तथा ह (शल ऊष्माणः)।

विवृत - इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ थोड़ा ऊपर उठती है किन्तु मुख विवर खुला रहता है। इस प्रकार के उच्चारण प्रयत्न को विवृत कहते हैं। विवृत स्वर हैं - अ आ इ ई उ ऊ ए से ओ औ (अचः स्वराः)।

संवृत - जब ध्वनि उच्चारण के समय जिह्वा द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता तथा उसकी दशा निष्क्रिय जैसी होती है। इस प्रकार 'अ' ध्वनि उत्पन्न होती है। डॉ० तारापुरवाला के अनुसार संवृत - ध्वनि उच्चारण में जीभ का अग्र तथा पश्च भाग थोड़े उठते हैं तथा जिह्वा का बीच का भाग थोड़ा धँस जाता है। वर्णों के प्रथम, द्वितीय वर्णों एव श ष स का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होता है (खरों-विवाराः श्वासा अघोषश्च)। वर्णों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा य व र ल ह (अर्थात् हश् प्रत्याहार के वर्ण) का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष है (हशः संवारा नादा घोषाश्च)।

स्वर ध्वनियों के अनेक भेद होते हैं। प्रमुखतः मात्रा काल के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत तीन प्रकार के भेद होते हैं। इनमें से प्रत्येक को उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित भेदों में बांटा गया है। पुनः प्रत्येक स्वर के अनुनासिक एवं अननुनासिक भेद होते हैं। इस प्रकार अ इ उ ऋ स्वरों के अठारह भेद, दीर्घ न होने से लृकार के 12 भेद तथा ए ऐ ओ औ के ह्रस्व न होने से 12 बारह भेद होते हैं।

1.4.6.4 बाह्य प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के ग्यारह भेदों का विश्लेषण

1. **विवार** -जब गला खुलकर ध्वनि का उच्चारण करता है उस समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वे विवार कहलाती है।
2. **संवार**-स्वरन्त्रियों के बन्द रहने की स्थिति में जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वे संवार कहलाती है।
3. **श्वास**-इसमें श्वास निर्बाध रूप से चलती है।
4. **नाद**- संवार की स्थिति में अर्थात् स्वरन्त्रियों के पास पास स्थित होने से गलविल संकुचित हो जाता है तथा वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती हुई है तो उसे नाद कहते हैं।
5. **घोष** -नाद की स्थिति में अर्थात् गलविल संकुचित होने पर जब हवा स्वरन्त्रियों से रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे घोष कहते हैं। वर्गों के तीसरे, चौथे तथा पांचवे वर्ण (अर्थात् ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म) घोष कहलाते हैं।
6. **अघोष** -श्वास की स्थिति में अर्थात् स्वरन्त्रियों के दूर-दूर रहने पर बिना घर्षण के वायु बाहर निकलती है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाल कम्परहित ध्वनि को अघोष कहते हैं। वर्गों के पहले तथा दूसरे वर्ण अर्थात् क ख च छ ट ठ त थ प फ इसी प्रकार के अघोष वर्ण हैं।
7. **अल्पप्राण**- फेफड़ों से बाहर आती श्वास वायु का वेग जब कम रहता है तो उस समय उत्पन्न होने वाल ध्वनियाँ अल्पप्राण कहलाती है। जैसे - क च त प आदि।
8. **महाप्राण**-फेफड़ों से बाहर आती श्वास वायु का वेग जब अधिक रहता है तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती हैं। वर्गों के दूसरे एवं चौथे वर्ण महाप्राण ध्वनियाँ हैं। जैसे - ख घ छ झ आदि।
9. **उदात्त** - जब किसी स्वर को उच्च सुर (आरोह) से बोला जाता है तो उसे उदात्त कहते हैं। जैसी कि (अष्टाध्यायी 1/2/29 मे) परिभाषा है उच्चैरुदात्तः।
10. **अनुदात्त** - जब किसी स्वर का मध्य या निम्न सुर (अवरोह) से उच्चारण किया जाय तो उसे अनुदात्त कहते हैं – नीचैरनुदात्तः।
11. **स्वरित**- जिस स्वर में उदात्त एव अनुदात्त सुर से होकर अन्त अनुदात्त सुर उच्चारण से करते हैं, उसे स्वरित कहते हैं। जैसा कि काह है- समाहारः स्वरितः इन तीनों उदात्त अनुदात्त, स्वरित का सम्बन्ध केवल स्वरों से होता है।

1.5 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं-

1. संस्कृत ध्वनियों का विकास क्रमशः हुआ है।
2. इनका मूल आधार वैदिक वाङ्मय है।
3. वैदिक भाषा में मूलतः बावन ध्वनियाँ हैं।
4. स्वरों एवं व्यंजनों का मूलतः विभाजन है।
5. वैदिक संस्कृत तथा मौलिक संस्कृत की ध्वनियाँ बहुत कुछ मिलती सी हैं।
6. 14 माहेश्वरसूत्रों में लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ प्रस्तुत हुई हैं।
7. ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्तानुदात्त, स्वरित आदि भेदों से स्वरों का निरूपण हुआ है।
8. ध्वनियों का उच्चारण स्थान के आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है।
9. ध्वनियों के उच्चारण के प्रयत्न का विवेचन किया गया है।
10. आभ्यन्तर एवं बाह्य प्रयत्नों पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है।
11. ध्वनियों के स्पर्श, घर्ष, स्पर्श संघर्षी, लोडित, उत्क्षिप्त, अर्द्धस्वर आदि रूपों में अध्ययन किया गया है।

1.6 शब्दावली

ध्वनि - शब्द ध्वन् धातु में 'इ' प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। अ, आ, इ, ई आदि स्वर और क् ख् ग् आदि व्यञ्जन भाषाविज्ञान में ध्वनि कहलाते हैं वैदिक संस्कृत -वेदों से सम्बन्धित संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाह्यण, आरण्यक और उपनिषद् मुख्य रूप से आते हैं।

संयुक्त स्वर - ए (अ उदात्त इ,) ऐ (आ उदात्त इ), ओ (आ उदात्त उ), औ(आ उदात्त उ) येस्वरसंयुक्त कहलाते हैं।

अन्तःस्थ - य, र् ल् व ये अन्तःस्थ कहलाते हैं।

ऊष्म - श (तालव्य) ष् (मूर्धन्य) स् (दन्त्य) से ऊष्म कहलाते हैं।

लौकिक संस्कृत -वैदिक संस्कृत के पश्चात् लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत के आदि महाकाव्य के रूप में महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण है।

माहेश्वर सूत्र-माहेश्वर अर्थात् भगवान् शिव के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण अइउण् आदि 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं।

स्पर्श-सघोष आ अघोष होकर कंठपिटक से निकली वायु जब मुख में ओठों एवं जिह्वा के कारण थोड़ी देर पूरी तरह रुककर फिर तेजी से बाहर जाती है तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ स्पर्श व्यञ्जन कहलाती हैं।

संघर्षी- जब ध्वनि उच्चारण के समय ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवयव अधिक पास आ जाते हैं तथा वायु रगड़ती हुयी बाहर निकलती है तो इस प्रकार की ध्वनि को संघर्षी ध्वनि कहते हैं।

पार्श्विक -ध्वनि उच्चारण करते समय जब जीभ की नोक कठोर तालु को स्पर्श करके वायु को रोक लेती है तो वायु जीभ के एक बार या दोनों किनारों की ओर से पार्श्वों से निकल जाती है। इस प्रकार उत्पन्न हुई ध्वनियों को पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं।

उत्क्षिप्त-ध्वनि उच्चारण के समय जीभ की नोक या कौए में एक बार ही तेज टक्ककर लगने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं।

विवृत स्वर-ध्वनि उच्चारण के समय जब मुख द्वारा पूरा खुलता है तो उस समय उत्पन्न ध्वनि को विवृत-स्वर कहते हैं। जैसे - अ, आ।

स्पृष्ट--स्पर्श वर्णों के उच्चारण का जो प्रयत्न किया जाता है, उसे स्पृष्ट कहते हैं। इन ध्वनियों को बोलते समय जिह्वा मुख क विभिन्न स्थानों का पूरी तरह स्पर्श करती है। क् से म् तक के वर्णों को स्पृष्ट या स्पर्श कहते हैं।

ईषत्स्पृष्ट-जब जीभ ध्वनि उच्चारण अवयवों को थोड़ा स्पर्श करती है तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। इन ध्वनियों की स्थिति स्वर तथा व्यञ्जन के बीच की होती है। अतः इसको अन्तःस्थ भी कहा जाता है। इन ध्वनियों का अर्थ - स्वर भी कहते हैं। ईषत्स्पृष्ट ध्वनियाँ य् र् ल् व् है (यणोऽन्तस्थाः)।

विवृत-ध्वनियों के उच्चारण में जीभ थोड़ा ऊपर उठती है किन्तु मुख विवर खुला रहता है।

विवार -जब गला खुलकर ध्वनि का उच्चारण करता है उस समय जो ध्वनियाँ निकती हैं, वे विवार कहलाती हैं।

संवार-स्वरतन्त्रियों के बन्द रहने की स्थिति में जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वे संवार कहलाती हैं।

श्वास-इसमें श्वास निर्बाध रूप से चलती है।

घोष- नाद की स्थिति में अर्थात् गलविल संकुचित होने पर जब हवा स्वरन्त्रियों से रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे घोष कहते हैं।

महाप्राण-फेफड़ों से बाहर आती श्वास वायु का वेग जब अधिक रहता है तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती है। वर्णों के दूसरे एवं चौथे वर्ण महाप्राण ध्वनियाँ है।

1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

क-प्रश्न 1 - संस्कृतध्वनियों का प्राचीन रूप किस भाषा में सुरक्षित है?

उत्तर - संस्कृत ध्वनियों का प्राचीन रूप वैदिक भाषा में सुरक्षित है।

प्रश्न 2 - ध्वनि किसे कहते हैं?

उत्तर - ध्वनि शब्द ध्वन् धातु से इ प्रत्यय के योग से बनता है। अ आ इ ई आदि स्वर और क् ख् ग् आदि व्यञ्जन भाषा विज्ञान में ध्वनि कहलाते हैं। साहित्यशास्त्र में काव्यध्वनि को जिसमें व्यञ्जना की प्रधानता रहती है विशेष महत्व दिया गया है। रसगंगाधर में ध्वनि के पांच भेद बतलाये गये हैं।

प्रश्न 3 - वैदिक संस्कृत को क्या कहा गया था?

उत्तर - छन्दस्।

प्रश्न 4 - वैदिक संस्कृत में मुख्य रूप से कौन सा साहित्य आता है?

उत्तर - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाह्यण, आरण्यक और उपनिषद्।

प्रश्न 5 - ऋग्वेद की प्राचीनतम भाषा में पुँल्लिंग आकारान्त शब्दों के प्रथमा द्विवचन में किस स्वर का अधिक प्रयोग किया जाता था?

उत्तर - 'आ'।

प्रश्न 6 - वैदिक भाषा में मूलतः कितनी ध्वनियाँ थीं।

उत्तर - 52 ध्वनियाँ।

प्रश्न 7 - वैदिक मूल स्वरो का उल्लेख कीजिए।

उत्तर - 'क' मलस्वर - ह्रस्व - अ इ उ ऋ लृ

'ख' दीर्घस्वर - आ, ई, ऊ, ऋ।

प्रश्न 8 - संयुक्त स्वरो का उल्लेख कीजिए।

उत्तर - ए (अ उदात्त इ), ऐ (आ उदात्त इ), ओ (आ उदात्त उ), औ (आउदात्त उ)

प्रश्न 9 - स्पर्शव्यजनों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर - स्पर्श व्यञ्जन इस प्रकार हैं।

कण्ठ्य - क् ख् ग् घ् ङ्।

तालव्य - च् छ् ज् झ् ञ्।

मूर्धन्य - ट् ढ् ढ् (लह्) ण्।

दन्त्य - त् थ् द् ध् न्।

ओष्ठ्य - प् फ् ब् भ् म्।

प्रश्न 10 - अन्तः स्थों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर - य्, र्, ल्, व्।

प्रश्न 11 - ऊष्मों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर - श् (तालव्य) ष् (मूर्धन्य) स् (दन्तय)।

प्रश्न 12 - महाप्राण का उल्लेख कीजिए।

उत्तर - ह्।

प्रश्न 13 - शुद्ध अनुनासिक का उल्लेख कीजिए।

उत्तर - अनुस्वार।

प्रश्न 14 - जिह्वामूलीय का उच्चारण किस तरह होता था ?

उत्तर - ख की तरह।

प्रश्न 15 - उपध्मानीय का उच्चारण किस तरह होता था?

उत्तर - फ की तरह।

प्रश्न 16 - दन्त्य 'स्' किस भाषा की ध्वनि है?

उत्तर - दन्त्य 'स्' मूल भारोपीय भाषा की ध्वनि है।

प्रश्न 17 - विसर्ग या विसर्जनीय ध्वनि का विकास किस ध्वनि से हुआ है?

उत्तर - 'स्' या 'र्' से।

प्रश्न 18 - वैदिक संस्कृत में कितने प्रकार के स्वर थे?

उत्तर - वैदिक संस्कृत में तीन प्रकार के स्वर थे - 1, उदात्त 2, अनुदात्त और 3, स्वरिता।

प्रश्न 19 - माहेश्वर सूत्र कितने हैं?

उत्तर - 14

प्रश्न 20 - अकार के कितने भेद हैं?

उत्तर - 18

प्रश्न 21 - लृ वर्ण के कितने भेद हैं?

उत्तर - 12

प्रश्न 22 - ऐ और औ के कितने भेद हैं?

उत्तर - 12

ख -

प्रश्न 1 - वेद कितने हैं ?

(क) दो (ख) तीन

(ग) चार (घ) पाँच

उत्तर - (ग) चार।

प्रश्न 2 - वैदिक भाषा में मूलतः कितनी ध्वनियाँ थीं?

(क) 50 (ख) 51

(ग) 52 (घ) 54

उत्तर - (ग) 52

प्रश्न 3 - महाप्राण है-

(क) अ (ख) क

(ग) ह (घ) ग

उत्तर - (ग) ह ।

प्रश्न 4 - लृवर्ण के भेद हैं-

(क) 8 (ख) 10

(ग) 12 (घ) 18

उत्तर - (ग) 12

प्रश्न 5 - य् है-

(क) महाप्राण (ख) ऊष्म

(ग) अन्तः स्थ (घ) अनुनासिक

उत्तर - (ग) अन्तः स्थ ।

प्रश्न 6 - औ के कितने भेद हैं?

(क) 10 (ख) 12

(ग) 16 (घ) 18

उत्तर - (ख) 12 ।

प्रश्न 7 - अकार के कितने भेद हैं?

(क) 12 (ख) 16

(ग) 18 (घ) 24

उत्तर - (ग) 18 ।

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यास्क, निरुक्त, सम्पादक डा० शिवबालक द्विवेदी (सं० 2057) - संस्कृत नवप्रभात न्यास, शारदानगर, कानपुर।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2003 ई०) संस्कृत व्याकरणम् - अभिषेक प्रकाशन, शारदानगर, कानपुर।

3. श्रीवरदराजाचार्य (सं० 2017) मध्यसिद्धान्त कौमुदी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।
4. आप्टे वाम शिवराम (1939 ई०) संस्कृत हिन्दी कोश- मोती लाल बनारसीदास बंग्लो रोड, जवाहरनगर दिल्ली।
5. द्विवेदी डा० शिवबालक (1879ई०) संस्कृत भाषा विज्ञान- ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।

1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तिवारी डा० भोलानाथ (2005 ई०) भाषाविज्ञान - किताबमहल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2005 ई०) भाषा विज्ञान - ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।
3. द्विवेदी डा० शिवबालक (2010 ई०) संस्कृत रचना अनुवार कौमुदी, हंसा प्रकाशन, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. शास्त्री भीमसेन (सं० 2006) लघुसिद्धान्तकौमुदी - लाजपतराय मार्केट दिल्ली।
5. महर्षि पतंजलि (1969 ई०) व्याकरण महाभाष्य - मोतीलाल बनारसी दास बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वाराणसी।
6. शास्त्री चारूदेव (1969 ई०) व्याकरण चन्द्रोदय, मोतीलाल बनारसीदास, बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वाराणसी।
7. डा० रामगोपाल (1973 ई०) वैदिक व्याकरण - नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।

1.10 निबन्धात्मक प्रश्न

- क-
1. संस्कृतध्वनियों के विकासक्रम पर प्रकाश डालिये।
 2. वैदिक भाषा की ध्वनियों की समीक्ष कीजिए।
 3. लौकिक संस्कृत की ध्वनियों पर प्रकाश डालिए।
 4. पाणिनि के अनुस्वार ध्वनियों का विश्लेषण कीजिये।
 5. ध्वनियों के उच्चारणस्थानों का निरूपण कीजिये।

-
- 6, आभ्यन्तर एवं बाह्य प्रयत्नों पर प्रकाश डालिये।
ख - निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
1. वैदिक ध्वनियाँ
 2. ध्वनि भेद
 3. आभ्यन्तर प्रयत्न 4. बाह्यप्रयत्न

इकाई 2 .ध्वनि परिवर्तन के कारण तथा दिशाएँ

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 ध्वनि परिवर्तन के कारण तथा दिशाएँ - अर्थ एवं स्वरूप
- 2.4 ध्वनि परिवर्तन के कारण तथा दिशाएँ
 - 2.4.1 ध्वनि परिवर्तन के कारण
 - 2.4.2 ध्वनि परिवर्तन के आभ्यन्तर कारण
 - 2.4.3 ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण
 - 2.4.4 ध्वनि परिवर्तन की दिशाएँ
 - 2.4.5 लोप अभिनिधान
 - 2.4.6 आगम प्रागुपजन
 - 2.4.7 स्वर भक्ति या विक्रकर्ष
- 2.4.8 समीकरण
- 2.4.9 विषमीकरण
- 2.4.10 विपर्यय
- 2.4.11 अभिश्रुति, अपश्रुति
- 2.4.12 सादृश्य
- 2.4.13 अनुनासिकता, ऊष्मीकरण, सन्धि, घोषीकरण अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, मात्राभेद।
- 2.5 सारांश
- 2.6 शब्दावली
- 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.8 सन्दर्भ / ग्रन्थ सूची
- 2.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

संस्कृत भाषाविज्ञान में ध्वनियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। अतएव भाषाविज्ञान में ध्वनियों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। पूर्व इकाई में संस्कृत ध्वनियों के विकास क्रम पर प्रकाश डाला जा चुका है।

प्रस्तुत इकाई में ध्वनि परिवर्तन के कारण और दिशाओं पर प्रकाश डाला जायेगा। ध्वनि परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है, क्योंकि उच्चारण करने पर किसी न किसी प्रकार से ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। इस ध्वनि परिवर्तन के अनेक कारण हैं।

इस इकाई में ध्वनि परिवर्तन के कारणों और दिशाओं को प्रस्तुत किया जायेगा। ध्वनि परिवर्तन के मुख्य रूप से आभ्यन्तर और बाह्य कारण हैं। यहाँ इन कारणों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे आप ध्वनि परिवर्तन के कारण और दिशाएँ समझ सकेंगे और इस विषय में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप-

- ध्वनि परिवर्तन के कारणों और दिशाओं को समझ पायेंगे।
- ध्वनि परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया हैं, अतएव ध्वनि परिवर्तन होता रहता है।
- ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण है? इसको आप जान सकेंगे।
- ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का ज्ञान कर सकेंगे।
- ध्वनि परिवर्तन के आभ्यन्तर और बाह्य कारणों की जानकारी पा सकेंगे।
- यह समझ सकेंगे की किस प्रकार द्वादश के सादृश्य पर एकदश भी एकादश बन जाता है?
- यह भी जानकारी कर सकेंगे कि किस प्रकार प्रयत्न- लाघव, अशिक्षा और अज्ञान, अनुकरण की अपूर्णता, भावुकता आदि के कारण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है।
- यह भी जानकारी कर सकेंगे कि किस प्रकार विपर्यय आदि के द्वारा ध्वनि परिवर्तन हो जाता है।
- अपश्रुति आदि के द्वारा कृष्ण , चत्वारः को चतुरः आदि हो जाते हैं

2.3 ध्वनि परिवर्तन के कारण तथा दिशाएँ- अर्थ एवं स्वरूप

परिवर्तन प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। परिवर्तन की इस गति का प्रभाव भाषाओं पर भी पड़ता है। संसार की भाषाओं में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। भाषा में यह परिवर्तन कई प्रकार से होता है। यह परिवर्तन ध्वनि में, रूप में और अर्थ में सहज रूप से

दृष्टिगोचर होता है। भाषा में कभी-कभी कुछ ध्वनियों का प्रयोग कम हो जाता है। कुछ ध्वनियाँ धीरे-धीरे लुप्त हो जाती है और कनिपय नवीन ध्वनियों का समावेश हो जाता है। इन ध्वनिपरिवर्तनों के अनेक कारण हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ग शब्द के अनुकरण पर हिन्द में नरक के स्थान पर नर्क का प्रयोग किया जाने लगा है।

इसी प्रकार अनेक कारणों से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि इस परिवर्तन के योग से ही हिंस परिवर्तित होकर व्यत्यय से सिंह बन जाता है।

2.4 ध्वनि परिवर्तन के कारण तथा दिशाएँ

2.4.1 ध्वनि परिवर्तन के कारण-

संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। परिवर्तन का चक्र जीवन के हर क्षेत्र में सतत चलता रहता है। मनुष्य की जातियाँ तथा उनके स्थान, वेशभूषा, रहन-सहन बदल जाते हैं। परिवर्तन की गति का प्रभाव संसार की सभी भाषाओं पर भी पड़ता है। भाषाओं का जो रूप आज से हजारों वर्ष पूर्व था वह अब नहीं है। संसार की प्राचीन भाषाएँ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के रूप में परिवर्तन होने से बाद में अनेक भाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें अधिकांश वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषाओं में इस प्रकार होने वाले परिवर्तन को भाषाविज्ञानी 'विकारी' अथावा 'विकास' कहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन कई प्रकार से होता है- ध्वनि में, रूप में या अर्थ में। कभी-कभी सिखाने-सीखने की प्रक्रिया में कुछ ध्वनियों का प्रयोग कम हो जाता है। धीरे-धीरे लुप्त भी हो जाता है। कुछ नवीन ध्वनियों का समावेश हो जाता है। उच्चारण सम्बन्धी अन्तर होने से भी परिवर्तन हो जाते हैं। कभी-कभी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, भौगोलिक कारणों से भाषा में ध्वनि-सम्बन्धी परिवर्तन होते रहते हैं। ध्वनि परिवर्तनों को साधारणतया कारणों से भाषा में ध्वनि-सम्बन्धी परिवर्तन होते रहते हैं। ध्वनि परिवर्तनों को साधारणतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जब ध्वनि-उच्चारण करने वालों के प्रभाव से ध्वनियों में अन्तर उत्पन्न हो जाता है, तो उन्हें आभ्यन्तर कारण कहा जाता है। परन्तु जब भाषा की ध्वनियाँ अन्य कारणों से प्रभावित होती है जैसे- राजनैतिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि तो इस तरह के परिवर्तन बाह्य कारण कहलाते हैं। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के कारण दो प्रकार के होते हैं।

1. आभ्यन्तर कारण
2. बाह्य कारण

2.4.2 ध्वनि परिवर्तन के आभ्यन्तर कारण

ध्वनि परिवर्तन लाने वाले प्रमुख आभ्यन्तरण कारण इस प्रकार है-

1. **मुख-सुख** (प्रयत्न-लाघव)-मनुष्य ध्वनियों का उच्चारण अपनी सुविधा से करता है। बोलते समय उसकी इच्छा रहती है कि कम अथवा शीघ्र उच्चारण करके अपना अभिप्राय श्रोता पर प्रकट कर दे। इस प्रकार अधिक श्रम से बचने का प्रयास रहता है। जब किसी उच्चारण में कठिनाई होती है अथवा ठीक से उच्चारण नहीं किया जा सकता है तो व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए उस उच्चारण को छोड़ अपने ढंग से उच्चारण करने लगता है, इसे मुख-सुख कहते हैं।

अन्धकार को अँधेरा, स्कूल की इस्कूल, स्टेशन को इस्टेशन (सटेशन), बाह्यण को ब्राम्हण (या वामन), कृष्ण को क्रिस्न आदि उच्चारण करते हैं। अंग्रजी के शब्दों की कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके उच्चारण में कठिनाई होती है, दो भिन्न-भिन्न ध्वनियों को एक सा बना दिया जाता है जैसे - धर्म का धम्म अथवा ध्वनि में पूर्ण परिवर्तन कर दिया जाता है जैसे काक से काग शब्द बनते हैं। यह प्रयत्न - लाघव के कारण होता है अर्थात् थोड़े में तथा सरलतापूर्ण उच्चारण करने की प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। ध्वनियों का विकास सरलता की ओर रहता है अनेक प्राचीन ध्वनियों के उच्चारण में अब परिवर्तन हो गया है। वैदिक क्रिया रूप, वचन, लिंग, कारक रूपों की भिन्नता में सरलीकरण के कारण ही बहुत कमी आ गयी है। दीर्घ स्वरों को कभी-कभी ह्रस्व स्वरों में बदल दिया गया है। आकाश से अकास, नारायण से नरायण, वार्ता से बात, दूर्वा से दूब आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। इसी तरह से बज्राङ्ग से बजरंग एवं बजरंग रूप बन गया है, जो अब बहुत प्रचलित हो गया है।

इसी प्रकार प्रयत्न-लाघव के प्रभाव से अनेक विदेशी शब्दों में भी परिवर्तन हुए हैं। अरबी शब्द-अमीर-उल्-बहर (समुद्र का शासक) आगे चलकर अंग्रजी के 'एडमिरल (जलसेनापति) के रूप में परिवर्तित रूप प्रयोग करते हैं। जैसे रूपनारायण को रूपा, विष्णु को विशुन आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। इसी प्रकार अनेक शब्द हैं जो संक्षिप्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे- माइक्रोफोन को माइक, टेलीविजन को टीवी, एरोप्लेन को प्लेन आदि। कभी-कभी लिखित रूप तथा उच्चारित रूप में अन्तर पड़ जाता है। अंग्रजी भाषा में इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। ज़पहीज का उच्चारण 'नाइट' होता है जिसमें 'क' तथा 'घ' ध्वनियाँ नहीं बोली जाती हैं। इसी प्रकार (डॉटर), थ्रू जैसे शब्दों का लिखित रूप कहे जाने वाले रूप से भिन्न होता है। संस्कृत की भी कई ध्वनियों के उच्चारण में आगे चलकर अन्तर आ गया। जैसे 'ष' तथा 'ऋ' ध्वनियों का उच्चारण ठीक प्रकार नहीं किया जाता है। कभी-कभी कुछ नई ध्वनियों का भाषा में आगम हो जाता है एंग्लो - सेक्सन (anglo saxon) में 'च' ध्वनि बाद में आई है इससे चर्च (church) चीज (cheese) जैसे शब्द बने हैं। इसी तरह संस्कृत में ट वर्ग की ध्वनियाँ द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव से आई हैं, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि 'ध्वनि-परिवर्तन' या 'ध्वनि' 'विकार' में प्रयत्न -लाघव अथवा मुख-सुख का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

2. बोलने में शीघ्रता-शीघ्रता से बोलने के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। प्रायः बातचीत में देखा जाता है कि शब्दों का उच्चारण शीघ्रता से होने के कारण ध्वनियों का रूप ठीक नहीं रहता है। जैसे - पंडितजी को पंडी जी, मास्टर साहब को मास्साब, मार डाला को माडूडाला आदि रूपों में उच्चारण किया जाता है। अंग्रेजी में इसी प्रकार के शब्द रूप पाए जाते हैं, जो बोलने के कारण संक्षिप्त हो जाते हैं, जैसे 'वुड नॉट'(would not)को 'वोन्ट'(wont) तथा डू नॉट (do not) को डोन्ट (dont) आदि। अब ही को अभी, तब ही को तभी आदि रूपों में उच्चारित करते हैं।

3. **अशिक्षा तथा अज्ञान-** अशिक्षा एवं अज्ञान के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षित व्यक्ति भाषा को सही ढंग से पढ़-लिख सकता है तथा शब्दों को शुद्ध रूप में ग्रहण कर सकता है, किन्तु अशिक्षित व्यक्ति ध्वनि के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहता है तथा कथित रूप को सुनकर उसी को अपने अनुसार प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार ध्वनियों के अनुचित प्रयोग से ध्वनियों में परिवर्तन आने लगता है। अज्ञान के कारण अनेक विदेशी शब्दों का उच्चारण ठीक से न समझने के कारण ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे - रिपोर्ट को रपट, कम्पाउन्डर को काम्पोडर, ओवरसियर का ओसियर, स्टेशन को टेशन, यूनिवर्सिटी का अनवर्सिटी हो जाते हैं। अज्ञान तथा अशिक्षा के कारण ध्वनियों में ध्वनि विपर्यय, मात्रा भेद, घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। अज्ञान के कारण जिन व्यक्तियों को ध्वनियों के उचित रूप का पता नहीं रहता है, वे त्रुटिपूर्ण ध्वनि-उच्चारण करते रहते हैं। सादृश्य के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाते हैं। स्वर्ग के सादृश्य पर नरक का नर्क बना लिया गया है। 'एकादश' द्वादश के सादृश्य पर 'एकादश' बना लिया गया है। इस प्रकार अज्ञान तथा अशिक्षा के कारण ध्वनियों के सही रूप से अपरिचित लोग ध्वनि परिवर्तन करते रहते हैं।

4. **अनुकरण की अपूर्णता-** जब कोई व्यक्ति किसी ध्वनि का उच्चारण करता है तो दूसरा व्यक्ति उसका अनुकरण करके सीख लेता है। परन्तु अनुकरण में त्रुटियाँ हो जाती हैं। सही अनुकरण नहीं हो पाता या उच्चारण में कुछ न कुछ कमी हो जाती है। इस प्रकार अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। अतः ध्वनियों में परिवर्तन आता -जाता है, जिसका शनैः-शनैः समाज में प्रचलन हो जाता है। वन्द्योपाध्याय से बनर्जी, उपाध्याय से 'झा', ओम् नमः सिद्धम् का 'ओनामासीधम' बनना अनुकरण की अपूर्णता के सूचक है। बच्चों की बोली में अनुकरण की अपूर्णता स्पष्ट दिखाई देती है जैसे रोटी को लोटी, रूपया को लुपया सुना जा सकता है, परन्तु बाद में ये दोष दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण का

'ब्राम्हण' आदि अनुकरण की अपूर्णता से हो जाते हैं।

5. **भ्रामक व्युत्पत्तियाँ** - जब व्यक्ति किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में आते हैं तथा इस शब्द से साम्य रखता हुआ कोई शब्द भाषा में पहले से ही होता है तो अपरिचित शब्द के स्थान पर अपनी

भाषा के पूर्ण परिचित शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन की क्रिया चलने लगती है। जैसे अंग्रेजी शब्द 'लाइब्रेरी' का अशिक्षित व्यक्ति भ्रमवश 'रायबरेली' तथा अरबी शब्द 'इतकाल' को 'अन्तकाल' कह दिया जाता है। इसी प्रकार 'चार्जशीट' को 'चारसीट' 'क्वार्टर' को 'कातल' या 'काटर' 'गार्ड' को 'गारद' कोर्ट को 'कोरट', 'कार्ड' का 'कारड' जैसे शब्द भ्रमवश प्रयोग किए जाने लगते हैं।

6. **भावुकता-** भावुकता वश या प्रेमवश मनुष्य शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। अतः ध्वनि परिवर्तन होता रहता है। व्यक्तियों के नामों के सम्बन्ध में देखा जाता है कि प्रेम के कारण व्यक्तियों के नाम बिगाड़ कर पुकारा जाता है। जैसे धनीराम का धनुआ, सुखराम का सुकखा, राजेन्द्र का रज्जो, दुलारी का दुल्ला, बच्चा का बचऊ, बेटी का बिट्टी, बहू का बहुरिया आदि इसी प्रकार के शब्द हैं।

7. **वाग्यन्त्र की विभिन्न-** हर व्यक्ति के वाग्यन्त्र की बनावट पूर्णतः एक जैसी नहीं होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का ध्वनि उच्चारण भी समान नहीं होता है। वाग्यन्त्र की भिन्नता के कारण ध्वनि उच्चारण में भिन्नता आ जाती है, जैसे कि हर व्यक्ति अब श्, ष्, स इन तीन ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर सकता है। संस्कृत की 'स' ध्वनि 'फारसी' में 'ह' बन जाती है। जैसे 'सिन्धु' का 'हिन्दु', सप्त का 'हफ्त' आदि। 'ऋ' ध्वनि का उच्चारण सम्भव नहीं है।

8. **यदृच्छा शब्द-** बोलते समय व्यक्ति अपने आप शब्द बनाकर बोलते हैं, उन्हें यदृच्छा शब्द कहते हैं। कभी-कभी एक शब्द की समानता पर जोड़ा शब्दों का निर्माण कर लिया जाता है। खान-बाना, रोटी-ओटी, पानी-बानी आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। युग्मक रूप बनाते समय ध्वनि परिवर्तन कर लिया जाता है।

9. **आत्मप्रदर्शन-** आत्मप्रदर्शन के कारण भी व्यक्ति बोलते समय ध्वनि-परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे - 'खालिस' (शुद्ध) को निखालिस, (अशुद्ध), इच्छा को इक्षा, 'छात्रा' को 'क्षात्र', क्षत्रिय को छत्रिय, 'सेवक' को 'शेवक' आदि प्रकार से परिवर्तित कर लिया जाता है। इसी प्रकार उपर्युक्त को उपरोक्त तथा अन्तराष्ट्रीय को 'अन्तराष्ट्रीय' बनाकर प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का प्रचलन अत्यधिक हो चुका है तथा भाषा में ये रूप स्वीकृत हो चुके हैं।

2.4.3 ध्वनिपरिवर्तन के बाह्य कारण

1. **भौगोलिक प्रभाव-** भौगोलिक प्रभाव के कारण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अधिक ठंडे (स्थानों पर व्यक्ति अधिक मुख नहीं खोल सकता है अतः विवृत ध्वनियों का विकास नहीं हो पाता है। गरम देश में इसके विपरीत विवृत ध्वनियों का अधिक विकास होता है। पर्वतों से घिरे क्षेत्र के निवासी बाहरी सम्पर्क में कम आते हैं, अतः उनका मानसिक, सामाजिक, धार्मिक विकास धीमा रहता है, अतः भाषा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है तथा परिवर्तन की गति मन्द होती है। पहाड़ी भाग के निवासी यातायात की कमी से थोड़े-थोड़े क्षेत्र से सम्पर्क रखते हैं, अतः भाषा की अनेक बोलियाँ

विकसित हो जाती है, क्योंकि ध्वनि-परिवर्तन थोड़ी-थोड़ी दूर के क्षेत्रों में पाया जाता है।

2. **सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव-** समाज में जब शान्ति, स्थिरता रहती है तो मनुष्यों में विद्या का प्रचार होने से अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं, परन्तु बाहरी आक्रमणों से जब समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है, युद्ध का वातावरण रहता है तब भाषा में ध्वनि परिवर्तन अधिक तीव्रता से होते हैं। विदेशी भाषा के प्रभाव से उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। मुम्बई अंग्रेजी प्रभाव से बम्बई हो गई, कलिकाता भी कलकत्ता हो गया। राजनैतिक प्रभाव से अनेक नई ध्वनियों का समावेश हो जाता है। राजनैतिक प्रभाव से आर्यभाषाओं में अनेक विदेशी ध्वनियाँ आ गई हैं।

3. **लेखन प्रभाव-** लिखने के द्वारा भी ध्वनि परिवर्तन होते रहते हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी के मिश्र, शुक्ल, गुप्त, मित्र, अशोक, राम जैसे शब्द क्रमशः मिश्रा, शुक्ला, गुप्ता, मित्रा, अशोका, रामा आदि के रूप में उच्चरित होते हैं। उर्दू के प्रभाव से राजेन्द्र का राजेन्द्र, प्रधान का परधान, स्कूल का सकूल उच्चारण किया जाता है। इस तरह लेखन रीति ध्वनि परिवर्तन में सहायक होती है।

4. **लघु बनाने की प्रवृत्तियाँ** - अधिक लम्बे शब्दों का उच्चारण व्यक्ति को भारस्वरूप लगता है, अतः बोलचाल में संक्षिप्त करने या लघु रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। व्यक्ति का अभिप्राय श्रोता द्वारा समझ लिया जाता है। यूनिन ऑफ सोवियत सोशलिष्ट रिपब्लिक को यू0एस0एस0आर0 या सोवियत रूस कह देते हैं। इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यू0एस0एस0, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनिन को 'पेप्सू' कहते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक संस्थाओं के नामक का संक्षिप्त रूप प्रयोग किया जाता है जैसे - यूनेस्को। इसी प्रकार शुक्ल दिवस को संक्षिप्त करके 'सुदि' कहते हैं। इस प्रकार लम्बे-लम्बे शब्दों में ध्वनि परिवर्तन करके उनका छोटा रूप प्रयोग किया जाता है।

5. **काल का प्रभाव-** ध्वनि परिवर्तन में काल अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक समय बीतने पर अनेक कारणों से जैसे बदलती राजनीतिक दशा, धार्मिक दशा, सामाजिक दशा के कारण अथवा भाषा के स्वाभाविक विकास के कारण ध्वनियों में परिवर्तन आता जाता है। लम्बे समय में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हजारों वर्ष पूर्व की वैदिक संस्कृत स्वाभाविक गति से काल-प्रभाव से परिवर्तित होकर आज भारती आर्य भाषाओं की जननी बन चुकी है, इसी प्रकार लैटिन, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं से ध्वनि परिवर्तन होकर आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ है।

6. **सादृश्य** - सादृश्य के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होते हैं। किसी एक ध्वनि के सादृश्य पर दूसरी ध्वनि का प्रयोग किया जाने लगता है। द्वादश के सादृश्य पर 'एकदश' की 'एकादश' बन गया है। स्वर्ग की समानता पर नरक का 'नर्क' प्रयोग किया जाने लगा है। इसी प्रकार देहाती की समानता पर 'शहराती' शब्द बना लिया गया है।

7. **कलात्मक स्वच्छन्दता-** कवियों द्वारा मात्रा अथवा तुक मिलाने के लिए या श्रुति माधुर्य के

लिए ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। संसार के स्थान पर जहाना- (जैसे - जे जड़ चेतना जीवन जहाना), बैठाया के स्थान पर बैठाई (जैसे - आसिस देइ निकट बैठाई), नदिया (नदी), हथियार (हथियार), बिकरार (विकराल), चंका (चक्का), बादर (बादल), कारे (काले), काजर (काजल) आदि प्रयोग भी मिलते हैं। अनेक स्थानों पर 'ण' अपेक्षा 'न' का प्रयोग किया गया है। जैसे - कन (कण), वीणा (वीना), किरन (किरण) आदि। इस प्रकार तुक मिलाने, लय या मधुरता लाले के लिए ध्वनियों में परिवर्तन होते रहते हैं।

8. लिपि की अपूर्णता-

किसी एक लिपि से विश्व की सब ध्वनियों को प्रकट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखा जाता है कि 'विश्व में कोई भी दो भाषाएँ पूर्ण रूप से एक ही प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग नहीं करती है। अतः किसी एक भाषा के लिए पर्याप्त सिद्ध होने वाली लिपि किसी अन्य भाषा के लिए अपर्याप्त सिद्ध होती है। एक भाषा के शब्द दूसरी लिपि में अशुद्ध प्रयोग किए जाने लगते हैं। तमिल भाषा में देवनागरी के वर्गों के पहले तथा पाँचवें वर्ण सूचक चिह्न मिलते हैं। प्रथम वर्ण शेष 3 वर्णों का भी बोध कराता है। अंग्रेजी शब्दों में रोमन लिपि की कमी (अपूर्णता) स्पष्ट प्रतीत होती है। 'व्' (ओ) ध्वनि कहीं 'अ', कहीं 'आ' तो कहीं 'ओ' को बताती है, जैसे मदर (mother) में 'अ', ऑवर (our) में 'आ', मोर (more) में 'ओ' की तरह आई है। इसी प्रकार (l) ए ध्वनि भी बदलती रहती है। म् (ई) ध्वनि भी कहीं 'इ' कहीं 'ए' तो कहीं 'अ' की तरह आती है। जैसे mere (मियर) में 'इ', hen में 'ए', mother (मदर) में 'अ' की भाँति आई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं। देवनागरी की अनेक ध्वनियाँ जैसे ण, ड, ङ, श, ष, रोमन में नहीं हैं। हिन्दी में भी टंकण में चन्द्र बिन्दु (ँ) के स्थान पर (ं) अनुस्वार का प्रचलन हो गया है। उर्दू लिपि तथा गुरुमुखी में स्कूल को सकूल, प्रधान को परधान, प्रेम को परेम, रजेन्द्र को राजेन्द्र जैसे रूपों में लिखा तथा पढा जाता है। इस प्रकार लिपि को अपूर्णता का ध्वनि परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है।

9. बलाघात सुर या मात्रा

बलाघात से ध्वनि परिवर्तन हो जाते हैं। बलाघात युक्त ध्वनि सबल होकर समीपवर्ती ध्वनियों को निर्बल कर देती है। बाद में निर्बल ध्वनियाँ लुप्त हो जाती है। जैसे 'अभ्यन्तर' से 'भीतर', उपाध्याय से ओझा हो गया। सुर के प्रभाव से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, जैसे कुष्ठ का कोढ़, बिल्व का बेल। दो दीर्घ स्वर आने पर एक स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे नारायण का नरायण, आकाश का अकाश

आदि। इस प्रकार बलाघात, सुर आदि के कारण ध्वनि परिवर्तन हो जाते हैं।

10. विदेशी ध्वनियों का प्रभाव- विदेशी ध्वनियों के प्रभाव से भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय भाषाओं में भी अरबी, फारसी आदि भाषाओं की ध्वनियाँ परिलक्षित होती है।

2.4.4 ध्वनि परिवर्तन की दिशाएँ

ध्वनि-परिवर्तन को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है - (1) बाह्य और (2) आन्तरिक। बाह्य प्रभावों के द्वारा हुए परिवर्तन को बाह्य परिवर्तन की संज्ञा दी गई है तथा जो परिवर्तन बाह्य कारण की अपेक्षा न रखते हुए स्वयं ही हो जाते हैं, उन्हें आन्तरिक कारण कहा गया है। संस्कृत के वैयाकरणों ने भी ध्वनि परिवर्तन प्रक्रिया को स्वीकार किया है। उनके विचार से ध्वनि या वर्ण परिवर्तन के कारण वर्णव्यत्यय, वर्णापाय, वर्णोजन एवं वर्णविकार हैं-

वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेषु । वर्णव्यत्यये कृतेस्तर्कः कसेः सिकता, हिंसेः सिंहः । अपायो लोपः घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन् । उपजन - आगमः, लविता, लवितुम् । विकारः आदेशः घातयति, घातकः ।

अर्थात् महाभाष्यकार पतञ्जलि ने वर्णव्यत्यय के उदाहरण कृत से तर्क, कस से सिकता, हिंसा से सिंहः, लोप के उदाहरण घ्नन्ति,, घ्नन्तु और अघ्नन्। आगम के उदाहरण - लविता, लवितुम्, आदेश के उदाहरण - घातयति, घातकः दिए हैं। काशिकाकार ने भी 'वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ' वर्णविकारनाशौ - लिखकर वर्णपरिवर्तन के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है। आधुनिक भाषाविज्ञानविशारदों के विचार से सामान्यतः ध्वनि-परिवर्तन की दिशाएँ इस प्रकार हैं।

2.4.5 लोप अभिनिधान -

कभी-कभी ध्वनियों के उच्चारण करते समय प्रयत्नलाघव, मुख-सुख या स्वराघात के कारण कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। यह लोप स्वर, व्यञ्जन तथा अक्षर से सम्बन्धित होने से तीन प्रकार का माना गया है-

1. स्वरलोप
2. व्यञ्जन
3. अक्षरलोप ।

उपर्युक्त तीनों के आदि, मध्य और अन्त ये तीन भेद किए गए हैं

स्वरलोप-शब्दों में दो व्यञ्जनों के मध्य में आने वाले स्वर का प्रायः लोप हो जाता है।

जैसे - राजन् उदात्त अस् = राज्ञः।

आदि स्वर लोप - अपूप = पूप, अनाज = नाज, आभ्यन्तर = भीतर।

मध्य स्वर लोप - अरथी = अर्थी बरतन = बर्तन

गलती = गलती DoNot= Dont

अन्त्य स्वर लोप - इसके कारण शब्द प्रायः व्यञ्जनान्त हो गए हैं। लेकिन लिखने में अभी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है।

परीक्षा =	परख (परख्)।	बाहु =	बाँह (बाँह्)
आम्र =	आम (आम्)।	भगिनी =	बहन (बहन्)
दूर्वा =	दूब (दब्)।	वार्ता =	बात (बात्)

व्यञ्जन लोप- इसके भी तीन प्रकार बताए गए हैं-

1. आदि व्यञ्जन लोप,
2. मध्य व्यञ्जन लोप और
3. अन्त्य व्यञ्जन लोप।

1. आदि व्यञ्जन लोप- उच्चारण की कठिनाई के कारण अंग्रेजी आदि भाषाओं में आदि व्यञ्जन का लोप हो जाता है। जैसे-

Write .	Rite	प्रिय -पिय (हिन्दी)
Know .	Now	श्मशान - मसान (हिन्दी)
Knight.	Night	स्थाली - थाली (हिन्दी)
Knife .	Nife	स्थान - थान (हिन्दी)

2. मध्य व्यञ्जन लोप - संस्कृत शब्दों के मध्य में आने वाले क, ग, च, ज, त, द, न, प, फ, य, र, ल, व, ष तथा विसर्ग (:) का प्रयाः हिन्दी में लोप हो जाता है-

श्रृगाल = सियार	पिप्पल = पीपल
कुक्कुर = कूकर	शय्या = सेज
सूची = सूई	उत्पत्तियों = उपज
उष्ट्र = ऊँट	अर्द्ध = आधा
कोकिल = कोईल	फाल्गुन = फागुन
लज्जा = लाज	दुःख = दुख

दुग्ध = दूध

प्राकृत भाषा में इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं-

सागर = साअरो

भोजन = भोअण

प्रिय = पिय

हिन्दी की बोलियों में भी इस तरह की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं-

ज्वार = जर

ब्राह्मण = ब्राम्हन

बुद्ध = बुध

कार्तिक = कातिक

कायस्थ = कायथ

उपवास = उपास

इसी तरह अंग्रेजी में तो उच्चारण का लोप हो गया है, लेकिन लिखित रूप में अभी मौजूद हैं-

Talk टॉक

Right राइट

Walk वॉक

Daughter डॉटर

3. अन्त्य व्यञ्जन लोप-

सत्य = सत (सच)

पश्चात् = पश्चा (प्राकृत)

चरित्र = चरित (चरित्)

यावत् = जब

कुंकुम = कुम्मो

निम्ब = नीम

आम्र = आम

अक्षर लोप - इसके चार भेद किए गए हैं-

1. आदि अक्षर लोप
2. मध्य अक्षर लोप
3. अन्त्य अक्षर लोप
4. समाक्षर लोप

1. आदि अक्षर लोप (Aphoresis)

University	.	Versity	त्रिशूल	- शूल
Defence	.	Fence	अध्यापक	- झा
Necktie	.	Tie	व्याकुल	- आकुल

2. मध्य अक्षर लोप

वरूजीवी	-	बरई	गोधूमचणा	-	गिहुँचना
भण्डागार	-	भण्डार	गेहूँ जब	-	गोजई
राज्यकुल	-	राउर	दस्तखत	-	दस्खत

3. अन्त्य अक्षर लोप

मौक्तिक	-	मोती,	दीपवर्तिका	-	दीवट
माता	-	माँ,	यज्ञोपवीत	-	जनेऊ

निम्बुक	-	नींबू	जीव	- जी
भ्रातृजाया	-	भावज,	सपाद	- सवा

3- समाक्षर लोप- (Haplology) किसी एक ही शब्द में अक्षर या अक्षर समूह साथ-साथ दो बार प्रयुक्त किए जाते हैं तो उच्चारण की सुविधा के कारण उनमें से एक का लोप हो जाता है, तब उसे समाक्षर लोप कहा जाता है।

जैसे-	शष्पिञ्जर	-	शष्पिञ्जर
	खरीददार	-	खरीदार
	नाककटा	-	नकटा
	Part-time	-	Partime

कभी-कभी ध्वनि या अक्षर पूर्णतः एक ही न होकर उच्चारण में मिलते - जुलते हैं, तब भी एक का लोप हो जाता है-

कुष्णनगर - कृष्णनगर

इनके भी तीन उपभेद किए गये हैं।

1. समव्यञ्जन लोप
2. समस्वर लोप और
3. समाक्षर लोप

2.4.6 आगम- प्रागुपजन

उच्चारण करते समय कभी-कभी मुख-सुख के लिए कुछ व्यञ्जनों, विशेषतया संयुक्त व्यञ्जनों के आदि, मध्य तथा अन्त में स्वरों तथा व्यञ्जनों का आगम हो जाता है। प्रारम्भ में आने वाले स्वर को प्रागुपजन कहा गया है। इसमें शब्द के प्रारम्भ में कोई स्वर प्रयुक्त हो जाता है

जैसे -	स्तुति	-	इस्तुति
	स्नान	-	अस्नान
	स्कूल	-	इस्कूल

मध्य स्वरागम- अज्ञानता अथवा बोलने की सुविधा के लिए कभी-कभी मध्य में अन्तर का प्रयोग किया जाता है-

कर्म - करता	ब्रह्म- बरहमा (बरमा)
प्रकार - परकार	बक - बगुला
मर्म - मरम	मिश्र - मिसुर
प्रसाद - परसाद	भ्रम - भरम

अन्त्य स्वरागम-

गल	-	गला
स्वप्न	-	सपना
दवा	-	दवाई
निपुणता	-	निपुनाई (निपुनाई)
हरीतिमा	-	हरियाई
चतुरता	-	चतुराई

व्यञ्जनागम**आदि व्यञ्जनागम-**

अस्थि	-	हड्डी
ओष्ठ	-	होठ
उल्लास-		हुलास

मध्य व्यञ्जनागम-

शाप	-	श्राप	वानर	-	बन्दर
समुद्र	-	समुन्दर	लाश	-	लहास
सुख	-	सुक्ख	Panel	.	Pannel

अन्त्य व्यञ्जनागम-

चील	-	चील्ह	परवा	-	परवाह
रंग	-	रंगत (अरबी)	देह	-	देहार (फारसी)
भोंह	-	भौंह	Cautio	-	Caution(अंग्रेजी)

अक्षरागम**आदि अक्षरागम-**

स्फोट	-	विस्फोट
गुञ्जा	-	घुंघुची

मध्य अक्षरागम-

खल	-	खरल
आलस	-	आलकस

गरीबनिवाज - गरीबुलनिवास

अन्त्य अक्षरागम- ढफ - ढफली

तावे - तावेदार

वधू - वधूटि

2.4.7 स्वरभक्ति या विप्रकर्ष-

संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में होने वाली असुविधा को समाप्त करने के लिए उनके बीच में स्वर के आगम को स्वरभक्ति या विप्रकर्ष कहा गया है। यथा-

युक्ति - युगति (जुगति)

पंक्ति - पंगति

भक्ति - भगति

अपिनिहित-समस्वरागम -आदिस्वर तथा अपिनिहित में विद्वानों ने कुछ अन्तर दर्शाये हैं-

1. आदि स्वरागम में कोई भी स्वर आ सकता है लेकिन अपिनिहित में केवल उसी स्वर का आगम होता है जो या तो पहले से विद्यमान को अथवा उसी प्रकृति का हो।
2. आदि स्वरागम में आने वाला स्वर हमेशा आदि में प्रयुक्त होता है जबकि अपिनिहित में ऐसा कोई बन्धन नहीं है।

2.4.8 समीकरण

समीप स्थित दो वर्ण जब परस्पर प्रभावित होकर वर्णों में से एक रूप परिवर्तित कर दूसरे को स्वरूप ग्रहण करता है तो उसे समीकरण कहते हैं। संस्कृत के वैयाकरणों ने इसे सवर्णीकरण नाम से पुकारा है। इसके दो भेद किए गये हैं-

1. पुरोगामी और
2. पश्चगामी

स्वर तथा व्यञ्जन के आधार पर इनके उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा रहा है-

- 1- पुरोगामी

दूरवर्ती	-	विलपना =	विलबना
पार्श्ववर्ती	-	पद्म =	पद्,
		चक्र =	चक्क,
		वक्र =	वक्क ।

2- पश्चगामी

दूरवर्ती	-	नीला = लीला,	नील = लीला।
पार्श्ववती	-	धर्म = धम्म,	कर्म = कम्म,
		सर्प = सप्प ।	

स्वर-

1. पुरोगामी

दूरवर्ती	- जुल्म	=	जुलुम ।
पार्श्ववती	- आइए	=	आइइ ।

2. पश्चगामी

दूरवर्ती	- असूया	=	उसूया ।
----------	---------	---	---------

2.4.9 विषमीकरण

यह समीकरण का उल्टा है। इसमें दो समान समीपस्थ ध्वनियों में एक ध्वनि अपने स्वरूप का परित्याग कर विषम या असम बन जाती है, तब इसे विषमीकरण कहा जाता है। जब पहला वर्ण तो ज्यों का त्यों स्थित रहता है, परन्तु दूसरे में परिवर्तन हो जाता है तो उसे 'पुरोगामी विषमीकरण' कहा जाता है।

जैसे	-	काक =	काग,
		कंकण =	कंगन,।
		लांगूल =	लंगूर।

पञ्चगामी विषमीकरण में प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है।

जैसे -	नूपुन	=	नेउर,
	मुकुट	=	मउर (मौर),
	मुकुल	=	मउला।

2.4.10 विपर्यय

कभी-कभी शीघ्रतापूर्वक उच्चारण करते समय शब्द की ध्वनियों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। ध्वनियों के स्थान पर परिवर्तन को विपर्यय कहते हैं। विपर्यय कई प्रकार का होता है-

स्वर- विपर्यय, व्यञ्जन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय। समीप की ध्वनियों के परिवर्तन को पार्श्ववर्ती विपर्यय तथा दूरवर्ती ध्वनियों के परिवर्तन को दूरवर्ती विपर्यय कहते हैं।

स्वरविपर्यय

(क) पार्श्ववर्ती स्वर विपर्यय- फा0 में जानवर का हिन्दी में जानवर, अंगुली को उंगुल इंडो (अफ्रीकी भाषा में) स्पम = स्मप (बनाना) आदि।

(ख) दूरवर्ती स्वर विपर्यय - अनुमान = उनमान,
पागल, = पगला,
खट्टा = खाट आदि।

व्यञ्जन विपर्यय

(क) पार्श्ववर्ती विपर्यय- चिह्न = चिन्ह,
ब्रह्म = बम्ह,
हनान = नहान,
डूबना = बूड़ना,
डेस्क = डेक्स आदि

(ख) दूरवर्ती स्वर विपर्यय - तमगा = तगमा,

अमरूद = अरमूद,

सिगनल = सिंगल आदि।

अक्षर विपर्यय

(क) पार्श्ववर्ती विपर्यय-

अरबी - मतलब = मतबल,

अचरज(अरबी) = (उर्दू) अरजक (नीला),

खन = नख आदि।

(ख) दूरवर्ती स्वर विपर्यय - लखनऊ - नखलऊ आदि।

आद्य शब्दांश - विपर्यय (SPOONERISM)- जब दो शब्दों के प्रारम्भ के अक्षरों में विपर्यय हो जाता है तो उसे आद्य शब्दांश - विपर्यय कहते हैं। आक्सफोर्ड के विद्वान् डा० डब्ल्यू० ए० स्पूनर के नाम से इसे 'स्पूनरिज्म (Spoonerism) कहते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रकार के विपर्यय बोलने की लत भी।

उन्हीं के द्वारा प्रयुक्त कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं- एक बार कुल से उन्होंने 'दो थैले तथा एक कम्बल (Two bags and a rug) ले जाने के स्थान पर 'दो चिथले तथा एक खटमल' (Two Rags and a gug) ले जाने को कह दिया।

इसी प्रकार उन्होंने एक विद्यार्थी को डाँटते समय कहा कि -You have tasted a whole worm जबकि कहना चाहते थे You have wated a whole teme

इस प्रकार विपर्यय होना उनकी आदत में था। हिन्दी में ऐसे उदाहरण - 'चावल-दावल' (दाल चावल), नेन तूल (नून तेल) जैसे बनाए जा सकते हैं।

2.4.11 अभिश्रुति (Umlaut)

स्वरो तथा व्यञ्जनों से प्रभावित होकर आदि अपिनिहित के कारण प्रयुक्त हुआ स्वर परिवर्तित हो जाता है तो उसे अभिश्रुति कहा जाता है-

Mani = Maini = Men

अपश्रुति (Ablaut)- जब किसी शब्द में व्यञ्जनों के यथावत् रहते हुए भी केवल स्वर

परिवर्तन से रूप तथा अर्थ में अन्तर हो जाय तथा अनेक रूप निर्मित हो जायँ तो उसे अपश्रुति कहा जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
अंग्रजी - फुट (पैर)	फीट (पैर)
अरबी - किताब (पुस्तक)	कुतुब (पुस्तकें)
संस्कृत - अस्ति (है)	सन्ति (है)
पुँलिंग	स्त्रीलिंग
कृष्ण	कृष्णा
राम	रमा

अपश्रुति के अन्तर्गत ही भारतीय वैयाकरणों द्वारा बताए गए गुण, वृद्धि और सम्प्रसारण भी आ जाते हैं। सम्प्रसारण में य्, व्, र् ल्, क्रमशः इ, उ, ऋ, लृ, में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे-

ग्रभे = गृभे, श्वन = शुनः,
वक्तवे = उक्त, चत्वारः = चतुरः।

2.4.12 सादृश्य या मिथ्यासादृश्य (Analogy or false analogy)

समानता के कारण भी ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती है। जब कुछ शब्दों में दूसरों के सादृश्य से ध्वनि परिवर्तन होता है तो इसे सादृश्य या मिथ्यासादृश्य कहा जाता है। इसे औपम्य या उपमान भी कहा जाता है। जैसे - 'सर्प' शब्द नरक के सादृश्य से सरप। डाक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में 'संस्कृत में द्वादश के सादृश्य पर एकदश भी एकादश हो गया है।

2.4.13 अनुनासिकता-

अनुनासिकता के कारण भी ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन प्रकार में मुख-सुख ही प्रमुख कारण है। जैसे-

सत्य = साँच,
वक्र = बाँका,

सर्प = साँप,

कूप = कुआँ।

ऊष्मीकरण- कभी-कभी ध्वनियाँ ऊष्म ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे ही ऊष्मीकरण कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप केन्ट्रम् वर्ग की भाषाओं की 'क' ध्वनि 'शतम्' वर्ग में ऊष्मीकरण को प्राप्त हो गयी है।

सन्धि - संस्कृत भाषा में सन्धियों का महत्पूर्ण स्थान है। सन्धियों के नियम स्वर और व्यञ्जन दोनों के लिए है। संस्कृत के अलावा दूसरी भाषाओं में सन्धियों के नियमों का प्रयोग हुआ है। कभी-कभी तो सन्धियों के माध्यम से इतना परिवर्तन हो जाता है: कि सम्पूर्ण ध्वनियों का समझना ही कठिन हो जाता है।

जैसे-

तद् + श्लोकेन = तच्छ्लोकेन,

वाक् + हरिः = वाग्हरिः

हिन्दी- नयन = नइन = नैन।

सपत्नी = सवत = सौता।

घोषीकरण - जब अघोष ध्वनियाँ, घोष ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे घोषीकरण कहा जाता है। जैसे-

मकर = मगर, सकल = सगल, काक = कागा।

अघोषीकरण - इसमें सघोष ध्वनि अघोष के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अतः इसे 'अघोषीकरण' कहा जाता है। जैसे-

नगर = नकर, अदद = अदता।

महाप्राणीकरण- अल्पप्राण ध्वनियाँ जब महाप्राण में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे 'महाप्राणीकरण' कहा जाता है। जैसे-

वाष्प = भाप,

गृह = घर

हस्त = हाथ।

अल्पप्राणीकरण - जब महाप्राण ध्वनियाँ अल्पप्राण में बदल जाती है तो उसे अल्पप्राणीकरण कहा जाता है। जैसे-

धधामि = दधामि, सिन्धु = हिन्दु।

मात्राभेद- उच्चारण में कभी दीर्घ को ह्रस्व और कभी ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। जैसे-

अक्षत = आखत, हस्त = हाथ सत्य = साँच।

नासिका - नासिका विवर प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। यह श्वास प्रश्वास वायु का मुख्य स्थान व साधन है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नासिका विवर की सहायता से किया जाता है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के उच्चारण में शरीरावयवों का महत्व पूर्ण स्थान है। इनके विकृत हो जाने से ध्वनियों का उच्चारण करना सम्भव नहीं है।

2.5 सारांश

इस इकाई में पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं-

1. ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है।
2. इस ध्वनि परिवर्तन को भाषा विज्ञानी विकार अथवा विकास कहते हैं।
3. कभी-कभी ध्वनियों में परिवर्तन होते-होते कुछ ध्वनियों का प्रयोग कम हो जाता है।
4. परिवर्तन होते-होते शनै-शनै कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो जाती है और कुछ नवीन ध्वनियों का समावेश हो जाता है।
5. इस ध्वनि परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इनमें आभ्यन्तर और बाह्य कारण प्रमुख ध्वनियों का समावेश हो जाता है।
6. आभ्यन्तर कारणों में प्रयत्न राघव, बोलने में शीघ्रता, अशिक्षा, अज्ञान, अनुकरण की अपूर्णता आदि मुख्य कारण है।
7. बाह्य कारण में भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव, लेखन प्रभाव, संक्षिप्त बनाने की प्रवृत्तियाँ आदि मुख्य कारण हैं।
8. यहाँ आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकार के कारणों पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है।

9. ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का विवेचन किया गया है।

10. ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में स्वर -लोप, व्यञ्जन लोप, अक्षरलोप आदि आते हैं। यहाँ इनका सम्यक् विश्लेषण किया गया है।

11. ध्वनि परिवर्तन के आभ्यन्तर और बाह्य कारणों तथा ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के विषय में प्रकाश डालकर यथा स्थान उनके उदाहरण दिये गये हैं।

2.6 शब्दावली

आभ्यन्तर करण - ध्वनि परिवर्तन में जो आन्तरिक कारण होते हैं, उन्हें आभ्यन्तर कारण कहते हैं।

प्रयत्नलाघव--मनुष्य शब्द के उच्चारण में प्रयत्न करता है। अधिक श्रम से बचने का प्रयत्न करता है। जब किसी शब्द के उच्चारण में उसे कठिनाई होती है। तब वह अपनी सुविधा के लिए उसका उच्चारण अपने ढंग से कर देता है। इसे प्रयत्नलाघव कहते हैं। जैसे - इन्द्र को इन्दर।

यदृच्छा - कभी-कभी व्यक्ति बोलते समय अपने आप शब्द बनाकर बोलते हैं, उन्हें यदृच्छा शब्द कहते हैं। जैसे - पट - पटा करोति। हिन्दी में कभी -कभी एक शब्द की समानता पर जोड़ा शब्दों का निर्माण कर बोल देते हैं। जैसे खाना-बाना, रोटी-ओटी, पानी-बानी इत्यादि।

सादृश्य- सादृश्यता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे - द्वादश के सादृश्य पर एक- दश भी एकादश बन गया है।

बलाघात- बलाघात से ध्वनिपरिवर्तन हो जाता है। बलाघात युक्त ध्वनि सबल होकर समीपवर्ती ध्वनियों को निर्बल कर देती है और बाद में ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं।

जैसे - आकाश का अकाश।

वर्णव्यत्यय - वर्णोंक में व्यत्यय अर्थात् उलट फेर से परिवर्तन हो जाता है। जैसे - कृत से तर्क, हिंस से सिंह।

वर्णापाय- वर्ण के अपाय अर्थात् लोप हो जाने से परिवर्तन हो जाता है। जैसे - हन् धातु से लट् लकार के प्रथम पुरुष, बहुवचन में ध्नन्ति बन जाता है।

वर्णागम -वर्ण के आगम से भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे - बभूव में भू धातु से वुक् का आगम होता है।

वर्णविकार-वर्ण के विकार से भी परिवर्तन हो जाता है।

जैसे - हन् धातु से धातका।

लोप अभिनिधान-कभी-कभी ध्वनियों के उच्चारण करते समय प्रयत्नलाघव, मुखसुख या स्वराघात के कारण कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो जाती है। इसे लोप अभिनिधान कहते हैं।

जैसे - राजन् उदात्त डस् = राज्ञः।

आगम प्रागुपजन- उच्चारण करते हुए कभी-कभी मुखसुख के लिए प्रयुक्त कुछ व्यजनों - मुख्य रूप से संयुक्त व्यजनों के आदि, मध्य और अन्त में स्वरों तथा व्यजनों का आगम हो जाता है। इसे आगम प्रागुपजन कहते हैं-

जैसे - स्तुति - इस्तुति।कर्म - करम ।

स्वरभक्ति या विप्रकर्ष-संयुक्त अक्षरों के उच्चारण में होने वाली असुविधा के दूर करने के लिए उनके बीच में स्वर आगम को स्वरभक्ति कहते हैं। जैसे - भक्ति - भगति।

समीकरण -समीप स्थित दो वर्ण जब परस्मपर प्रभावित होकर एक वर्ण अपने रूप को परिवर्तित कर दूसरे का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो उसे समीकरण कहते हैं। संस्कृत के वैयाकरण इसे सवर्णीकरण कहते हैं।

जैसे - चक्र - चक्क।

विषमीकरण -यह समीकरण का उल्टा है। इसमें दो समान समीपस्थ ध्वनियों में एक ध्वनि अपने स्वरूप का परित्याग कर विषम या असम बन जाती है तब इसे विषमीकरण कहते हैं।

जैसे - मुकुट - मउर ।

आद्य शब्दांश विपर्यय- जब दो शब्दों के प्रारम्भ के अक्षरों में विपर्यय हो जाता है तो उसे आद्य शब्दांश विपर्यय कहते हैं। जैसे - हिन्दी में चावल -दाल को दाल - चावल कह देते हैं।

अभिश्रुति- स्वरों तथा व्यञ्जनों से प्रभावित होकर यदि अपिनिहित के कारण प्रयुक्त हुआ स्वर परिवर्तित हो जाता है तो उसे अभिश्रुति कहते हैं।

अपश्रुति- जब किसी शब्द में व्यञ्जनों के यथावत् रहते हुए भी क्वेल स्वर परिवर्तन से रूप तथा अर्थ में अन्तर हो जाये तो उसे अपश्रुति कहते हैं। जैसे - अस्ति- सन्ति।

घोषीकरण- जब अघोष ध्वनियाँ घोष ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं तो इसे घोषीकरण कहते हैं।

अघोषीकरण- जब सघोष ध्वनि अघोष रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे अघोषीकरण कहते हैं।

महाप्राणीकरण -जब अल्पप्राण ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे महाप्राणीकरण कहते हैं।

2.7 अभ्यास प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न 1 - भाषा विज्ञानी ध्वनि परिवर्तन को कहते हैं।

- (क) व्याकरण (ख) निरूक्त
(ग) विकास या विकार (घ) आगम

उत्तर (ग) विकास या विकार।

प्रश्न 2 - विस्फोट में है-

- (क) स्वरागम (ख) अक्षरागम
(ग) विपर्यय (घ) सन्धि

उत्तर (ख) अक्षरागम।

प्रश्न 3 - सादृश्य के द्वारा होता है

- (क) विपर्यय (ख) ध्वनि-परिवर्तन
(ग) सन्धि (घ) आगम

उत्तर (ख) ध्वनि- परिवर्तन।

प्रश्न 4 - भभूव में है-

- (क) वर्णागम (ख) वर्णापाय
(ग) वर्ण व्यत्यय (घ) बलाघात

उत्तर (क) वर्णागम।

प्रश्न 5 - घातक में है-

- (क) बलाघात (ख) वर्ण व्यत्यय
(ग) वर्ण-विकार (घ) वर्णापाय

उत्तर (ग) वर्ण विकार

2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यास्क, निरूक्त, सम्पादक डा० शिवबालक द्विवेदी (सं० 2057) - संस्कृत नवप्रभात न्यास, शारदानगर, कानपुर।

2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2003 ई०) संस्कृत व्याकरणम् - अभिषेक प्रकाशन, शारदानगर, कानपुर।
3. श्रीवरदराजाचार्य (सं० 2017) मध्यसिद्धान्त कौमुदी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।
4. आप्टे वाम शिवराम (1939 ई०) संस्कृत हिन्दी कोश- मोती लाल बनारसीदास बंग्लो रोड, जवाहरनगर दिल्ली।
5. द्विवेदी डा० शिवबालक (1879ई०) संस्कृत भाषा विज्ञान- ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।

2.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तिवारी डा० भोलानाथ (2005 ई०) भाषाविज्ञान - किताबमहल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2005 ई०) भाषा विज्ञान - ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।
3. द्विवेदी डा० शिवबालक (2010 ई०) संस्कृत रचना अनुवार कौमुदी, हंसा प्रकाशन, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. शास्त्री भीमसेन (सं० 2006) लघुसिद्धान्तकौमुदी - लाजपतराय मार्केट दिल्ली।
5. महर्षि पतंजलि (1969 ई०) व्याकरण महाभाष्य - मोतीलाल बनारसी दास बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वाराणसी।
6. शास्त्री चारुदेव (1969 ई०) व्याकरण चन्द्रोदय, मोतीलाल बनारसीदास, बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वाराणसी।
7. डा० रामगोपाल (1973 ई०) वैदिक व्याकरण - नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।

2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

(क)

1. ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालिए।
2. ध्वनि परिवर्तन के आभ्यन्तर कारणों को बतलाइए।
3. ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों पर प्रकाश डालिए।

-
4. ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं पर प्रकाश डालिए।
- (ख) निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
1. लोप अभिनिधान
 2. समाक्षर लोप
 3. आगम प्रागुपजन
 4. स्वरभक्ति या विप्रकर्ष
 5. समीकरण
 6. विषमीकरण
 7. विपर्यय
 8. अभिश्रुति
 9. अपश्रुति
 10. सादृश्य

इकाई 3. ध्वनि नियम - ग्रिम, ग्रासमन, वर्नर

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3. ध्वनिनियम, ग्रिम ग्रासमन, वर्नर - अर्थ एवं स्वरूप
- 3.4 ध्वनिनियम, ग्रिम, ग्रासमन, वर्नर
 - 3.4.1 ध्वनि-नियम
 - 3.4.2 ग्रिम-नियम
 - 3.4.3 प्रथम वर्ण परिवर्तन
 - 3.4.4 द्वितीय वर्ण परिवर्तन
 - 3.4.5 ग्रासमन का ध्वनिनियम
 - 3.4.6 वर्नर का ध्वनिनियम
- 3.5 सारांश
- 3.6 शब्दावली
- 3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.8 सन्दर्भ / ग्रन्थ सूची
- 3.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 3.10 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

भाषा विज्ञान में ध्वनि नियम का महत्व पूर्ण स्थान है। यह ध्वनि-नियम किसी भाषा विशेष का होता है। ध्वनि नियम सर्वथा अपवाद रहित नहीं होते।

प्रस्तुत इकाई में ग्रिम, ग्रासमन और वर्नर के ध्वनि नियमों का अनुशीलन किया गया है। इनमें ग्रिम, नियम का विशेष महत्व है। जर्मन भाषा के प्रकांड विद्वान् और सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक, आचार्य ग्रिम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया है, उसे ग्रिम नियम कहते हैं। ग्रिम नियम का सम्बन्ध नौ स्पर्श ध्वनियों से है। इसे जर्मन भाषा का वर्णन परिवर्तन कहते हैं। यह वर्ण परिवर्तन दो बार हुआ है। इसके पश्चात् अपवाद स्वरूप कहते हैं। यह वर्ण परिवर्तन दो बार हुआ है। इसके पश्चात् अपवाद स्वरूप, ग्रासमन और वर्नर के ध्वनि नियम आते हैं।

इस इकाई में ग्रिम, ग्रासमन और वर्नर के ध्वनि नियमों के सम्बन्ध में सम्यक् प्रकाश डाला गया है। जिससे आप इसके ध्वनि-नियमों के सम्बन्ध में विधिवत् समझ सकेंगे और इस विषय में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप-

- ध्वनि नियम के सम्बन्ध में जानकारी पा सकेंगे।
- ध्वनि नियम ध्वनियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नियम हैं।
- ग्रिम, ग्रासमन और वर्नर ध्वनि नियम पर अध्ययन करने वाले प्रमुख आचार्य हैं, यह जान पायेंगे।
- ग्रिम, ग्रासमन और वर्नर ने ध्वनि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है, यह जानकारी पा सकेंगे।
- ग्रिम नियम का सम्बन्ध नौ स्पर्श ध्वनियों से है, इसकी जानकारी कर सकेंगे।
- ध्वनि नियमों में ग्रिम नियम अनेक मौलिक विशेषताओं को रखता है, यह ज्ञान कर सकेंगे।
- अपवाद रूप ग्रासमन और वर्नर के ध्वनि नियमों का ज्ञान कर सकेंगे।
- ग्रिम नियम जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन है, इसे समझ सकेंगे।
- जर्मन भाषा का यह वर्ण परिवर्तन दो बार हुआ है, इसकी जानकारी पा सकेंगे।
- ग्रिम महोदय के द्वारा यह वर्ण परिवर्तन दो बार हुआ है, इसको सोदाहरण समझ सकेंगे।

3.3 ध्वनिनियम - (ग्रिम, ग्रासमन, वर्नर) का अर्थ एवं स्वरूप

ध्वनिनियम ध्वनियों से सम्बन्धित नियम हैं। ध्वनिनियम किसी भाषा विशेष का होता है। यह संसार की समस्त भाषाओं पर लागू नहीं होता। ध्वनिनियम निश्चित सीमा में ही रहते हैं। ये सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं होते हैं। ये ध्वनिनियम सर्वथा अपवाद रहित नहीं होते हैं। जर्मन भाषा के प्रकाण्ड विद्वान सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक आचार्य ग्रिम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया है, इसका नाम ग्रिमनियम है। ग्रिमनियम का सम्बन्ध नौ स्पर्श ध्वनियों से है।

इसे जर्मन भाषा का वर्णपरिवर्तन कहते हैं। यह वर्णपरिवर्तन दो बार हुआ है। ग्रिमनियम के सूक्ष्म परीक्षण करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसमें अनेक अपवाद हैं। उन अपवादों की समीक्षा ग्रासमन ने की है। अतएव उसे ग्रासमन नियम कहते हैं। ग्रासमन के संशोधन के बाद भी ग्रिमनियम में कुछ अपवाद रह गये थे, जिनपर वर्नर ने विचार किया है। अतएव उसे वर्नर का नियम कहते हैं।

3.4 ध्वनिनियम - ग्रिम, ग्रासमन, वर्नर

3.4.1 ध्वनि नियम

“आचार्य टकर के अनुसार - “किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट काल और विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन को उस भाषा का ध्वनि नियम कहते हैं”

A phonetic law of a language is a statement of the regular practice of that language at a particular time in regard to the treatment of a particular sound or group of sounds in a particular setting.

इस परिभाषा में निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है-

1. ध्वनिनियम किसी भाषा विशेष का होता है। एक ध्वनिनियम संसार की समस्त भाषाओं पर लागू नहीं होता है।
2. यह नियम एक भाषा की समस्त ध्वनियों पर लागू न होकर कुछ विशिष्ट ध्वनियों पर लागू होता है।
3. ध्वनिनियम सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक नहीं होते हैं। वे निश्चित सीमा में ही सीमित रहते हैं।
4. ध्वनिनियमों के लिए विशिष्ट अवस्था और परिस्थिति की अपेक्षा रहती है।
5. ध्वनिनियम सर्वथा अपवाद रहित नहीं होते हैं।

3.4.2 ग्रिम-नियम

जर्मन भाषा के अप्रतिम पण्डित एवं प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक आचार्य ग्रिम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया है, उस नियम को ग्रिम -नियम के नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि इस नियम के प्रथम विचारक इहरे और रेस्क थे। किन्तु इसकी स्मयक् विवेचना ग्रिम महोदय ने की। अतएव यह 'ग्रिम नियम' के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।

ग्रिम नियम का सम्बन्ध नौ स्पर्श ध्वनियों से है। 'क्र' से लेकर 'म' पर्यन्त समस्त ध्वनियाँ स्पर्श कहलाती हैं। (कादयो मावसानाः स्पर्शाः) इस जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कहते हैं। जर्मन भाषा का यह वर्ण परिवर्तन दो बार हुआ है। प्रथम वर्ण परिवर्तन ईशा के कई सदी पूर्व में हुआ है तथा द्वितीय वर्ण परिवर्तन लगभग सातवीं शताब्दी में हुआ है।

3.4.3 प्रथम वर्ण परिवर्तन

प्रथम वर्ण परिवर्तन में भारोपीय मूलभाषा के घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण और अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ क्रमशः जर्मन में घोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण, और अघोष महाप्राण में परिवर्तित हो जाती हैं। आचार्य ग्रिम का अभिमत है कि मूलभाषा के कुछ व्यञ्जन भारोपीय बोलियों में विशेषतया संस्कृत और ग्रीक में विद्यमान हैं। अतः मूलभाषा स्वरूप संस्कृत या ग्रीक से उदाहरण के लिए शब्द लिए गये हैं और परिवर्तन के लिए जर्मन श्रेणी की अंग्रजी से शब्द लिए गये हैं। संक्षेप में हम इसे इस प्रकार देख सकते हैं-

भारोपीय मूलभाषा (संस्कृत, लैटिन, ग्रीक)	जर्मन
घ्, ध्, भ् (घोष महाप्राण)	ग्, द्, ब् (घोष अल्पप्राण)
(ळभ्, ऋभ्, ठीए)	(ळए क्, ठए)
ग्, द्, ब् (घोष अल्पप्राण)	क्, त्, प्, (अघोष अल्पप्राण)
GH, DH, BH	(G, D, B)

प्रथम वर्ण के आदिम भाषा के घ्, ध्, भ् गाथिक भाषा में क्रमशः ग्, द्, ब् में परिवर्तित हो जाते हैं।
उदाहरण-

आदिम भाषा (संस्कृत)	गाथिक भाषा (अंग्रेजी)
घ् (ह्) हंसः	ग् Goose
दुहिता	द् Daughter
ध् विधवा	द् Widow
धा	Do

भ्	भातृ	ब Brother
	भू	BE
	भरामि	Bear

द्वितीय वर्ग में आदिम भाषा के ग्, द्, ब्, गाथिक में क्रमशः क्, त्, प् हो जाते हैं।

उदाहरण -

आदिम भाषा (संस्कृत)	गाथिक भाषा (अंग्रेजी)
ग् गौ	क् Cow
युग	yoke
द् द्वौ	त् Two
दश	Ten
ब् (संस्कृत में उदाहरण नहीं मिलता)	स्लेउब (ग्रीक शब्द) प् Slip

तृतीय वर्ग में आने वाले आदिम भाषा के क्, त्, प्, गाथिक में क्रमशः ख्, थ्, फ्, में बदल जाते हैं।

आदिम भाषा (संस्कृत)	गाथिक भाषा (अंग्रेजी)
क् श्वन्	ख् (ह) Hound
शतम् = केन्टुम्	Hundred
त् तृण	थ् Thorn
तद्	That
प् पितृ	फ् Father
पद	Foot

3.4.4 द्वितीय वर्ण परिवर्तन

द्वितीय वर्ण परिवर्तन- प्रथम वर्णपरिवर्तन में मूल भारोपीय भाषा से जर्मन भाषा में परिवर्तन हुआ था। द्वितीय वर्ण परिवर्तन में भाषा के ही उच्च जर्मन और निम्न जर्मन ये दो भेद हो गए थे। निम्न जर्मन वर्ग में अंग्रेजी भाषा का समावेश हुआ है।

द्वितीय वर्णपरिवर्तन में निम्न जर्मन के घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्) और अघोष महाप्राण (घ्, ध्, भ्) उच्च जर्मन में क्रमशः अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्) अघोष महाप्राण

(ख्, ह्, थ्, फ्) या (घ्, ध्, भ्) और घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विषय को संक्षेप में देखें-

निम्न जर्मन (अंग्रजी)	उच्च जर्मन
ग्, द्, ब्	क्, त्, प्
क्, त्, प्,	ख् (ह्), थ्, फ्
ख्, थ्, फ्	ग्, द्, ब्

प्रथम वर्ग में आने वाले गाथिक भाषा के ग्, द्, ब्, उच्च जर्मन में क्रमशः क्, त्, प् हो जाते हैं।

निम्न जर्मन (अंग्रजी)	उच्च जर्मन
ग् Daughter	क् Tocher
द् Day	त् Tag
ब्	प्

द्वितीय वर्ग में आने वाले गाथिक भाषा के क्, त्, प्, उच्च जर्मन में ख्, (ह्), थ्, फ् में परिवर्तित हो जाते हैं।

निम्न जर्मन (अंग्रजी)	उच्च जर्मन
क् Book	ख् Buch
Yoke	Toch
त् Water	थ् Wasser
प् Deep	फ् Tief
Sheep	Schaf

तृतीय वर्ग में आने वाले गाथिक भाषा के ख्, थ्, फ् उच्च जर्मन में क्रमशः ग्, द्, ब्, बदल जाते हैं।
उदाहरण-

निम्न जर्मन (अंग्रजी)	उच्च जर्मन
ख्(ख् से ग् में बदलने का उदाहरण उपलब्ध नहीं है)	ग्
थ् Three	द् Drei
Brother	Bruder
North	Norden

मूल भाषा (ग्रीक)	अंग्रेजी
क् kIGKHO	ग् Go
त् Tuplus	द् Dumb
प् Pithos	ब् Body

ग्रिम के अनुसार kIGKHO के स्थान पर KHO अथवा HO होना चाहिए, परन्तु GO होता है।

अतएव ग्रासमन ने यह खोज की कि यदि भारोपीय मूलभाषा में शब्द या धातु के आदि और अन्त में महाप्राण ध्वनियाँ हों तो परिवर्तन होकर एक अल्पप्राण हो जाता है। जैसा कि ग्रीक के kigkho, Tuplus, और Pithos से Go, Dump, और Body बनते हैं न कि Ho, Thumb, Fody।

इसी प्रकार संस्कृत में 'हु' धातु से हुहोति, हुहुतः हुह्वति न बनकर जुहोति, जुहुतः, जुहुति रूप बनते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारोपीय मूलभाषा की दो अवस्थायें रही होंगी। प्रथम अवस्था में तो महाप्राण रहे होंगे और दूसरी अवस्था में नहीं। यही कारण है कि अपवाद स्वरूप क्, त्, प्, के स्थान पर ग्, द्, ब्, मिलते हैं। प्राचीन मूलभाषा के समय के क्, त्, प्, का पुराना रूप ख (ह्), थ्, रहा होगा, जो कि परिवर्तित दशा में ग्, द्, ब्, हो गया है और ख्, थ्, फ् का पुनः ग्, द्, ब्, हो जाना नियमानुकूल है। इस प्रकार यह फलित हुआ कि ग्रासमन के उपर्युक्त संशोधन के अनुसार, भारोपीय मूलभाषा में यदि एक वर्ण या धातु आदि और अन्त दोनों में प्राणध्वनि अन्यत्र महाप्राण स्पर्श हो तो संस्कृत, ग्रीक आदि में एक अल्पप्राण हो जाता है।

3.4.6 ह्वर्नर की ध्वनि नियम

ग्रासमन के संशोधन के पश्चात् भी ग्रिम नियम में कुछ अपवाद रह गए हैं। वर्नर ने यह खोज की कि ग्रिम नियम स्वराघात पर आधारित था। उनके अनुसार यदि भारोपीय मूलभाषा के क्, त्, प्, के पहले स्वराघात होगा तो ग्रिम नियम के अनुसार परिवर्तन होता है और यदि स्वराघात क्, त्, प्, के बाद वाले स्वर पर होगा तो परिवर्तन एक पग आगे कार्य करेगा और तब ग्रासमन के नियम की भाँति, ग्, द्, ब्, हो जाता है।

जैसे-

संस्कृत	लैटिन	गाथिक	अंग्रेजी
शतम्	Centum	Hundra	Hundred
लिम्पामि	Lippus	Bileiba	Belife

सप्तन्	Septem	Sibum	Seven
--------	--------	-------	-------

ग्रिम ने यह भी कहा था कि 'स्' के लिए स् ही मिलता है परन्तु कुछ उद्धरणों में 'स्' के स्थान पर 'र्' भी मिलता है। इसके लिए भी वर्नर ने स्वराघात को ही कारण बतलाया है। उनका कथन है कि यदि 'स्' के पूर्व स्वराघात हो तो 'स्' ही रहेगा और यदि बार में होगा तो 'स्' को 'र्' हो जाएगा।

वर्नर ने एक और महत्व पूर्ण बात बतलायी है कि यदि मूल भारोपीय के क्, त्, प् के पूर्व 'स्' संयुक्त होगा। जैसे - स्क, स्त, स्प (SK,ST,SP)तो जर्मनिक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे-

लैटिन	गाथिक	अंग्रेजी
Piskis	.	fisks
Aster	Stas	-

इस प्रकार विभिन्न ध्वनि -नियमों एवं संशोधनों के होने पर भी कुछ अपवाद शेष ही रह जाते हैं। जिनका मूल कारण समानता को ही मानना पड़ता है।

3.5 सारांश

इस इकाई में पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं-

1. ध्वनियों के नियमित परिवर्तन को उस भाषा का ध्वनि नियम कहते हैं।
2. ध्वनि नियम किसी भाषा विशेष का होता है।
3. एक ध्वनि नियम संसार की समस्त भाषाओं पर लागू नहीं होता है।
4. ध्वनि नियम सर्वथा अपवाद रहित नहीं होते हैं।
5. जर्मन के सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक विद्वान् ग्रिम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया है, उसे ग्रिम नियम से पुकारा जाता है।
6. ग्रिम नियम का सम्बन्ध नौ स्पर्श ध्वनियों से है।
7. इसे जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कहते हैं।
8. जर्मन का यह वर्ण परिवर्तन दो बार हुआ है।
9. प्रथम वर्ण परिवर्तन में भारोपीय मूल भाषा के घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण, और अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ क्रमशः जर्मन में घोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण में परिवर्तित हो जाती है।
10. द्वितीय वर्ण-परिवर्तन में निम्न जर्मन के घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्,) अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्)

और अघोष महाप्राण (घ्, ध्, भ्) उच्च जर्मन में क्रमशः अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्) अघोष महाप्राण (ख् (ह्), थ्, फ्) या (घ्, ध्, भ्) और घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) में परिवर्तित हो जाते हैं।

11. ग्रिम नियम के अपवादों की मीमांसा ग्रासमन और वर्नर ने की, अतः उनके ध्वनि नियम ग्रासमन और वर्नर के नाम से प्रसिद्ध हैं।

3.6 शब्दावली

ग्रिम नियम - जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान् आचार्य ग्रिम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया है, उसे ग्रिम नियम कहते हैं।

स्पर्श ध्वनियाँ - क से लेकर म पर्यन्त सभी ध्वनियाँ स्पर्श कहलाती है।

प्रथम वर्ण परिवर्तन - प्रथम वर्ण परिवर्तन में भारोपीय मूलभाषा के घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण और अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ क्रमशः जर्मन में घोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण में परिवर्तित हो जाती है।

प्रथम वर्ण की आदि म भाषा के घ, ध, भ, गाथित भाषा में क्रमशः ग, द, व में परिवर्तित हो जाते हैं, इनके उदाहरण-

आदिम भाषा (संस्कृत)	गाथिक भाषा (अंग्रेजी)
घ् (ह्) हंसः	ग् Goose
दुहिता	Daughter
ध् विधवा	द् Widow
धा	Do
भ् भातृ	ब Brother
भू Be	
भरामि Bear	

द्वितीय वर्ण परिवर्तन

द्वितीय वर्ण परिवर्तन में निम्न जर्मन के घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्) अघोष महाप्राण (घ्, ध्, भ्) उच्च जर्मन में क्रमशः अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्) अघोष महाप्राण (ख् (ह्), थ्, फ्) या (घ्, ध्, भ्) और घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विषय को संक्षेप में देखें-

निम्न जर्मन (अंग्रेजी)	उच्च जर्मन
ग्, द्, ब्	क्, त्, प्
क्, त्, प्	ख् (ह्), थ्, फ्
ख्, थ्, फ्	ग्, द्, ब्

ग्रिम महोदय के द्वारा दी गयी प्रथम और द्वितीय वर्ण परिवर्तन की स्थिति

मूलभाषा	आदिम जर्मनिक	उच्च जर्मन
घ्, ध्, भ् (घोष महाप्राण)	ग्, द्, ब् (घोष अल्पप्राण)	क्, त्, प्, (अघोष अल्पप्राण)
(GH,DH,BH)	(G,D,B)	(K,T,P)
ग्, द्, ब् (घोष अल्पप्राण)	क्, त्, प् (अघोष अल्पप्राण)	ख्, (ह्), ध्, फ् (अघोष महाप्राण)
G,D,B	K,T,P	(kh)(H)TH,F
क्, त्, प् (अघोष अल्पप्राण)	ख्, (ह्), ध्, फ् (अघोष महाप्राण)	ग्, द्, ब् (घोष अल्पप्राण)
K,T,P	(kh)(H)TH,F	G,D,B

इस परिवर्तन को निम्नलिखित त्रिकोण चक्र के द्वारा देखा जा सकता है। प्रथमतः ऊपर से नीचे की ओर तथा तीर की चाल के साथ देखते चले जायें तत्पश्चात् द्वितीय वर्ण परिवर्तन के लिए ऊपर से नीचे की ओर जाकर तीराङ्कित मार्ग से चले जायें। इस प्रकार दोनों वर्ण परिवर्तन समझे जा सकते हैं-

ख्, थ्, फ् (घ्, ध्, भ्) महाप्राण अघोष सघोष

क्, त्, प्	ग्, द्, ब्
अघोष अल्पप्राण	सघोष अल्पप्राण

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

क-

प्रश्न 1 - ध्वनिनियम किसे कहते हैं?

उत्तर - किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में किसी विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन को उस भाषा का ध्वनिनियम कहते हैं।

प्रश्न 2 - क्या एक ध्वनिनियम संसार की समस्त भाषाओं पर लागू होता है?

उत्तर - एक ध्वनिनियम संसार की समस्त भाषाओं पर लागू नहीं होता है।

प्रश्न 3 - क्या ध्वनिनियम सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक होते हैं?

उत्तर - नहीं।

प्रश्न 4 - क्या ध्वनिनियम सर्वथा अपवाद रहित होते हैं?

उत्तर - ध्वनिनियम सर्वथा अपवादरहित नहीं होते हैं।

प्रश्न 5- ग्रिमनियम किसे कहते हैं?

उत्तर - जर्मन भाषा के सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक ग्रिम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया है, उस नियम को ग्रिमनियम कहते हैं

प्रश्न 6 - ग्रिमनियम का सम्बन्ध कितनी स्पर्श ध्वनियों से हैं?

उत्तर - ग्रिम नियम का सम्बन्ध नौ स्पर्श ध्वनियों से है।

प्रश्न 7 - क्या ग्रिम नियम को जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कहते हैं?

उत्तर - हाँ।

प्रश्न 8 - जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कितने बार हुआ?

उत्तर - जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन दो बार हुआ।

प्रश्न 9 - प्रथम वर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डालिए।

उत्तर - प्रथम वर्ण में भारोपीय मूल भाषा के घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण और अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ क्रमशः जर्मन में घोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण में परिवर्तित हो जाते हैं।

प्रश्न 10 - तृतीय वर्ग में आने वाले आदिम भाषा के क्, त्, प्, गाथित भाषा में किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं?

उत्तर - ख्, थ्, फ्, के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।

प्रश्न 11 - द्वितीय वर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डालिए।

उत्तर - द्वितीय वर्ण परिवर्तन में निम्न जर्मन के घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्) अघोष महाप्राण (घ्, ध्, भ्) उच्च जर्मन में क्रमशः अघोष अल्पप्राण (क्, त्, प्) अघोष महाप्राण (ख् (ह्), थ्, फ्,) या (घ्, ध्, भ्,) और घोष अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विषय को संक्षेप में देखें-

निम्न जर्मन (अंग्रजी)

उच्च जर्मन

ग्, द्, ब्

क्, त्, प्

क्, त्, प्,

ख् (ह्), थ्, फ्

ख्, थ्, फ्

ग्, द्, ब्

प्रश्न 12 - द्वितीय वर्ण परिवर्तन के द्वितीय वर्ग में आने वाले गाथिक भाषा के क्, त्, प्, उच्च जर्मन में किस रूप में परिवर्तन हो जाते हैं?

उत्तर - ख्, थ्, फ्, में परिवर्तित हो जाते हैं।

प्रश्न 13 - ग्रासमन नियम किसे कहते हैं?

उत्तर - ग्रिम नियम के सूक्ष्म परीक्षण से उसमें उनके अपवाद प्राप्त हुए हैं। उन अपवादों की समीक्षा ग्रासमन ने की, अतएव उस नियम को ग्रासमन नियम कहते हैं।

प्रश्न 14 - वर्नर के ध्वनिनियम पर प्रकाश डालिए।

उत्तर - वर्नर ने यह खोज की कि ग्रिम नियम स्वराघात पर आधारित था। उनके अनुसार यदि भारोपीय मूलभाषा के क्, त्, प्, के पहले स्वराघात होगा तो ग्रिम नियम के अनुसार परिवर्तन होता है और यदि स्वराघात क्, त्, प्, के बाद वाले स्वर पर होगा तो परिवर्तन एक पग आगे कार्य करेगा

और तब ग्रासमन के नियम की भाँति, ग्, द्, ब् हो जाता है।

ख -प्रश्न 1 - जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कितने बार हुआ?

- (क) दो बार (ख) तीन बार
(ग) चार बार (घ) पाँच बार

उत्तर - (क) दो बार।

प्रश्न 2 - क्या एक ध्वनि नियम संसार की सभी भाषाओं पर लागू होता है?

- क) हाँ (ख) नहीं
(ग) हो सकता है (घ) हुआ है

उत्तर - (ख) नहीं।

प्रश्न 3 - ध्वनि नियम अपवाद रहित है-

- क) हाँ (ख) नहीं
(ग) हो सकते हैं (घ) हुए हैं

उत्तर - (ख) नहीं

प्रश्न 4 - ग्रिम नियम का सम्बन्ध है-

- क- पाँच स्पर्श ध्वनियों से
ख - सता स्पर्श ध्वनियों से
ग- नौ स्पर्श ध्वनियों से
घ - ग्यारह स्पर्श ध्वनियों से

उत्तर - (ग) नौ स्पर्श ध्वनियों से

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यास्क, निरुक्त, सम्पादक डा० शिवबालक द्विवेदी (सं० 2057) - संस्कृत नवप्रभात न्यास, शारदानगर, कानपुर।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2003 ई०) संस्कृत व्याकरणम् - अभिषेक प्रकाशन, शारदानगर, कानपुर।
3. श्रीवरदराजाचार्य (सं० 2017) मध्यसिद्धान्त कौमुदी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।
4. आप्टे वाम शिवराम (1939 ई०) संस्कृत हिन्दी कोश- मोती लाल बनारसीदास बंग्लो रोड, जवाहरनगर दिल्ली।
5. द्विवेदी डा० शिवबालक (1879ई०) संस्कृत भाषा विज्ञान- ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।

3.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तिवारी डा० भोलानाथ (2005 ई०) भाषाविज्ञान - किताबमहल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2005 ई०) भाषा विज्ञान - ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।
3. द्विवेदी डा० शिवबालक (2010 ई०) संस्कृत रचना अनुवार कौमुदी, हंसा प्रकाशन, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. शास्त्री भीमसेन (सं० 2006) लघुसिद्धान्तकौमुदी - लाजपतराय मार्केट दिल्ली।
5. महर्षि पतंजलि (1969 ई०) व्याकरण महाभाष्य - मोतीलाल बनारसी दास बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
6. शास्त्री चारूदेव (1969 ई०) व्याकरण चन्द्रोदय, मोतीलाल बनारसीदास, बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
7. डा० रामगोपाल (1973 ई०) वैदिक व्याकरण - नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।

3.10 निबन्धात्मक प्रश्न

- क-
1. ध्वनि नियम किसे कहते हैं
 2. ग्रिम नियम पर प्रकाश डालिए।
 3. ग्रिम नियम के अन्तर्गत प्रथम वर्ण परिवर्तन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
 4. ग्रिम नियम के अन्तर्गत द्वितीय वर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डालिए।
 5. ग्रासमन के ध्वनि नियम का निरूपण कीजिए।
 6. वर्नर के ध्वनि नियम पर प्रकाश डालिए।
- ख -
1. ग्रिम नियम
 2. प्रथम वर्ण परिवर्तन
 3. द्वितीय वर्ण परिवर्तन

इकाई 4 - वाक्य - रचना

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 वाक्यरचना - अर्थ एवं स्वरूप
- 4.4 वाक्य -रचना
 - 4.4.1 वाक्य रचना -विमर्श
 - 4.4.2 वाक्यों का प्रकार
 - 4.4.3 वाच्य
- 4.5 सारांश
- 4.6 शब्दावली
- 4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 4.10 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह से होती है। वाक्य भाषा का महत्व पूर्ण अंग है। वाक्य के द्वारा सम्पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। अतः भावप्रकाशन के लिये वाक्य विशेष महत्व रखता है।

प्रस्तुत इकाई में वाक्य रचना का अनुशीलन किया गया है। संस्कृत वाङ्मय में वाक्य के सम्बन्ध में सम्यक् प्रकाश डाला गया है। विद्वानों का अभिमत है कि आकांक्षा योग्यता और सन्निधि युक्त पदों का समूह वाक्य है।

इस इकाई में वाक्य-रचना के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिससे आप संस्कृत वाक्य रचना को विधिवत् समझ सकेंगे और सम्बन्धित विषय में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप-

- संस्कृत वाक्यरचना को समझ सकेंगे।
- वाक्य से सम्बन्धित विविध विषयों की जानकारी पा सकेंगे।
- यह समझ सकेंगे कि वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे सम्पूर्ण अर्थ प्रकट होता है।
- वाक्य रचना की प्रकृति को जान सकेंगे।
- कौन सा पद समूह वाक्य है? इसकी विधिवत् जानकारी कर सकेंगे।
- आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त ही पद वाक्य-रचना में सक्षम है, यह जान सकेंगे।
- शब्दों का वास्तविक अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही प्रकट होता है, इसकी जानकारी कर सकेंगे।
- कभी-कभी एक शब्द के प्रयोग से भी अर्थ का प्रकाशन हो जाता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- संस्कृत वाक्य-रचना की अनेक मौलिक विशेषताएँ हैं, इसे जान सकेंगे।

4.3 संस्कृत वाक्यरचना अर्थ एवं स्वरूप

संस्कृत वाक्य रचना का अर्थ संस्कृत में वाक्यरचना से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करना है। विभिन्न ध्वनियों के मिलने से पदों और शब्दों का निर्माण होता है। संस्कृत में सुबन्त और तिडन्त को

पद कहा गया है। जब तक किसी शब्द में सुबन्त और तिङन्त प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होंगे तब तक वे पद नहीं बन सकते और जब तक वे पद नहीं बन सकते तब तक उनका वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता। विविध शब्दों का प्रयोग करके वक्ता अपने अभिप्राय को अभिव्यक्त करता है। इसी को वाक्य रचना कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य के अनुरूप यथा स्थान कुछ विकार के साथ प्रयुक्त होता है। यह आवश्यक नहीं है कि भाव को समझने के लिए अनेक पदों का प्रयोग किया ही जाये। वाक्य कभी शब्दों का समूह भी होता है और एक से ही वाक्य का आशय समझ लिया जाता है। जैसे कोई प्रश्न करता है कि त्वं विद्यालयम् अगच्छः अर्थात् क्या तुम विद्यालय गये थे इसका उत्तर प्राप्त हुआ आम् = हाँ यहाँ इन वाक्यों में किं त्वं विद्यालयम् अगच्छः यह शब्द समूहों का वाक्य है। इसके उत्तर में कहा गया है- आम् = यह पूर्ण वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहा है।

इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि वाक्य शब्दों का ही समूह होता है। परन्तु प्रायः वाक्य शब्दों का समूह होता है। आचार्यों का यह कथन सर्वथा उचित है कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। छोटे-छोटे वाक्यों का समूह महावाक्य कहलाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वाक्य रचना भाषा का सर्वाधिक महत्व पूर्ण अंग है। वक्ता अपने हृदयस्थ भाव को वाक्य द्वारा प्रकट करता है।

4.4. वाक्यरचना

4.4.1 वाक्यरचना विमर्श

ध्वनियों के मिलने से पदों तथा शब्दों का निर्माण होता है। संस्कृत में सुबन्त और तिङन्त को पद कहा गया है। (सुप्तिङन्त पदम्) पदों के मिलने से वाक्य बनता है। वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह के द्वारा होती है। महर्षि पतञ्जलि का कथन है कि वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। तर्क भाषा में कहा गया है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधियुक्त पदों का समूह वाक्य है। इस प्रकार वाक्य भाषा का सर्वाधिक महत्व पूर्ण अंग है। विभिन्न पदों को एक साथ बोलकर वाक्यरचना होती है। वाक्य के द्वारा वक्ता अपना अभिमत प्रकट करता है। यद्यपि शब्दों की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, परन्तु वास्तविक अर्थ वाक्य में भली-भाँति प्रयुक्त होने पर जाना जाता है। शब्द और पद में भी अन्तर है। किसी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। परन्तु शब्द जब वाक्य के अनुरूप यथास्थान कुछ विकार के साथ प्रयुक्त होता है, तो उसे पद कहते हैं। पद और वाक्य में किसका महत्व अधिक है? इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ मनीषियों के मत में वाक्य की प्रमुख है तथा पद उसका खण्डित अंश है। इस मत को अन्विताभिधानवाद या भर्तृहरि का मत कहा गया है। अन्य मनीषियों के अनुसार पद का अस्तित्व ही प्रमुख है, वाक्य तो पदों का समूह है। इस

मत को अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। आधुनिक काल के अधिकांश विद्वानों के अनुसार वाक्य ही प्रधान है और वही भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है जिससे पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्यता वाक्य कहने से दो बातों को ध्यान आता है। प्रथम वाक्य पदों का समूह होता है तथा द्वितीय वह पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। परन्तु इस सम्बन्ध में विद्वान् एक मत नहीं है। वाक्य कभी शब्दों का समूह भी होता है और एक से ही वाक्य का आशय समझ लिया जाता है। जैसे कोई प्रश्न करता है कि त्वं विद्यालयम् अगच्छः अर्थात् क्या तुम विद्यालय गये थे इसका उत्तर प्राप्त हुआ आम् = हाँ। यहाँ इन वाक्यों में किं त्वं विद्यालयम् अगच्छः यह शब्द समूहों का वाक्य है। इसके उत्तर में कहा गया है- आम् = यह पूर्ण वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहा है। इसके उत्तर में कहा गया है - आम् = यह पूर्ण वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहा है। इस प्रकार यह पूर्णतः सत्य नहीं है कि वाक्य शब्दों का समूह होता है क्योंकि एक शब्द के द्वारा भी सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ प्रकट हो जाता है। वाक्य की परिभाषा करते हुए विश्वनाथ ने लिखा है कि 'वाक्यं स्याद् योग्यताकांक्षासक्ति - युक्तः पदोच्चय ।' अर्थात् आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्ति से युक्त प्रयोग किये गये पदसमूह को वाक्य कहा जाता है। इन तीनों से रहित पदों के समुदाय को वाक्य नहीं कह सकते। योग्यता, आकांक्षा तथा आसक्ति के बिना कहे गये शब्द समूह वाक्य नहीं कहलाते, जैसे - गौः अश्वः, पुस्तकं, गृहम्, पुरुषः, हस्ती, बालिका, अजा आदि इसी प्रकार "अहं विद्यालयं" कहकर आकांक्षा करनी पड़ती है - गच्छामि। इस प्रकार आकांक्षित पदों का प्रयोग करके वाक्य बनता है। आकांक्षा करने के साथ पदों में योग्यता बढ़ती है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सम्बद्ध करने पर रूकावट न होना योग्यता कहलाती है। "अग्निनासिञ्चति" यह वाक्य हो सकता था, परन्तु इसमें योग्यता गुण नहीं आता क्योंकि अग्नि जलाती है, सींचती नहीं। आकांक्षा तथा योग्यता के साथ पदों की सन्निधि आवश्यक है। जो वस्तुयें प्रकरण से सम्बन्धित होती है और उनके बीच में व्यवधान नहीं होता तो उसे सन्निधि या आसक्ति कहते हैं। व्यवधान भी दो तरह से होता है। वस्तु के बीच अधिक काल का होना या मध्य में अनुपयुक्त वस्तु का आ जाना, जैसे- रामः कहकर बहुत देर तक कुछ न कहकर यदि 'गच्छति' कहा जाय तो काल-व्यवधान से यह वाक्य नहीं होगा। इसी प्रकार "बालकः विद्यालये वृक्षे फलानि" कहकर पठति कहा जाय तो यहाँ बालकः विद्यालये और पठति के बीच में वृक्षे फलानि अनुपयुक्त रूप में आने के कारण वाक्य नहीं कहलायेगा।

इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। छोटे-छोटे वाक्यों का समूह महावाक्य कहलाता है।

4.4.2 वाक्यों के प्रकार

1. एक तो वाक्य होते हैं जिनका हम अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्य छोटे-छोटे

होते हैं और मौखिक रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे अहं गच्छामि, ते पठन्तु बालकाः, रमेशः धावति आदि इन्हें बोलचाल के वाक्य कहा जाता है।

2. दूसरे प्रकार के वे वाक्य होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं, जिनका प्रयोग शिक्षित समुदाय करता है। इन्हें लिखित वाक्य कहा जाता है। जैसे - भारत में प्रियं राजते भूतले, यस्य दिव्यं यशः कोविदैर्गीयते। इत्यादि।

सामान्यता वाक्यों के दो भाग होते हैं। प्रथम को अग्र और बाद वाले को पश्च कहते हैं। इन्हें अन्य नामों से भी सम्बोधित किया जाता है। जैसे - उद्देश्य, विधेय, कर्ता, क्रिया, सत्व , आख्यात आदि। इस प्रकार के भाग प्रायः अनपढ़ लोगों की बोली में अधिक पाये जाते हैं। शिक्षित समुदाय वाक्य को एक बार में ही कह देगा अथवा उसे कभी छोटे-छोटे वाक्यों में कहेगा। व्यक्ति के द्वारा जो कहा जाता है, उसे विधेय अथवा आख्यात कहते हैं।

जिसके लिए कहा जाता है, उसे उद्देश्य या सत्व कहते हैं। जैसे रमेशः पठति इस वाक्य में रमेशः उद्देश्य तथा पठति विधेय है। दूसरे रूप में इन्हीं को कर्ता एवं क्रिया कह सकते हैं। वाक्यों में कर्ता, क्रिया, कर्म, सर्वनाम, विशेषण , क्रिया विशेषण, संयोजक एवं अव्यय शब्द पाये जाते हैं। किन्तु सभी का पाया जाना आवश्यक है। संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्हें यथा अवसर आगे पीछे भी प्रयुक्त कर दिया जाता है। परन्तु इसका अर्थ या भाव एक ही रहता है। जैसे - 'रमेशः पुस्तकं पठति। इस वाक्य को 'पुस्तकं रमेशः पठति' 'पठति रमेशः पुस्तकम् के रूप में भी बोला जा सकता है परन्तु उसका अर्थ या भाव यही होगा कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। परन्तु अंग्रेजी आदि भाषाओं में शब्दों के बदल देने से अर्थ में अन्तर आ जाता है।

4.4.3 वाच्य

संस्कृत में तीन वाच्य होते हैं-

1. कर्तृवाच्य,
2. कर्मवाच्य और
3. भाववाच्य ।

सकर्मक धातुओं के रूप में कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य में होते हैं और अकर्मक धातुओं के रूप में कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य में होते हैं।

1. कर्तृवाच्य

कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार लगते हैं। जैसा कि कहा गया है-

प्रयोगे कर्तृवाच्यस्य कर्तरि प्रथमा भवेत् ।

द्वितीया कर्मणि तथा क्रिया कर्तृपदान्विता॥

जैसे - रमेशः ग्रामं गच्छति = रमेश गांव को जाता है ।

2. कर्मवाच्य

कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तथा क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होते हैं। जैसा कि कहा गया है-

प्रयोगे कर्मवाच्यस्य तृतीया स्यात्तु कर्तरि।

कर्मणि प्रथमा चैव क्रिया कर्मानुसारिणी। ।

जैसे - त्वया पाठः पठ्यते = तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है।

3. भाववाच्य

भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म होता नहीं है और क्रिया में सर्वदा प्रथम पुरुष का एक वचन ही रहता है।

जैसा कि काहा भी कहा गया है-

कर्माभावः सदाभावे तृतीया चैव कर्तरि।

प्रथमः पुरुषश्चैकवचनश्च क्रियापदे॥

जैसे - अस्माभिः स्थीयते = हम लोगों के द्वारा ठहरा जाता है।

व्याकरणिक रचना के दृष्टिकोण से वाक्यों के तीन प्रकार हैं-

1. साधारण वाक्य- इस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विरोध होता है।
 2. संयुक्त वाक्य - इस वाक्य में दो या अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं।
 3. मिश्रित वाक्य - इस तरह के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित वाक्य- संज्ञा वाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं।
- अर्थ अनुसार वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे -

- क- विस्मय बोधक
- ख- संदेह बोधक
- ग- आज्ञा बोधक
- घ- प्रश्न बोधक

ड- निषेध बोधक

च- इच्छा बोधक

4.5 सारांश

इस इकाई के पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं-

1. संस्कृत वाक्य-रचना की प्रकृति मौलिक है।
2. वाक्य की संरचना सार्थक शब्दसमूह के द्वारा होती है।
3. अनेक पदों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है।
4. कभी-कभी एक पद भी अर्थ प्रकाशन में समर्थ हो जाता है।
5. आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदसमूह की वाक्य बन सकता है।
6. वाक्य में उद्देश्य और विधेय का महत्व पूर्ण स्थान है।
7. संस्कृत में तीन वाच्य हैं - कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
8. सामान्यतया वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-
साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
9. अर्थ के अनुसार वाक्य के कई भेद हो जाते हैं।

4.6 शब्दावली

वाक्य- पदों के मिलने से वाक्य निर्मित होते हैं। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है।

पद- संस्कृत में सुबन्त और तिङन्त को पद कहा गया है। जब किसी शब्द या धातु से आगे कोई सुप् प्रत्यय या तिङ् प्रत्यय लगता है, तभी उसकी पद संज्ञा होती है।

शब्द -किसी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं।

अग्र और पश्च-प्रथम पद को अग्र और बाद वाले पर को पश्च कहते हैं। इन्हें उद्देश्य और विधेय भी कहा जाता है। जैसे - रमेशः पठति। इस वाक्य में रमेशः उद्देश्य है और पठति विधेय है।

कर्तृवाच्य- कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस वाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होते हैं।

कर्मवाच्य-कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसके कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होते हैं।

भाववाच्य- भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें कर्म नहीं होता है और क्रिया में सदैव प्रथम पुरुष का एकवचन में प्रयुक्त होता है।

साधारण वाक्य- इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है।

मिश्रित वाक्य- इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं।

4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

क-1. वाक्य की संरचना होती है-

क- सार्थक शब्द समूह से

ख - निरर्थक शब्द समूह से

ग - केवल शब्द समूह से

घ- अव्यय शब्द समूह से

उत्तर - क- सार्थक शब्द समूह से ।

2. आख्यात कहते हैं-

क- संज्ञा ख - सर्वनाम

ग- क्रिया घ - अव्यय

उत्तर - ग – क्रिया ।

3. वाक्य में होनी चाहिये -

क - योग्यता ख - अयोग्यता

ख - विधि घ - प्रवृत्तियाँ

उत्तर - क – योग्यता ।

4. वाच्य होते हैं-

क- दो ख - तीन

ग- चार घ - पाँच

उत्तर - ख - तीन।

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यास्क, निरुक्त, सम्पादक डा० शिवबालक द्विवेदी (सं० 2057) - संस्कृत नवप्रभात न्यास, शारदानगर, कानपुर।

2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2003 ई०) संस्कृत व्याकरणम् - अभिषेक प्रकाशन, शारदानगर, कानपुर।

3. श्रीवरदराजाचार्य (सं० 2017) मध्यसिद्धान्त कौमुदी - चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।

4. आप्टे वाम शिवराम (1939 ई०) संस्कृत हिन्दी कोश- मोती लाल बनारसीदास बंग्लो रोड, जवाहरनगर दिल्ली।

5. द्विवेदी डा० शिवबालक (1879ई०) संस्कृत भाषा विज्ञान- ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।

4.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तिवारी डा० भोलानाथ (2005 ई०) भाषाविज्ञान - किताबमहल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी डा० शिवबालक (2005 ई०) भाषा विज्ञान - ग्रन्थम रामबाग, कानपुर।
3. द्विवेदी डा० शिवबालक (2010 ई०) संस्कृत रचना अनुवार कौमुदी, हंसा प्रकाशन, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. शास्त्री भीमसेन (सं० 2006) लघुसिद्धान्तकौमुदी - लाजपतराय मार्केट दिल्ली।
5. महर्षि पतंजलि (1969 ई०) व्याकरण महाभाष्य - मोतीलाल बनारसी दास बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
6. शास्त्री चारुदेव (1969 ई०) व्याकरण चन्द्रोदय, मोतीलाल बनारसीदास, बंग्लोरोड, जवाहरनगर, वारणसी।
7. डा० रामगोपाल (1973 ई०) वैदिक व्याकरण - नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।

4.10 निबन्धात्मक प्रश्न

क-

1. संस्कृत वाक्य संरचना पर प्रकाश डालिये।
2. वाक्य के भेदों का निरूपण कीजिये।
3. किस पदसमूह को वाक्य कहते हैं?

ख -

1. आकांक्षा
2. योग्यता
3. सन्निधि
4. कर्तृवाच्य
5. कर्मवाच्य
6. भाववाच्य
7. मिश्रित वाक्य

खण्ड चार - षड् लिंग प्रकरण

इकाई 1 .अजन्त पुल्लिङ्गं राम शब्द

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 लघुसिद्धान्त कौमुदी अजन्त पुल्लिङ्गं सूत्रों की व्याख्या सहित प्रथमा विभक्ति एवं सम्बोधन की रूप सिद्धि
- 1.4 सारांश
- 1.5 शब्दावली
- 1.6 अभ्यासार्थ प्रश्नों के उत्तर
- 1.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.8 उपयोगी पुस्तकें
- 1.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

व्याकरण शास्त्र से सम्बन्धित यह पहली इकाई है इससे पहले की इकाइयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि व्याकरण शास्त्र क्या है। उस व्याकरण शास्त्र में षड्लिंग (सुबन्त) क्या है उसकी रचना कैसे होती है,

व्याकरण शास्त्र के महत्व को जानते हुए षड्लिंग (सुबन्त) प्रकरण में सुबन्त के विषय में बड़े ही स्पष्ट रूप से विस्तृत चर्चा की गयी है कि सुबन्त क्यों पढ़ा जाता है सुबन्त क्यों लिखा जाता है, सुबन्त की रचना क्यों होती है, प्रस्तुत इकाई में विस्तार से उनके विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन से बाद आप सुबन्त के प्रयोजनों के महत्व को समझा सकेंगे तथा सुबन्त में राम शब्द का सम्यक् रूप से विश्लेषण का सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप पाणिनि रचित व्याकरण शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणापद सूत्रों का अध्ययन कर सकेंगे -

- शब्द क्या है कितने है उसका परिचय प्राप्त कर सकेंगे
- सुबन्त क्या है कितने विभागों में विभक्त है इसका वर्णन कर सकेंगे।
- राम शब्द की सिद्धि कैसे होती है इसके विषय में समझ सकेंगे।
- अगं संज्ञा किस सूत्र से होती है इसके विषय में अच्छी तरह से समझ सकेंगे।
- रामा: प्रयोग कैसे सिद्ध होगा इसके विषय में समझ सकेंगे।
- सम्बोधन क्या है इसके विषयमें आप समझ सकेंगे।

1.3 अजन्त पुल्लिंग राम शब्द प्रथम विभक्ति एवं सम्बोधन

व्याकरण शास्त्र में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। १. सुबन्त, २. तिङन्त ३. अव्यय। इन तीनों प्रकारक के शब्दों में से, सबसे पहले सुबन्त प्रकरण प्रारम्भ करते हैं। सुबन्त किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। जिस शब्दों के अन्त में सुप् यानी सुओ, जस् आदि इक्कीस प्रत्यय हो उसे सुबन्त कहते हैं। सुबन्त शब्द दो प्रकार के होते हैं। १. अजन्त २. हलन्त। जिन शब्दों के अन्त में अच् प्रत्याहार अर्थात् स्वर हो उसे अजन्त कहते हैं। यथा - राम शब्द के अन्त में अकार है अतः यह अजन्त शब्द है और

अजन्तों में अकारान्त शब्द है। 'हरि' इस शब्द के अन्त में इकार है अतः यह भी अजन्त है और अजन्तों में ह्रस्व इकारान्त अजन्त है। इसी प्रकार गुरु, पितु, गो आदि अजन्त माने जायेंगे। जिस शब्दों के अन्त में हल् हो उन्हें हलन्त कहते हैं। अर्थात् व्यञ्जन कहते हैं। यथा राजन् शब्द है इसके अन्त में न् वर्ण है अतः हलन्तों में भी नकारान्त हलन्त है। इस प्रकार से अजन्त और हलन्त भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं। अजन्त में तीन लिंग होते हैं १. अजन्त पुल्लिंग २. अजन्त स्त्रीलिंग ३. अजन्त नपुंसकलिंग इसी प्रकार हलन्त के भी तीन लिंग होते हैं। १. हलन्त पुल्लिंग २. हलन्त स्त्रीलिंग ३. हलन्त नपुंसक लिंग होते हैं इस प्रकार अजन्त और हलन्त दोनों मिलकर छः लिंग हो जाते हैं इसी से षड्लिंग प्रकरण प्रारम्भ होता है।

प्रातिपदिक संज्ञाविधायक संज्ञासूत्रम्

अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् १। २। ४५ ॥

धातु प्रत्ययं प्रत्ययान्तम् च वर्जयित्वाऽर्थवच्छब्द स्वरूपं प्रतिपदिकसंज्ञं स्यात्।

धातु प्रत्यय प्रत्ययान्त को छोड़कर अर्थवान् शब्दस्वरूप उसकी प्रतिपदिक संज्ञा होती है।

सूत्र में धातु क्या है ? प्रत्यय क्या है? प्रत्ययान्त क्या है? अर्थवान् क्या है? इन सबकी खण्डशः व्याख्या की जा रही है।

सूत्र में अर्थवान् शब्द क्यों कहा गया - जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो वह अर्थवान् कहलाता है और उसकी प्रतिपदिक संज्ञा होती है। जैसे 'राम शब्द' का अर्थ है दशरथ का पुत्र इस लिये राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यदि अर्थवान् नहीं कहा गया होता तो, प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा लगती, तथा इसके बाद सु आदि इक्कीस प्रत्ययों की उत्पत्ति होकर अनर्थक शब्दों का बोध होने लगता। इस लिये अर्थवान् शब्दों की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है अनर्थक शब्दों की नहीं।

सूत्र में धातु ग्रहण क्यों किया ? सूत्र में धातु को छोड़कर प्रातिपदिक होती है ऐसा क्यों कहा गया ? यदि ऐसा नहीं कहा गया होता तो यथा अहन् हन् धातु के प्रथम पुरुष एकवचन तथा मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। यहाँ पर तिप् प्रत्यय का लोप होकर धातु मात्र अवशिष्ट बचता है (विशेष रूप से अदादि प्रकरण में इस धातु को देखें) अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। धातु को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होती है यदि सूत्र में ऐसा नहीं कहा गया होता तो अहन् प्रतिपदिक संज्ञा होकर 'नलोपः' प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से नकार का लोप होने लगता जिसे अनर्थक का बोध होने लगता। इस लिये धातु को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होती है ऐसा सूत्र में कहा गया। सूत्र में प्रत्यय को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होती है ऐसा क्यों कहा गया।

यदि ऐसा नहीं कहा गया होता तो 'हरिषु, करोषि,' यहाँ दोनों जगह हरिषु में सुप् प्रत्यय, तथा करोषि सिप् प्रत्यय हुए हैं। यद्यपि यहाँ अर्थवान् होने पर भी इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। यदि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाय तो इनके आगे एकवचनम् उत्सर्गत, करिष्यते (प्रत्येक प्रातिपदिक से प्रथमा का एक वचन स्वभावितः किया जाता है) इस नियम के अनुसार सु प्रत्यय की उत्पत्ति होकर अनिष्ट अर्थों का बोध होने लगता। इसलिए सूत्र में प्रत्यय होकर अनिष्ट रूप की उत्पत्ति होने लगता। इसलिए सूत्र में प्रत्यय को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होती है ऐसा कहा गया। सूत्र में प्रत्ययान्त को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होती है ऐसा क्यों कहा गया। यदि ऐसा नहीं कहा यदि ऐसा नहीं कहा गया होता तो 'हरिषु, करोषि,' यह समुदाय अर्थवान् होने है। इसलिए प्रत्ययान्त अर्थवान् होने से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। यदि प्रातिपदिक संज्ञा होती तो औत्सर्गिक सु प्रत्यय होकर अनिष्ट रूप की उत्पत्ति होने लगती। इसलिए सूत्र में प्रत्यय को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होती है ऐसा कहा गया।

शब्दों को पुनः दो भागों में बाँटा गया है १. व्युत्पन्न अर्थान् यौगिक और २. अव्युत्पन्न अर्थात् रूढ़।

१. व्युत्पन्न जिस शब्द के धातु प्रकृति एवं प्रत्यय के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हुए भी समुदाय में समुदाय में एक ही अर्थ बनता है उसे व्युत्पन्न शब्द कहते हैं।

२. अव्युत्पन्न- जिस शब्द के धातु प्रकृति एवं प्रत्यय के कल्पना किये बिना और उनके विशेष अर्थ की कल्पना किये बिना केवल सामान्य अर्थ मात्र समझा जाता है उन्हें अव्युत्पन्न कहते हैं। जैसे रमन्ते योगिनो यिस्मन् स रामः अर्थात् जिस ब्रह्म में योगिजन रमण करते हैं वह राम है, ऐसे अर्थवाला राम शब्द रमु क्रीडायाम् धातु से घञ्प्रत्यय होकर रमु घञ् बना है उकार की उपदेशेऽज नुनासिकइत् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रम् घञ् 'घ्' की लशक्वतद्धिते तथा 'ञ्कार का हलन्त्यम से इत्संज्ञा तथा दोनों जगह तस्य लोपः से लोप होकर रम् अ बना। तथा अतउपधायाः इस सूत्र से उपधा अकार, अर्थात् रकारोत्त र्वर्ती अकार को वृद्धि होकर राम् अ बना वर्ण सम्मेलन होकर राम शब्द बना। जिसमें प्रकृति प्रत्यय एक के विशेष अर्थ हो जाते हैं, इसलिए यह व्युत्पन्न है।

जब राम शब्द का प्रयोग सामान्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तब वहाँ न धातु का अर्थ घटित होता है न प्रत्यय का। अतः ऐसा राम शब्द अव्युत्पन्न है अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिकसंज्ञा अगला सूत्र कृतद्धित समासाश्च से किया जाता है।

प्रातिपदिक संज्ञा विधायकं संज्ञा सूत्रम्

कृतद्धित समासाश्च १।२।४६॥

कृतद्धितान्तौ समासाश्च तथा स्युः

कृदन्त तद्धितान्त और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदन्त कृत् प्रत्यय हो जिसके अन्त में उन्हे कृदन्त कहते है कृत् तथा तिङ् प्रत्यय धातु के बाद ही लगता है। इन प्रत्ययों की कृत् संज्ञा होती है। ऐसे कृ प्रत्ययों का पुरा प्रकरण है जो कृदन्त प्रकरण कहलाता है। जैसे कारकः, कर्ता, हारक शिक्षकः, शिष्यः, इत्यादि जितने शब्द हैंये सभी कृदन्त प्रकरण में ही बनते है।

तद्धित - तद्धित प्रत्यय हो जिसके अन्त में उन्हे तद्धितान्त कहते है। सुबन्त शब्दों से तद्धित प्रत्यय होते है जब सुबन्त शब्दों से विशेष अर्थ के प्रतिपादन के लिए जो प्रत्यय होते हैं तब उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते है। जैसे गार्म्यः सामाजिकः धार्मिकः वैज्ञानिकः इत्यादि शब्द तद्धित प्रत्ययों के द्वारा सिद्ध किये जाते है।

समास - सम् उपसर्ग पूर्वक असु संक्षेपणे धातु से घञ् प्रत्यय होता है। सम् असु घञ् बना। उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर एवं 'स् कार की हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर सम् अस् अ। अत् उपधायाः इस सूत्र से उपधा अकार की वृद्धि होकर सम् आस् अ बना। वर्ण सम्मेलन होकर समास शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है संक्षेप। जो संक्षेप में कहा जाय उसे समास कहते है अनेक पद मिलकर एक एक पद जाना उसी का नाम समास है। एवं उनकी भिन् भिन् विभक्तियाँ भी लोप हो जाती है और अन्त वाले शब्द में पुनः एक कोई विभक्ति आ जाती है। जैसे सुरेशः दिनेश रमेशः -सुरेश दिनेश रमेशः। समास हो जाने के बाद पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यह सूत्र कृदन्त, तद्धितान्त और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। इस सूत्र के द्वारा जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है वह यौगिक अर्थात् व्युत्पन् ही होता है। इस प्रकार जहाँ व्युत्पन् शब्द होगा वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धितसमासाश्च सूत्र से ही होगा। और जहाँ अव्युत्पन् राम शब्द रहेगा वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा अर्थपउधतुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से ही होगा।

स्वादि प्रत्यय विधायकं विधिसूत्रम्

स्वौ-जस मौट् छष्टाभ्याम्-भिस्-डे-भ्याम्-भ्यस्-डसि-भ्याम्-भ्यस्-डसोसाम्-डचोस्-सुप् ४।
१।२॥

सु	औ	जस्	इति प्रथमा
अम्	औट्	शस्	इति द्वितीया
टा	भ्याम्	भिस्	इति तृतीया

डे	भ्याम्	भ्यस्	इति चतुर्थ
डसि	भ्याम्	भ्यस्	इति पंचमी
डस	ओस्	आम्	इति षष्ठी
डि	ओस्	सुप्	इति सप्तमी

अधिकार सूत्राणि त्रीणि

ड्या प्रातिपदिकात् ४।१।१॥

प्रत्ययः ३।१।१।, परश्च ३।१।२॥

इत्याधिकृत्य । डचवन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः।

ड्य न्त, आबन्त और प्रातिपदिक से परे सु आदि प्रत्यय हो ।

फलितार्थ यह है कि सुआदि प्रत्यय पर में ही होगा और पर में होने वाला वह प्रत्यय या तो डी के बाद ही होगा। ये तीन अधिकार सूत्र हैं । अधिकार सूत्र अपने में कुछ काम नहीं करते किन्तु दूसरे सूत्रों के उपकारक हो जाते हैं। प्रत्येक सूत्र में अधिकार बनकर जाते हैं और उनका कार्य सिद्ध करते हैं। इन तीन सूत्रों के अधिकार को लेकर ही स्वौजसमौट्० यह विधि सूत्र सु, औ, जस्, अम्, औट् आदि प्रत्ययों का विधान करता है।

एकवचनादि संज्ञाविधायकं संज्ञासूत्रम्

सुपः १।४।१०३।

सुप स्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन द्विवचन बहुवचनसंज्ञानि स्युः।

सुपः प्रत्याहार सात त्रिक होते हैं एकवचन द्विवचन बहुवचन हो जाते हैं। इस प्रकार सु की एक वचन संज्ञा, औ की द्विवचन संज्ञा और जस् की बहुवचन संज्ञा होती है। इसी प्रकार द्वितिया विभक्ति, तृतीया विभक्ति आदि समझना चाहिए अर्थात् सुप् प्रत्याहार में सात त्रिक और तीन वचन होते हैं।

जो सु औ जस् इक्कीस प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों की प्रथमा विभक्ति, द्वितिया विभक्ति, तृतीया विभक्ति आदि संज्ञा करने वाला पाणिनीय व्याकरण में कोई सूत्र नहीं है किन्तु पाणिनि जी से पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रथमा से सप्तमी तक की विभक्ति संज्ञा की है उसी का व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। कारक प्रकरण में ही प्रथमा, द्वितिया, तृतीया आदि विभक्ति विधायक सूत्र है।

सात त्रिक तथा तीन जो वचन हैं उसको तालिका के माध्यम से जान सकते सकते हैं ।

त्रिक संख्या	विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
पहला त्रिक	प्रथमा	सु	औ	जस्
दूसरा त्रिक	द्वितीया	अम्	औट्	शस्
तीसरा त्रिक	तृतीया	टा	भ्याम्	भिस्
चौथा त्रिक	चतुर्थी	डे	भ्याम्	भ्यस्
पांचवा त्रिक	पंचमी	डसि	भ्याम्	भ्यस्
छठवां त्रिक	षष्ठी	डस	ओस्	आम्
सातवां त्रिक	सप्तमी	डि	ओस्	सुप्

एकवचन - द्विवचन विधायकं विधिसूत्रम्

द्वयेकयोर्द्विवचनैक वचने १।४।२२॥

द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः।

द्वित्व संख्या में द्विवचन और एकत्व संख्या में एकवचन होता है।

व्याकरण शास्त्र में वचन का अर्थ है- संख्या एकवस्तु या एक व्यक्ति के लिये एक संख्या और दो वस्तु या दो व्यक्तियों दो संख्या एवं अनेक वस्तु एवं अनेक व्यक्तियों के लिये अनेक संख्या का व्यवहार लोक में होता है। उसी संख्या को यहाँ पर वचन कहते हैं। एक संख्या के लिये एकवचन, दो संख्या के लिये द्विवचन और तीन या तीन से अधिक संख्या के लिये बहुवचन का प्रयोग होता है।

किस जगह कौन सी विभक्ति हो, इसका विधान कारक (विभक्त्यर्थ) प्रकरण में किया गया है। किन्तु कौन सा वचन हो इसका विधान 'द्वयेकयोर्द्विवचनैक वचने' और बहुषु बहुवचनम् ये दो सूत्र यहाँ पर कर रहे हैं। इस सूत्र के द्वारा कहा गया है कि जहाँ पर दो संख्या हो वहाँ पर द्विवचन तथा जहाँपर एक संख्या हो वहाँ पर एकवचन होता है। जैसे दा राम है तो वहाँपर द्विवचन होगा, तो राम राम औ तथा एक राम होगा तो सु प्रत्यय आयेगा, तो राम सु बना। यद्यपि सु, औ, जस्, आदि विभक्तिया स्वौजसमौट् से प्राप्त थीं किन्तु इस सूत्र से यह नियम किया गया कि एकत्व संख्या के लिये एकवचन तथा द्वित्व संख्या के लिये द्विवचन ही होगा। तथा बहुषु बहुवचन सूत्र के द्वारा जहाँपर अनेक संख्या हो वहाँ पर बहुवचन होगा। अतः ये दोनो सूत्र नियम माने जाते हैं।

अवसान संज्ञा विधायकं संज्ञासूत्रम्

विरामोऽवसावनम् १।४।११०॥

वर्णानामभावोऽवसान संज्ञः स्यात् । रूत्व विसर्गो रामः।

वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक होता है।

अवसान का अर्थ होता है अन्त जिसके पर में कुछ न हो उसी का नाम अवसान है। अर्थात् जहाँ वर्णों का अभाव हो उसी का नाम अवसान है। किसी भी शब्द के बाद फिर उस शब्द से सम्बन्धित अन्य कोई भी वर्ण न हो उसी का नाम अवसान है जैसे राम शब्द है उसके बाद कोई सु आया। सु =स, स = रु, रु =र् राम र् बना। राम र् के बाद कोई वर्ण नहीं है राम र के बाद जो खाली जगह है, वही वर्णों का अभाव है। और उसी की अवसान संज्ञा हुई। अब यहाँ अवसान संज्ञा करने का फल खरवसानयोर्विसर्जनीयः से विसर्ग करना है।

रामः - राम शब्द को सिद्ध करने के लिये सबसे पहले प्रक्रिया को समझते हैं। सुप् प्रत्यय सात विभक्तियों तथा तीन वचनों में बँटे हुए हैं। सात तिकके इक्कीस अर्थात् इक्कीस रूप बनते हैं। सात विभक्तियों के अतिरिक्त एक सम्बोधन विभक्ति भी है। किन्तु उसका रूप प्रथमा विभक्ति के समान बनता है सम्बोधन के एकवचन में केवल अन्तर होता अन्य वचनों में कोई अन्तर नहीं होता है। अब सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के एकवचन में क्या रूप बनता है उसको बनाते हैं।

आप ध्यान रखें कि षड्लिंगों में सामान्य रूप राम शब्द समान बनेंगे और विशेष रूप तत्तद स्थलों पर परिवर्तित हो रहते हैं। अन्य रूपों को समझने के लिये राम शब्द समझना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा आगे समझ नहीं पायेंगे।

पहले बताया जा चुका है कि शब्द व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न के रूप दो प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न पक्ष के राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासश्च सूत्र से होगी तथा अव्युत्पन्न राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से होगी। अब यहाँ पर अव्युत्पन्न राम शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवदधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकम् से होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः, परश्च और डचाप्प्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर 'स्वौजसमौटछष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङचोस्युप्' इस सूत्र के द्वारा सुप् प्रत्यय का विधान किया गया। राम शब्द के बाद सु, औ, जस् इक्कीस प्रत्यय प्राप्त हुए औ उनको सात विभक्तियों में विभाजित किया गया। इसके बाद प्रथमादि सातों विभक्तियों में सुपः इस सूत्र से एकवचन, द्विवचन, बहुवचन की संज्ञा की गयी। अब यहाँ प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में

द्व्येकयोद्विवचनैकवचने सूत्र के द्वारा राम शब्द से सु प्रत्यय होकर राम सु बना। सकारोत्तवर्ती उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र द्वारा इत्संज्ञा होकर तथा तस्य लोपः से लोप होकर राम स् बना। सुप्तिङन्त पदम् सूत्र से राम स् की पद संज्ञा होकर ससजुषो रुः सूत्र से सकार को रु आदेश होकर राम रु बना। पुनः उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा 'तस्य लोपः से लोप होकर राम र् बना। विरामोऽवसानम् इस सूत्र के द्वारा र् की अवसान संज्ञा होकर खरवसानयार्विसर्जनीयः इस सूत्र के द्वारा र कार को विसर्ग होकर रामः प्रयोग बनता है। इसी प्रकार सुरेशः, अवधेशः, शिवकुमारः, इत्यादि प्रयोग समझना चाहिए।

एक शेष विधायकं विधिसूत्रम्

सरूपाणामेक शेष एकविभक्तौ

एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृयटानि तेषामेक एव शिष्यते।

एक विभक्त में जितने समान विभक्ति के सरूप दिखायी दे उनमें से एक ही शेष रहता है अन्य सरूप सबका लोप हो जाता है।

एक विभक्त में यदि एक जैसे ही अनेक सद्यः उच्चरित हो ताकि उनमें से एक शब्द ही बचता है बाकी सबका लोप हो जाता है। जैसे दो राम के लिये राम राम दो बार उच्चारण होगा, अनेक रामों के लिये राम, राम, राम, राम आदि अनेक रामों का उच्चारण होगा यदि ये सारे राम आदि एक ही विभक्ति में है तो केवल एक राम शेष रहेगा अन्य राम का लोप हो जायेगा। जो एक शेष बचा है वह लुप्त का वाचक होगा। इस प्रकार से एक राम से अनेक राम समझे जायेंगे।

पूर्वसावर्णदीर्घ विधायक विधि सूत्रम्

प्रथमयोः पूर्वसवर्णः - अकः प्रथमा द्वितीययोरचि पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात्। इति प्राप्त अक् प्रत्याहार से प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति सम्बन्धी अच् के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। एकादेश के विषय में आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्व और पर के स्थान में एक ही आदेश होता है किन्तु यहाँ पर जो एकादेश होगा वह पूर्व का ही सवर्णी होगा और दीर्घ भी होगा। जैसे हरि डस् मे डकार की लशक्वतद्धिते से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि अस् बना। हरि अस् में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा तो पूर्व ही सवर्णी ई होगा। कथन्विद् पर सवर्ण का विधान होता तो आ हो जाता। किन्तु यहाँ पूर्वसवर्ण दीर्घ का विधान हुआ है यदि यह सूत्र न होता तो हरीन् इत्यादि रूप नहीं बन पाते, क्योंकि वहाँ पर अकः सवर्ण दीर्घः नहीं लगता तो यण् होकर अनिष्ट अर्थ की उत्पत्ति होने लगती।

पूर्वसवर्णदीर्घ विधायक विधि सूत्रम्

नादिचि ६।१।१०४॥

आदिचि न पूर्वसवर्ण दीर्घ । वृद्धिरेचि रामौ।

अवर्ण से इच्, परे होने पर पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं होता है । अवर्ण से इच्, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ प्रत्याहार परे हो तो पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं होता है और जहाँ पर इच् प्रत्याहार पर में नहीं होगा तो पूर्वसवर्ण दीर्घ हो जायेगा ।

रामौ:- राम शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' से प्रातिपदिक संज्ञा हुई । प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः, परइच् और ड्याप्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर स्वौजसमौट् इस सूत्र के द्वारा सुप् प्रत्यय का विधान किया गया। राम शब्द के बाद सु, औ, जस्, इक्कीस प्रत्यय प्राप्त हुए और उनको सातों विभक्तियों में विभाजित किया गया इसके बाद प्रथमादि सातों विभक्तियों में सुपः इस सूत्र के द्वारा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन की संज्ञा की गयी। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में द्वेचेकयोर्द्विवचनैकवने इस सूत्र के द्वारा औ प्रत्यय का विधान किया गया - राम राम औ बना। अब यहाँ एक ही विभक्ति में दो राम का उच्चारण किया गया। अतः एक राम का **सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ** इस सूत्र के द्वारा एक राम शेष बचा तथा अन्य राम का लोप होकर राम औ बना। आद्गुणः सूत्र से गुण प्राप्त हुआ उसे बाधकर सूत्र वृद्धिरेचि के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई। उसे भी बाधकर सूत्र लगा - **प्रथमयोः पूर्वसवर्णः** अक् (अ, इ, उ, ऋ, लृ) से प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीया विभक्ति सम्बन्धी अच् (अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ) प्रत्याहार पर में हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अब यहाँ अक् प्रत्याहार का वर्ण है राम में मकारोन्तरवर्ती अकार और प्रथमा विभक्ति सम्बन्धी अच् पर में है औ/पूर्व में है अकार और पर में है औकार। पूर्व पर दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ अर्थात् पूर्व में विद्यमान वर्ण का सवर्णी दीर्घ आ होगा। क्यों कि पूर्व का वर्ण अकार है उसका सवर्णी दीर्घ 'आ' ही हो सकता इस प्रकार से आकार रूप पूर्वसर्वर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है। उसके निषेध करने के लिये सूत्र लगा **नादिचि** यह सूत्र अवर्ण से इच् (इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ) प्रत्याहार पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है। पर में औ । अतः पूर्व सवर्ण का निषेध होकर पुनः राम औ बना । अब यहाँ वृद्धिरेचि सूत्र से अवर्ण से एच् प्रत्याहार पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धिरेचि रूप एकादेश होता है। अवर्ण है मकारोत्तरवर्ती अकार एच् (ए, ओ, ऐ, औ) प्रत्याहार का वर्ण है पर में औकार है । अतः अकार एव औकार के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश औकार होता है तथा रामौ प्रयोग की सिद्धि होती है इसी प्रकार सुरेशौ, अवधोशौ, शिवकुमारौ, काशीनाथौ, आदि प्रयोग बनाना चाहिए।

बहुवचन विधायक नियम सूत्रम्

बहुषु बहुवचनम् १।४।२१॥

बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं स्यात्।

बहुत्व संख्या की विवक्षा में बहुवचन होता है।

जिस प्रकार से 'द्वयेकयोर्दिवचनैकवचने' सूत्र से द्वित्व संख्या की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व संख्या की विवक्षा में एकवचन होता है उसी प्रकार इस सूत्र से बहुत्व संख्या की विवक्षा में बहुवचन होता है। अर्थात् अनेक संख्या की विद्यमानता होती बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।

रामाः - राम शब्द की बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन के प्रत्यय जस् आदि प्रत्यय होंगे। यथा राम राम राम या इससे अधिक संख्या की विवक्षा में जस् प्रत्यय होता है राम राम राम जस् बनता है इसके बाद सरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ इस सूत्र के द्वारा एक राम शेष बचता है तथा अन्य राम का लोप होता है। राम जस् बना।

इत्संज्ञा विधायक संज्ञासूत्रम्

चुटू १।३।७॥

प्रत्ययाद्यौ चु टू इतौ स्तः।

प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग- च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, तथा टवर्ग- ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, की इत्संज्ञा होती है। किसी भी स्थिति में कृत्, तद्धित, सुप्, तिङ्, आदि प्रत्ययके आदि में स्थित चवर्ग टवर्ग की इत्संज्ञा होती है। जैसे प्रत्यय हुआ जस् उसके आदि में स्थित वर्ण है चवर्ग का 'ज्' अतः उसकी इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर अस् बचा तो राम अस् बना। इसके बाद अगल सूत्र लगा।

विभक्ति संज्ञा विधायक संज्ञासूत्रम्

विभक्तिश्च् १।४।१०४॥

सुप् तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः।

सुप और तिङ् जो प्रत्यय है उन दोनों प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है।

सुप् -, सु, औ जस्, अम्, औट्, शस्, टा, भ्याम्, भिस्, ड्, भ्याम्, भ्यस्, डसि, भ्याम्, भ्या, डस्,

ओस्, आम्, डि, ओस्, सुप्, तथा तिप्, तस्, झि, सिप्, यस्, थ, मिप्, वस्, मस्, त, आताम्, झ, थास्, आथाम्, ध्वम्, इट्, बहि, महिड, अतः, सुप् इक्कीस तथा तिड्, अट्टारह, इन दोनो प्रत्ययों की विभक्ति होती है। विभक्ति संज्ञा क्यों की गयी ? इनकी आवश्यकता क्या है ? इसका प्रयोजन अगले सूत्र में बताया गया है।

इत्संज्ञा निषेध सूत्रम्

न विभक्तौ तुस्माः १।३।४॥

विभक्ति स्तवर्ग समा नेतः। इति सस्य नेत्वम्। रामाः।

विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है।

हलन्त्यम् सूत्र का बाधक है। विभक्ति में स्थित तवर्ग त्, थ्, द्, ध्, न्, तथा स् कार एवं म् कार की इत्संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति क्या है यह विभक्तिश्च सूत्र में पहले बता दिया गया है। यथा, जस्, शस्, भिस्, भ्यस्, ओस् में सकार की अम्, भ्याम्, आम में मकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा प्राप्त है किन्तु विभक्ति (सुप) में स्थित होने के कारण इनकी इत्संज्ञा नहीं होती है। अर्थात् 'विभक्तिश्च' सूत्र के द्वारा जहाँ जहाँ विभक्ति संज्ञा होगी, वहाँ वहाँ पर 'न विभक्तौ तुस्माः' से लोप का निषेध होगा। जैसे राम अस् में यहाँ पर हलन्त्यम् सूत्र से स् की इत्संज्ञा प्राप्त है किन्तु विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा तथा 'न विभक्तौ तुस्माः' सूत्र से सकार के लोप का निषेध होकर 'राम अस्' ऐसा बना।

रामाः - राम शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः, परइच और डचाप्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर स्वौजसमौट् इस सूत्र के द्वारा बहुत्व संख्या की विवक्षा में राम राम राम से 'बहुषु बहुवचनम्' सूत्र से बहुवचन जस् प्रत्यय का विधान किया गया - राम राम राम जस् बना। 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ' सूत्र से एक राम शेष बचता है तथा अन्य राम का लोप होकर राम जस् बना। चुटू इस सूत्र के द्वारा प्रत्यय जो जस् है उसके आदि वर्ण जस् प्रत्यय का 'ज' है उस जकार की इत्संज्ञा तथा 'तस्य लोपः' से लोप होकर राम अस् बना। यह सूत्र हलन्त्यम् का बाधक है विभक्ति में स्थित तवर्ग त्, थद्, धनु, सकार, मकार, की इत्संज्ञा नहीं होती है। जैसे जस्, शस्, भिस्, भ्यास्, ओस् में सभी उपदेश है और 'हलन्त्यम्' सूत्र के द्वारा अन्तिम हल वर्ण स् है उसकी इत्संज्ञा तथा 'तस्य लोपः' से लोप होना चाहिए। उसी प्रकार अम्, भ्यास्, आम, यहाँ भी उपदेश अवस्था में अन्तिम हल्वर्ण 'म्' है उसकी भी हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोप से लोप होना चाहिए, तथा डसि के स्थान में टाडसिड० सूत्र से आत् आदेश होता है वहाँपर भी हलन्त्यम् से तकार की इत्संज्ञा होनी चाहिए। ये सभी सकार मकार तवर्ग विभक्ति में स्थित है इसलिए न विभक्तौ तुस्माः से निषेध होकर

इत्संज्ञा तथा तस्य लोप से लोप नहीं होता है इसी लिए राम् अस् यहाँ पर 'हलन्त्यम्' सूत्र से जो इत्संज्ञा प्राप्त है उसका निषेध हो जाता है। राम् अस् में इत्संज्ञा का निषेध होकर आदुण से गुण प्राप्त था, उसे बाधकर अकः सवर्णे दीर्घः से दीर्घ प्राप्त था, उसे भी बाधकर प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर रामास् बना। स् कार के स्थान पर ससजुषोरूः से रूत्व 'रू' हुआ, तथा उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र से उकार की इत्संज्ञा तथा 'तस्य लोप' से लोप होकर रामार् बना। खरवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्र से र् के स्थान पर विसर्ग होकर रामाः प्रयोग की सिद्धि हुई।

एकवचनं सम्बुद्धि २।३।४९॥

सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धि संज्ञं स्यात्।

सम्बोधन में प्रथमा का एकवचन सम्बुद्धि संज्ञक होता है। जिसको अच्छी तरह से सम्बोधन करके बुलाया जाय उसे सम्बोधन कहते हैं। जैसे हे राम यहाँ राम कहीं दूर पर है उसे तेज आवाज में बुलाना ही सम्बोधन है और सम्बोधन संज्ञा जहाँ होती है वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। राम शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति एकवचन में सु प्रत्यय तथा 'हे' का पूर्व प्रयोग होने से हे राम सु बना। उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र से उकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हे राम स् बना।

'यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेऽगम्' १।४।१३॥

यः प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तास्मिन्नंगं स्यात्। जो प्रत्यय जिस शब्द से किया जाता है वह शब्द जिस प्रत्यय के आदि में हो उस शब्द की अंग संज्ञा होती है। जिस प्रकृति से प्रत्यय होता है उस प्रत्यय के परे रहने पर पूर्व में जो भी प्रकृति है उस सम्पूर्ण प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। जैसे तिडन्त प्रकरण में भू धातु से मिप् प्रत्यय आया तो मिप् प्रत्यय के परे होने पर सम्पूर्ण प्रकृति भू की अंग संज्ञा होती है भू मिप् 'प्' की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होने के बाद भू मि बना। कर्त्तरिशप् से शप् प्रत्यय होने के बाद भू शप् मि बना। शप् में शकार प् कार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होने के बाद 'अ' शेष बचता है भू अ मि बना। सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्र से गुण भो अ मि एचोडयवायावः सूत्र से अवादेश होने के बाद भव मि बना। अब यहाँ भव प्रकृति को अंग संज्ञा होने के बाद अतो दीर्घो यञि सूत्र से प्रकृति भाव मे व कार में जो अकार है उसकी अंग संज्ञा होने के बाद अदन्त अंग अकार को दीर्घ होकर भवामि प्रयोग की सिद्धि होती है। व्याकरण शास्त्र में अंग कहने से पर में प्रत्यय तथा पूर्व में प्रकृति है ऐसा समझना चाहिए। जैसे हे राम स में स् प्रत्यय है र् प्रकृति है अतः प्रत्यय स् के परे होने पर राम शब्द की अंग संज्ञा होती है। अंग संज्ञा होने

का फल आगे सूत्र में कहा गया है।

एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे ६।१।६९॥

एङन्तात् ह्रस्वान्तात् चांगात् हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्।

एङन्त अंगं ह्रस्वान्त अंगं से परे सम्बुद्धि के हल् का लोप होता है।

एङ् (एओ) प्रत्याहार हो जिस के अन्त में हो उसे एङन्त कहते हैं। ह्रस्व हो जिसके अन्त में उसे ह्रस्वान्त कहते हैं उस एङन्त एवं ह्रस्वान्त अंग उदाहरण - हे राम स् यहाँ पर ह्रस्वान्त है राम में म का अ उस अ से परे सम्बुद्धि का हल स् है उसका लोप होकर हे राम ऐसा प्रयोग बनता है सम्बोधन प्रथमा के द्विवचन तथा बहुवचन में प्रथमा द्विवचन तथा बहुवचन में कोई अन्तर नहीं है। (समान ही रूप चलता है) हे रामौ हे रामाः ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. लघु - उत्तरीय प्रश्न

1. सुबन्त किसे कहते हैं? ()
2. अजन्त किसे कहते हैं? ()
3. अजन्त प्रकरण में कितने लिंग होते हैं? ()
4. हलन्त किसे कहते हैं? ()
5. लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ()
6. 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' से होता है? ()
7. अर्थवान् क्यों कहा गया? ()
8. 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र में अधातु क्यो कहा गया? ()
9. व्युत्पन्न शब्द क्या है? ()
10. अव्युत्पन्न शब्द क्या है? ()
11. व्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? ()

12. अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? ()
13. एकशेष कहने का क्या तात्पर्य है? ()
14. सम्बुद्धि संज्ञा कहाँ होती है? ()
15. व्याकरण शास्त्र में अगं संज्ञा किसकी होती है? ()

2. बहुविकल्पात्मक प्रश्न

1. अवसान संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है -
 (क) विरामोऽवसानम् (ख) सुपः
 (ग) 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् (घ) कृतद्धित समासाश्च
2. प्रथमा विभक्ति के एकवचन का रूप है -
 (क) रामाः (ख) रामौ
 (ग) रामः (घ) राम
3. प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है -
 (क) रामौ (ख) रामाः
 (ग) रामः (घ) रामम्
4. प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का रूप है -
 (क) रामम् (ख) रामौ
 (ग) रामाः (घ) रामः
5. विभक्तियाँ कितनी होती हैं-
 (क) सात (ख) पाचँ
 (ग) चार (घ) तीन

6. सुप् प्रत्यय कितने होता है -

- | | |
|------------|---------|
| (क) बीस | (ख) चार |
| (ग) इक्कीस | (घ) दो |

7. नादिचि सूत्र क्या करता है -

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| (क) वृद्धि का निषेध | (ख) गुण का निषेध |
| (ग) पूर्वसवर्ण दीर्घ का निषेध | (घ) वृद्धि करता है |

8. बहुत्व संख्या की विवक्षा में किस वचन का प्रयोग होता है -

- | | |
|-------------|--------------------|
| (क) एकवचन | (ख) बहुवचन |
| (ग) द्विवचन | (घ) एकवचन, द्विवचन |

9. वचन कितने प्रकार के होते हैं -

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (क) दो प्रकार के | (ख) एक प्रकार के |
| (ग) तीन प्रकार के | (घ) अनेक प्रकार के |

10. राम शब्द की द्विवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है -

- | | |
|--------------------|------------------|
| (क) भ्याम् प्रत्यय | (ख) भिस् प्रत्यय |
| (ग) औट् प्रत्यय | (घ) औ प्रत्यय |

11. प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग की इत्संज्ञा किस सूत्र से होती है-

- | | |
|----------|--------------------------|
| (क) सुपः | (ख) प्रथमयोः पूर्वसवर्णः |
| (ग) चुटू | (घ) नादिचि |

12. चुटू कैसा सूत्र है-

- | |
|-----------------------------------|
| (क) इत्संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र |
|-----------------------------------|

(ख) पूर्वसवर्ण विधायक संज्ञा सूत्र

(ग) अवसान संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र

(घ) बहुवचन विधायक नियम् सूत्र

13. तिङ् प्रत्यय कितने होते हैं-

(क) बारह (ख) चौदह

(ग) सत्तरह (घ) अठारह

14. सुप् प्रत्यय हो जिसके अन्त उसे क्या कहते हैं-

(क) सुबन्त (ख) तिडन्त

(ग) ह्रस्वान्त (घ) दीर्घान्त

15. किस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा होती है-

(क) सुप् की (ख) कृदन्त

(ग) तद्धित की (घ) सुप् और तिङ् की

16. 'न विभक्तौ तुस्माः' यह कैसा सूत्र है-

(क) तवर्ग सकार मकार की इत्संज्ञा का निषेध करता है

(ख) प्रत्यय के आदिमें चवर्ग तवर्ग की इत्संज्ञा करता है

(ग) अगं संज्ञा करता है

(घ) बहुवचन संज्ञा करता है

17. अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है-

(क) अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्

(ख) कृतद्धित समासाश्च

(ग) न विभक्तौ तुस्माः

(घ) चुटू

18. सम्बुद्धि संज्ञा करता है-

(क) हलन्त्यम्

(ख) न विभक्तौ तुस्माः

(ग) एकवचन सम्बुद्धिः

(घ) सुपः

19. अंग संज्ञा करता है-

(क) एकवचन सम्बुद्धि

(ख) यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्

(ग) सम्बोधने च

(घ) प्रातिपदिकार्थं लिंगं परिमाणं वचनं मात्रे प्रथमा

1.4 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि सुबन्त क्या है ? व्याकरण शास्त्र में शब्द कितने प्रकार के होते हैं ? अजन्त क्यर है? षड्लिगं क्या है ? इन के बारे में भली भाँति जान चुके हैं। इस इकाई में सुबन्त शब्दों के षड्लिगं प्रकरण अजन्त षड्लिगं केवल राम शब्द का व्याख्या किया गया है। उन राम शब्द में भी प्रथमा विभक्ति रामः रामौ रामाः, तथा सम्बोधन में हे राम हे रामौ हे रामाः। इतने ही रूपों की व्याख्या की गयी है इन रूपों को समझने के लिये संज्ञा प्रकरण तथा सन्धि प्रकरण का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार से रूपों की व्याख्या तथा सूत्रों की व्याख्या की गयी है उससे आप को कोई समस्या नहीं आयेगी। मैंने सूत्रों की व्याख्या करके तथा उनके उदाहरण जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों को भी भली भाँति दर्शाया है। इन रूपों को जानकर आप व्याकरण शास्त्र के जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों से आप भली भाँति परिचित हो सकेंगे। बिना शब्द रूपों के ज्ञान के बिना संस्कृतज्ञ नहीं हो सकते हैं। इस लिये शब्द रूपों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

1.5 शब्दावली

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
पादः	पैर ने	कुक्कुटाः	मुर्गों ने
अर्चकः	पुजारी ने	नृपाः	राजाओ ने

चिकित्सकाः	वैधों ने	मयुराः	मोरो ने
मधुपौः	दो भौरों ने	गोपालका	गोपालकों ने
तस्कराः	चोरों ने	वत्साः	बछणों ने
गर्दभाः	गदहा ने	वृषभाः	बैला ने
याचकौः	दो याचकों ने	शिक्षकौ	दो शिक्षको ने
कृपणः	कृपण ने	जनकः	पिता ने
गजः	हाथी ने	अग्रजः	बडा भाई ने
खगाः	पक्षियों ने	अनुजः	छोटा भाई ने
विप्रः	ब्राह्मण ने	देवाः	देवताओं ने
केशवः	श्रीकृष्ण ने	काणाः	कानों ने
रमेशः	श्री विष्णु ने	आचार्याः	आचार्यों ने
कृषकाः	किसान ने	हस्तौ	दोनों हाथों ने
कृषकौ	दो किसान ने	पादौ	दोनों पैरों ने
नायकाः	नेताओं ने	अर्णवः	समुद्र नें
कमेलकाः	उँटों ने	विनायकः	गणेश ने
परीश्रमशीलाः	परिश्रम शीलोंने	विमशर्ः	विचार
ग्रामः	गाँव ने	रजकाः	धोबियों ने
श्रृगालाः	श्रृगाल	अर्कः	सूर्य ने
अश्वः	अश्वों ने	आपणः	बाजार ने
बलीवर्दाः	बैलों ने	आपणिकः	दुकानदार
बालकाः	बालकों ने	रथकारः	बढ़ई ने
जनाः	लोगों ने	लौहकारः	लोहार ने
कुक्कुराः	कुक्कुरों ने	कुम्भकारः	कुम्हार ने

मृगौ	दो मृगों ने	मार्जारः	बिल्ला
काकौः	दो कौवा	वानराः	वानरों ने
गगनः	आकाश ने	श्येनाः	बाजों ने
दिनकरः	सूर्य ने	शुकाः	तोतों ने
निशाकरः	चन्द्रमा ने	वकाः	बगुलों ने
मेघाः	बादल ने	तनयाः	पुत्रों ने
वृक्षाः	वृक्षों पर	छागः	बकरा

1.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

- ल0उ0- 1- सु आदि प्रत्यय जिनके अन्त में हों
- 2- अच् आदि जिनके अन्त में हो
- 3- तीन
- 4- व्यंजनान्त को
- 5- तीन
- 6- प्रातिपदिको संज्ञा
- 7- अर्थ होने से
- 8- अव्युत्पत्ति के लिए
- 9- जिसमें प्रकृति और प्रत्यय हो
- 10- बिना प्रकृति प्रत्यय के
- 11- कृततद्धितसमासाश्च
- 12- अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम्
- 13- केवल एकशेष

14- सम्बोधन में

15- जिसमें प्रत्यय का विधान हो उसके आदि की

बहुविकल्पीय –

1- क 2- ग 3- ख 4- ख 5- क 6- ग 7- ग 8- ख 9- ग 10- घ 11- ग

12- क 13- घ 14- क 15- घ 16- क 17- क 18- ग 19- ख

1.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

श्री सुरेन्द्र शास्त्री - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री वरदराजाचार्य विरचित) चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन,
37/117 गोपाल मन्दिर लेन पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001पं.गोपाल दत्त पाण्डेय -
रसिद्धान्त कौमुदी (भट्टोजि दीक्षित विरचित)चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन37/117 गोपाल मन्दिर लेन
पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001

1.8 उपयोगी पुस्तकें

श्री सुरेन्द्र कुशवाहा - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री वरदराजाचार्य विरचित) भारतीय विधा प्रकाशन
धूपचण्डी जगत गंज वाराणसी 221001

1.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र की व्याख्या कीजिये।
2. राम ,शब्द प्रयोग की व्याख्या कीजिये।
3. यस्मात् प्रत्यय विधि स्तदादि प्रत्ययेऽगम् इस सूत्र की व्याख्या कीजिये।

इकाई 2 .अजन्त पुलिगं राम शब्द द्वितीया - सप्तमी

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 लघुसिद्धान्त कौमुदी अजन्त पुलिगं सूत्रों की व्याख्या सहित राम शब्द द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक की रूप सिद्धि
- 2.4 सारांश
- 2.5 शब्दावली
- 2.6 अभ्यासार्थ प्रश्न
- 2.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.8 उपयोगी पुस्तकें
- 2.9 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

व्याकरण शास्त्र से सम्बन्धित यह दूसरी इकाई है इससे पूर्व की इकाइयों से आप बता सकते हैं कि व्याकरण शास्त्र में अजन्त की क्या आवश्यकता है विभक्ति की आवश्यकता क्या है। इस इकाई में द्वितीया विभक्ति रामम् से लेकर सप्तमी विभक्ति रामेषु तक की हिन्दी में विस्तृत सूत्र सहित व्याख्या की गयी है।

सुबन्त राम शब्द के समान जितने भी अकारान्त पुलिगं शब्द हैं उन सग की व्याख्या राम शब्द के समान की जायेगी संस्कृत भाषा को समझने के लिये सुबन्त रामादि का व्याख्या अत्यन्त आवश्यक है। अनुवाद आदि को समझने के लिये अजन्त पुल्लिङ्गादि व्याख्या अत्यन्त आवश्यक है।

इस इकाई के अध्ययन से आप पुल्लिङ्गं रामादि शब्दों के माध्यम से समझते हुए उसकी महत्ता को भी बता सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप पाणिनि विरचित महत्वपूर्ण एवं प्रेरणापद सूत्रों का अध्ययन करेंगे।

- अजन्त पुल्लिङ्गं राम शब्द के रूपों को आप जान सकेंगे
- राम शब्द के तृतीया विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों को समझ सकेंगे।
- राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों को समझ सकेंगे।
- राम शब्द के पञ्चमी विभक्ति के व्याख्या सहित रूपों को आप समझ सकेंगे।
- राम शब्द के षष्ठी विभक्ति के व्याख्या सहित रूपों को आप समझ सकेंगे।
- राम शब्द के सप्तमी विभक्ति के व्याख्या सहित रूपों को आप समझ सकेंगे।

2.3 अजन्त पुलिगं राम शब्द

राम शब्द की अर्थ वद् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् से प्रातिपदिक संज्ञा तथा द्वितीया विभक्ति के एकवचन की विवक्षा में अम् प्रत्यय होकर राम् अम् बना। आद्गुणः से गुण प्राप्त था उसे बाधकर अकः सवर्णेदीर्घः से दीर्घ भी प्राप्त था उसे भी बाधकर अगला सूत्र प्रवृत्त हो रहा है।

अमिपूर्वः पूवरूप विधायक विधिसूत्रम् ६।१।१०।६११

स्यात् अकोडम्यचि पूर्व रूपमे का देशः ।

अक् प्रत्याहार से अम् सम्बन्धी अच् के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश होता है।

पूर्वरूप पररूप के विषय में पहले आप पढ़ चुके हैं ।

राम अम् मे अक् प्रत्याहार हैं मकार में अकार तथा अम् प्रत्यय सम्बन्धी अच् का अकार पर में होने के कारण पूर्व मे अ हैं तथा पर मे भी अ है । दोनो के स्थान में पूर्वरूप हुआ तब एक ही अकार हो गया राम् अ म वर्ण सम्मलेन होकर रामम् ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार सुरेशम् , अवधेशम् शिव कुमारम् , आदि प्रयोग जानना चाहिए।

रामौ- द्वितीया विभक्ति के द्विवचन रामौ बनता हैं राम शब्द से द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में और प्रत्यय आता हैं रामऔट् बना । टकार की हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर राम औ बना। प्रथमा के द्विवचन में जैसे रामौ बना उसी प्रकार यहाँ भी रामौ प्रयोग बनता हैं।

रामान्- राम शब्द की प्रातिपादिक संज्ञा होने के बाद प्रथमाए बहुवचन विवक्षा में शस प्रत्यय होता हैं राम शस् बनता है। अब यहाँ पर हलन्त्यम् से सकार की इत्संज्ञा तथा तस्यलोपः से लोप उसको न विभक्तौ तुस्मा से निषेध होकर इत्संज्ञा विधायक विधि सूत्रम् का लोप नहीं होता हैं। राम शस् बना।

लशक्वतद्धिते १।३।८॥

तद्धितवर्जप्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतःस्युः

तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर प्रत्यय के आदि में ल् श् कवर्ग की इत्यंज्ञा होती है।

इस तरह सूत्र में प्रत्यय हुआ शस् उसके आदि में शकार तथा लट् लिट् लेट् आदि लकार एवं क्विप् इत्यादि ककार इन सबकी इस सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा होती हैं। तद्धित प्रत्ययों की इत्संज्ञा नहीं होती हैं। शस् में शकार की इत्संज्ञा हो जाने के बाद तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाने के बाद अस् बचता हैं। राम अस् बना। अब यहाँ आहुणः से गुण प्राप्त था उसे बाधकर वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त थी उसे भी बाधकर प्रथमयो पूर्वसवर्णः से पूर्वसवर्णः दीर्घ होकर रामास् बना । अब यहाँ सकार को रुत्व विसर्ग था उसे अगले सूत्र के द्वारा निषेध होकर

नत्वविधायकं विधि सूत्रम्

तस्माच्छसोनः पुंसि ६।१।१०३॥

पूर्वसवर्ण दीर्धात् यः शसः सस्मस्यनः स्यात्

पूर्वसवर्ण दीर्घ से परे शस् का सकार उसको शस् के सकार के स्थान पर नकार पुंसि आदेश होता है पुल्लिङ्ग में। रामास् में पूर्वसवर्ण दीर्घ से परे जो स् कार उसको न् कार आदेश होकर रामान् ऐसा प्रयोग बनता है। यहाँ ध्यान रहै कि जो शस् के सकार के स्थान पर नकार हुआ है वह पूर्ण सवर्ण दीर्घ होने के बाद ही लगता है और पुल्लिङ्ग होता है।

णत्वविधायकं विधिसूत्रम्

अट्कवर्ग पवर्ग आङ्नुम् ए तैव्यस्तैर्यथा सम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य णः स्यात् समान पदे। इति प्राप्ते। अट् कवर्ग , पवर्ग ,आङ् ,नुम् इनका अलग.अलग या दो तीन चार वर्ण मिलकर व्यवधान होने पर भी रेफ और ष् कार से परे न् कार के स्थान पर ण् कार आदेश होता है समान पद में।

रेफ और ष् कार से परे न् कार के स्थान पर णकार आदेश करता है समान पद में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए हों यदि किसी वर्ण का व्यवधान हो तो केवल अट् प्रत्याहार कवर्ग, पवर्ग, आङ्, नुम् का ही व्यवधान हो अर्थात् रेफ और न् कार के बीच में या प् कार और न् कार के बीच में कोई वर्ण हो तो अट् प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् ही हो अन्य कोई वर्ण नहीं इनके व्यवधान होने में भी णत्व होता है तथा व्यवधान न होने पर भी णत्व होता है। समान पदे का तात्पर्य है कि रेफ या ष् कार और नकार दोनों एक ही पद में विद्यमान हों। अब यहाँ पर रामान् में ये सूत्र कैसे घटित होगा उसे देखिये। रामान् में प्रथम वर्ण र् कार ,रेफ है और अन्तिम वर्ण नकार है। रेफ से परे नकार को णत्व होता है। किन्तु दोनों के मध्य में इतने वर्णों का व्यवधान है। क्या इतने वर्णों के व्यवधान होने से नकार को ण् पर हो सकता है? यदि रकार तथा न् कार के बीच में किसी वर्ण का व्यवधान हो तो अट् ,कवर्ग, पवर्ग, आङ् ,नुम्, इतने ही वर्णों का व्यवधान हो सकता है। यहाँ पर तीन वर्णों में से दो वर्ण तो अट् प्रत्याहार में आते हैं तथा म् पवर्ग में आता है। अतः इनके व्यवधान में णत्व के लिए कोई बाधा नहीं है इसलिए णत्व हो सकता है। रामान् में यहाँ पर न् कार के स्थान पर णकार की प्राप्ति हो सकती है णत्व के निषेध के लिए अलग सूत्र बनाया गया है।

णत्व निषेध सूत्र - पदान्तस्य ८।४।३६॥ नस्य णो नः स्यात् ।

पदान्त नकार को णकार नहीं होता।

अट्कुप्वाङ्गनुम्ब्यवायेपि सूत्र से पदान्त न् कार को णत्व प्राप्त था अतः पदान्तस्य सूत्र के द्वारा पदान्त न् कार को ण् कार नहीं होता है। जैसे रामान् यहाँ पर जो णत्व प्राप्त था उस णत्व को पदान्तस्य सूत्र से निषेध होकर रामान् प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार सुरेशान्, अवधेशान्, शिवकुमारान्, इत्यादि प्रयोग समझना चाहिये।

रामेण -राम शब्द की प्रतिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति के एकवचन की विवक्षा में टा प्रत्यय होता है। राम टा बना। चुटू इस सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में जो ट् हैं उसकी इत्संज्ञा तथा तस्य लोप सूत्र से लोप होकर राम आ बना।

इनात्स्यादेशविधायकं विधिसूत्रम्- टाडसिडसामिनात्स्याः ७।१।१२॥

अदान्ताट्टादीनामिनादयः स्यु । णत्वं रामेण। अदन्त अंग से परे टा, डसि, डस्, इनके स्थान पर क्रमशः इन्, आत्, और स्य ये आदेश होते हैं।

यहाँ स्थानी भी तीन टा, डसि, डस्, हैं और आदेश भी तीन इन, आत्, स्य हैं। अतः यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इस सूत्र के नियमानुसार आदेश क्रम से होगा। टा के स्थान पर इन, डसि के स्थान पर आत्, तथा डस् के स्थान पर स्य आदेश होते हैं। अदन्त अंग यदि पूर्व में हो तो। रामआ यहाँ पर टा सम्बन्धी आकार के स्थान पर **टाडसिडसामिनात्स्याः** इस सूत्र से टा के स्थान पर इन आदेश होने के बाद राम ङ इन बना। आद्गुणः से अकार इकार दोनों के स्थान पर **अकुट्पवाङ् नुमवायेऽपि** सूत्र से नकार के स्थान में ठाकार आदेश होकर रामेण प्रयोग बनता है। इसी प्रकार सुरेशेण, अवधेशेण, शिवकुमारेण इत्यादि प्रयोग समझना चाहिए।

रामाभ्याम् -राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होकर तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय आता है राम् भ्याम् बना।

दीर्घ विधायकं विधि सूत्रम्

सुपि च ७।३।१०२॥

यजादौ सुपि अतोऽगंस्य दीर्घः स्यात्। रामाभ्याम्।

अर्थ . यजादि सुप् प्रत्यय परे हो तो अदन्त अंग को दीर्घ होता है राम भ्याम् यहाँ पर अदन्त अंग राम और अन्त्य वर्ण हैं राम में मकारोन्त वर्ती अकार उससे यजादि प्रत्याहार सुप् परे हैं। अतः भ्याम् के परे होने पर राम के अकार का दीर्घ होकर रामाभ्याम् प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं जैसे सुरेशाभ्याम्, अवधेशाभ्याम्, शिवकुमाराभ्याम्, आदि समझना चाहिये।

रामैः- राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होकर तृतीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भिस् प्रत्यय होता है। यहाँ पर भिस् में जो सकार है उसकी हलन्त्यम् सूत्रसे इत्संज्ञा प्राप्त है उसको न विभक्तौ तुस्माः सक निषेध होकर राम भिस् बना।

अतोभिम् ऐस् ६।१।९॥

अनेकालशित्सर्वस्य । रामै

हरव अकारान्त अगं से सेपरे भिस् के स्थान पर ऐस् आदेश होता है। अनेकालशित्सर्वस्य परिभाषा के द्वारा राम भिस् में अतोभिस् ऐस् के सूत्र के द्वारा भिस् के स्थान पर ऐस् आदेश होता है। अदन्त अगं राम से परे। वृद्धिरेचि सूत्र से वृद्धि होकर रामैस् बनता है। ससजुषोरुः इस सूत्र के द्वारा स् के स्थान पर रु रामै रू बना। रु मे उकारकी इत्संज्ञा तस्संज्ञा तस्यलोपः से लोप होकर रामै र् बना। खर वसानयोर्लिसर्जनीयः इस सूत्र के द्वारा ष्के स्थान में विसर्ग होकर रामैः प्रयोग बनता है। इसी प्रकार सुरेशैः, अवधेशैः, शिवकुमारैः, इत्यादि प्रयोग समझना चाहिए।

रामाय - . राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा चतुर्थी विभक्ति की एकवचन विवक्षा में डे प्रत्यय होकर राम डे बना। डे में दो वर्ण ड ए में लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में क वर्ग जो डे हैं उसकी इत्संज्ञा होकर तथा तस्य लोपः से लोप होकर राम ए बना।

यादेशविधायकं विधिसूम्

डेर्यः ७।१।१३॥

अतोऽगात् परस्य डेर्यदेशः

ह्रस्वअकारान्त अगं से परे जो डे. उस डे.के स्थान में य आदेश होता है।

राम ए में डे. सम्बन्धी एकार के स्थान पर य आदेश होता है राम य बना। अब यहाँ पर सुपि च सूत्र से दीर्घ करना है यह दीर्घ स्थानी डे. को मानकर किया जाय अथवा आदेश य को मानकर किया जाय इस शंका के निवारण के लिए अगला सूत्र बनाया गया है।

स्थानिवद्भाव विधायकं विधिसूत्रम्

स्थानिवदादेशीडनल्विधौ १।१।५६।

आदेश स्थानिवत्स्यान्नतु स्थान्यलाश्रयविधौ। इति स्थानिवत्वात् सुपि वेति दीर्घः।रामासा।रामाभ्याम्।

अर्थः . आदेश स्थानी के समान होता है किन्तु यदि स्थानी सम्बन्धी अल् को आश्रय लेकर कोई विधि ; कार्य द्ध करना हो तो नहीं होता है।

सूत्र के द्वारा किये गये कार्य को स्थानिवद्भाव कहते हैं। स्थानिवद्भाव का तात्पर्य यह है कि स्थानी के समान भाव जो भाव हम स्थानी में रखते हैं वही भाव हमे आदेश में भी रखना चाहिए। क्योंकि आदेश स्थानी के स्थान पर स्थानी को हटाकर होता है। स्थानिवद्भाव से स्थानी का स्थानित्व

आदेश में भी आ जाता है। लोक व्यवहार में जैसे गुरु के बाद गुरु का स्थानापन्न व्यक्ति लगभग उसी प्रकार का आधिकारण सम्मान आदि प्राप्त करता है। पिता के बाद पिता के स्थानापन्न पुत्र कतिपय अधिकार तथा गुणों को प्राप्त हो जाता है। आदेश स्थानी के समान होता है ॥ अल् में स्थानि ना तुल्यं . स्थानिवत् स्थानि के समान होना अर्थात् स्थानी में जो गुण धर्म हैं। वह गुण धर्म आदेश में भी आ जाय ए स्थानी को मानकर होने वाले सारे गुण धर्म आदेश में भी हो जायें। किन्तु यह कार्य अल्विधि में नहीं होगा। अल्विधि का तात्पर्य यहाँ अल् प्रत्याहार से है। अल् प्रत्याहार में सारे स्वर तथा व्यन्जन माने जायेंगे। और अल् प्रत्याहार को मानकर होने वाली विधि किसी एक अल् मात्र ; एक वर्ण विशेष को निमित्त मानकर के होने वाली विधि में स्थानिवद्भाव नहीं होता है जैसे आगे षुपि चष् से दीर्घ करना है। सुप् केवल एक वर्ण न होकर वर्णों के समुदाय से बना प्रत्यय है। राम डे इस स्थानी का जो सुप् अर्थत् सुप्त्व गुण धर्म था वह गुण धर्म आदेश य में जायेगा।

वैसे केवल यह आदेश सुप् के अन्तर्गत नहीं आता फिर भी ष्स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ इस सूत्र से स्थानिवद्भाव हो जाने के कारण स्थानी डे . में जो सुप्त्व धर्म था वह आदेश य में भी सुप्त्व धर्म आ जाता है। य को सुप् मानकर सुपि च से यञादि सुप् पर में होने के कारण अदन्त अगं मकारोन्तवर्ती अकार को दीर्घ होकर रामाय् प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार सुरेशाय, अवधेशाय, शिव कुमाराय, इत्यदि प्रयोग बनाना चाहिए।

रामाभ्याम् . जिस प्रकार तृतीया विभक्ति के द्विवचन में रामाभ्याम् बना है इसी प्रकार यहाँ चतुर्थी द्विवचन में भी रामाभ्याम् प्रयोग बनता है।

एत्वविधायकं विधि सूत्रम्

बहुवचने झल्येत् ७।३।१०३। झलादौ बहुवचने सुप्यतोऽगस्यैकारात्। रामेभ्यः। सुपि किम् पचध्वम्।

झलादि बहुवचन सुप् के परे रहने पर अदन्त अगं के अन्त के स्थान पर एकार आदेश होता है।

पूर्व में अदन्त अर्थात् ह्रस्व अकार हो और पर में सुप् अर्थात् सुए औए जस् इक्कीस प्रत्यय हो ओं। वह सुप् बहुवचन वाला हो और सुप् बहुवचन वाला जो प्रत्यय हो उसके आदि झल् ; झभघढ ध् ज ब ग् ड द ख् फ् थ् च् ट् त् क् प् श् ष् स् ह् प्रत्याहार के अन्तर्गत आने वाला वर्ण भ हो। उससे पूर्व में अकार के स्थान पर एकार आदेश होता है। सूत्रमें बहुवचन क्यों कहा गया घ् यदि ऐसा नहीं कहा गया होता तो रामस्य में भी एत्व होने लगता। यथा . राम शब्द से डस् प्रत्यय आता है उस डस् के स्थान में ष्यष् आदेश होकर राम स्य बना उसके बाद ह्रस्व अकारान्त से झलादि प्रत्यय स्य में स् हैं उससे पूर्व में मकारोन्तवर्ती अकार है उस अकार के स्थान में एत्व होने लगता । इसलिए सूत्र में बहुवचन पढ़ा गया। पैरा सूत्र में सुपि प्रत्यय ही क्यों कहा गया घ् यदि सूत्र में सुपि ऐसा नहीं कहा गया

होता तो पच धातु से लोट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचन विवक्षा में आत्मन पद प्रत्यय ध्वम् आता हैं। पच ध्वम् बना। कर्त्तरिशप् से शप् प्रत्यय होने के बाद पच् शप ध्वम् बना। शप् में पकार का हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तथा ष्तस्य लोपःष् से लोप होने के बाद तथा प्लशक्वतद्धितेषु सूत्र से शकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होने के बाद ष्अष् मात्र बचता हैं। पच अ ध्वम् वर्ण सम्मेलन होने के बाद पच ध्वम् बना। अब यहाँसुप् नहीं पढ़ा गया होता तो झलादि बहुवचन ध्वम् परे होने पर पूर्वा में पच के अकार को एत्व होकर पचेध्वम् ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगता। इसलिए पचध्वम् में अकार को एत्व न जाया इसलिए सूत्र में सुप् पढ़ा गया।

रामेभ्यः- राम शब्द की ष्अर्थवदधातु धातुरप्रत्ययःप्रातिपदिकम् से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्यय परश्च और डया प्रातिपदिकात्०, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर स्वौजसमौ० इस सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में राम राम राम से बहुषु बहुवचनम् सूत्र के द्वारा चतुर्थी बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय का विधान किया गया। राम राम राम भ्यस् बना। सरुपाणामेक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम शेष बचता हैं और अन्य राम का लोप हो जाता हैं। राम भ्यस् बनता हैं यहाँ भ्यस् में जो स् कार हैं उसकी हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा प्राप्त थी किन्तु न विभक्तौ तुस्मा इस सूत्र के द्वारा स् का जो लोप प्राप्त था इसका निषेध हो जाता हैं। राम भ्यस् में बहुवचन सुप् प्रत्यय भ्यस् होने के कारण पूर्व में जो राम के मकारोतवर्ती अकार को एकार होकर रामेभ्यस् बनता हैं। स् कार के स्थान पर ससजुषो रुः सूत्र के द्वारा रामेभ्यस् में जो सकार हैं उस सकार के स्थान पर रु होकर रामेभ्य रु बनता हैं। रू में जो उकार हैं इसकी उपदेशोऽजनुनासिक इत् इस सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपःसूत्र से लोप होकर रामेभ्य र् बनता हैं। तथा र् कार के स्थान पर ख रवसानयोर्विसर्जनीयःसूत्रके द्वारा विसर्ग होकर रामेभ्यः प्रयोग बनता हैं। इसी प्रकार सुरेशेभ्यः, अवधेशेभ्यः, शिवकुमारेभ्यः, इत्यादि प्रयोग समझना चाहिए।

चत्वविधायकं विधि सूत्रम्

वाऽवसाने ८।४।५६॥

अवसाने झलां चरो वा स्यात् । रामात्

रामाद् । रामाभ्याम् । रामेभ्यः । रामस्य ।

अवसान परे होने पर झल् के स्थान पर विकल्प से चर आदेश होता हैं। विरामोवसानम् सूत्र का स्मरण करें। अवसान का अर्थ होता हैं अन्त यानी उस वर्ण के बाद कोई वर्ण न हो। एक उक्ति हैं जिसके पर ;बाद में कुछ न हो उसे अन्त कहते हैं; यस्मात् परोनास्ति स अन्तः यस्मात् पूर्वं नास्ति स आदिः। जिसके पूर्व ;पहले कुछ न हो उसे आदि कहते हैं। ऐसा अवसान परे होने पर जो झल् झ् भ्

घ् ढ् ध् ज् ब् ग् ड् ख् फ् छ् ठ् थ् च् ट् त् प्रत्याहार को चर् च् ट् त् क् प् श् स् आदेश हो जाते हैं विकल्प से। अतः इस सूत्र के लगने के बाद दो रूप सिद्ध होते हैं।

रामात् . - राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रतिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः परश्च ड्याप्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर स्वौजसमौट्0 इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति में डसि भ्याम् भ्यस् प्राप्त हुआ। अब कौन सा प्रत्यय कहाँ लगेगा ऐसी आकांक्षा में द्वचेकयोर्द्विवचनैकवचने इस सूत्र से एकत्व संख्या की विवक्षा में एकवचन का विधान कर दिया गया। इन तीनों प्रत्ययों में एकवचन है. डसि। अतः राम के बाद डसि प्रत्यय हो गया. राम डसि बना। डकार की लशक्वतिद्धतेः सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपःसे लोप होकर असि बचा। इकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् से इत्संज्ञा तथा लोप होकर अस् बचा। राम अस् बनने पर डसि सम्बन्धी अस् के स्थान पर टाडसिडसामिनात्स्याः इस सूत्र से अस् के स्थान पर आत् आदेश होकर राम आत् ऐसा बना। तथा अकःसवर्णे दीर्घःसूत्र से दीर्घ होकर रामात् बना। रामात् में जो तकार है इस तकार के स्थान पर झंलाजशोऽन्ते सूत्र से झल् प्रत्याहार को जश् अर्थात् झल् प्रत्याहार में आने वाला वर्ण त के स्थान में जश् प्रत्याहार का वर्ण द होकर रामाद् बना। अब दकार के स्थान पर वावसाने सूत्र से चर्त्वं अर्थात् झल् प्रत्याहार का वर्ण जो द है उसके स्थान चर् प्रत्याहार का वर्ण होगा। चर् प्रत्याहार में आने वाला वर्ण च् ट् त् क् प् श् स् है इनमें से स्थानेन्तरतमः सूत्र के सहयोग से स्थान और अल्पप्राण प्रयत्न की तुल्यता ;समान होने पर रामाद् में दकार के स्थान पर स्थान और अल्पप्राण की तुल्यता होने पर तकार होकर रामात् प्रयोग सिद्ध हुआ। जहाँ पर वाऽवसाने सूत्र से विकल्प से चर्त्वं होता है जहाँ पर चर्त्वं नहीं हुआ। वहाँ पर रामाद् ही प्रयोग होगा। इस प्रकार पंचमी के एकवचन में दो रूप बनते हैं.रामात् रामाद्। अब इसी प्रकार सुरेशात्, अवधेशात्, शिवकुमारात्, आदि भी समझना चाहिये।

रामाभ्याम्- राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् से प्रातिपदिक संज्ञा पंचमी विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा के जो रामाभ्याम् प्रयोग बना है उसी के समान पंचमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में रूप बनेगा।

रामेभ्यः- राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। पंचमी विभक्ति के बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय होकर राम भ्यस् बना। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में जैसे .रामेभ्यः प्रयोग बनता है उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए।

रामस्य -राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः ,परश्च , ड्याप्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति में डस् ओस् आम् प्राप्त हुआ। अब कौन सा प्रत्यय कहाँ लगेगा इस

अवस्था में द्व्येकयाकद्विवचनैकवचनै इस सूत्र से एकत्व संख्या की विवक्षा में एकवचन का विधान कर दिया गया। इन तीनों प्रत्ययों में एकवचन है . डस्। अतः राम शब्द की विवक्षा षष्ठी एकवचन में करने पर डस् प्रत्यय हुआ। राम डस् बना। अब यहाँ लशक्वतद्धिते सूत्र से डस् में डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर राम अस् बना। अब यहाँ अकः सवर्णे दीर्घः से दीर्घ होना चाहिए। किन्तु दीर्घ को बाधकर डस् सम्बन्धी अस् के स्थान में टाडसिडसामिनात्स्याः इस सूत्र से अस् के स्थान पर स्य आदेश होकर रामस्य प्रयोग बनता है इसी प्रकार सुरेशस्य, अवधेशस्य, शिवकुमारस्य, आदि प्रयोग बनाया जाता है।

ओसि च ७।३।१०४।

अतोऽगंस्यैकारः। रामयोः

ह्रस्व अकारान्त अगं से ओस् के परे रहने पर अकार के स्थान पर एकार आदेश होता है।

रामयोः - राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः ,परश्च, डयाप्प्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर स्वौजसमौट्. इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति में डस् आम् प्राप्त हुआ। अब कौन सा प्रत्यय कहाँ लगेगा अब इस अवस्था में द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इस सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रयोग होता है। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में ओस् प्रत्यय होता है। राम राम ओस् होता है सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इस सूत्र से एक राम शेष बच जाता है अन्य राम का लोप हो जाता है। अब यहाँ राम ओस् बना। हलन्त्यम् सूत्र से ओस् में जो अन्तिम हल् वर्ण स् है। उसको लोप होना चाहिए। किन्तु नविभक्तौ तुस्माः से सकार के लोप का निषेध होता है। राम ओस् में गुण होता है पुनः उस को बाधकर सूत्र लगा . ओसिच इस सूत्र के द्वारा ओस् प्रत्यय पर में हो तो पूर्व में अदन्त अगं को एकार होता है। यहाँ पर बाद में ओस् प्रत्यय है पूर्व में मकरोत्तरवर्ती अकार को एकार होकर रामे ओस् में एचोऽयवायावः इस सूत्र के द्वारा एच् प्रत्याहार के वर्ण को अय् आदि आदेश होता है अच् प्रत्याहार पर में हो तो यहाँ एच् प्रत्याहार है रामे में म में ए अच् पर में है ओस्। इसलिए ए के स्थान में अय् आदेश होकर राम् ओस्। वर्ण सम्मेलन होकर रामयोस् बना। ससजुषोरुः इस सूत्र से स् कार के स्थान में रु होकर रामयो रु बना। विसर्ग कार्य करनेपर रामयोः सिद्ध हुआ।

नुडागमविधायकं विधि सूत्रम्

ह्रस्वनधायो नुट् ७।१।५४॥

ह्रस्वान्तान्द्यन्तादाबन्ताच्चङगात्परस्यामोनुडागमः स्यात्।

ह्रस्वान्त अगंए नद्यन्त अड और आबन्त अड से परे आम् को नुट् का आगम होता है। ह्रस्व हो

जिसके अन्त में उसे ह्रस्वान्त कहते हैं। नदीसंज्ञक वर्ण ;स्त्रीलिंग के ईकार और ऊकार जिसके अन्त में हो उसे नद्यन्त कहते हैं। और आप् प्रत्यय हो जिसके अन्त में उसे आबन्त कहते हैं। ऐसे ह्रस्वान्त अंग नद्यन्त अंग और आबन्त अंग से परे आम् को नुट् का आगम होता है। नुट् मे ट् कार की इत्संज्ञा तथा से लोप होता है और उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है। न् अवशिष्ट बचता है ट्कार की इत्संज्ञा होने के कारण टित् माना गया है ऐसा होने के कारण आद्यन्तौ ट्कितौ की परिभाषा लगती है इस परिभाषा के अनुसार जिसको आगम किया गया उसके आदि में होगा। और जहाँ पर कित् होगा वहा पर अन्त को होता है। यहाँ पर .ह्रस्वनद्यापो नुट्सूत्र से आम् को नुट् का विधान किया गया है। अतः आम् के आदि में स्थित आकार के आधारवयव होकर वह बैठेगा।

दीर्घ विधायकं विधि सूत्रम्

नामि ६।४।३।।

अजन्तागंस्य दीर्घः। रामाणाम्। रामे। रामयोः। सुपि एत्वे कृते।

नाम के परे होने पर अजन्त अंग को दीर्घ होता है। यह निषेध सूत्र नहीं है अपितु नाम् के परे रहने पर अजन्त अंग को दीर्घ का विधान करने वाला सूत्र है नाम् शब्द न् आम् प्रत्यय मिलकर नाम् नुट् का नकार और षष्ठी बहुवचन प्रत्यय वाला आम् प्रत्यय मिलकर नाम् बना है तथा नाम के परे रहने पर उक्त अर्थ को लाने के लिए सप्तमी विभक्ति लगाई गयी। यदि शब्द अजन्त हो और जब ह्रस्वनद्यापो नुट् से नुट् हो गया हो ऐसे नकार सहित आम् के परे रहने पर नामि सूत्र की प्रवृत्ति होती है।

रामाणाम् - राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्प् इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः, परश्च, डयाप्प्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर स्वौजस मौट्० . इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम् प्रत्यय होता है। राम राम राम आम् बना। सरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ से एक राम शेष बचता है और शेष राम का लोप हो जाता है। राम आम् बनता है। अब यहाँ आम् का जो मकार है उसकी हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होना चाहिए। किन्तु न विभक्तौतुस्माः से लोप का निषेध हो जाता है। राम आम् में ह्रस्वनद्यापो नुट् सूत्र से ह्रस्वान्त अंग से परे जो आम् उस आम् को नुट् का आगम होता है। अब नुट् का आगम आम् के पूर्व में होगा कि पर में होगा कहा होगा इस शंका के निवारण के लिए एक परिभाषा सूत्र बना आद्यन्तौ ट्कितौ। आगम में टित् होगा यानी ट्कार की इत्संज्ञा हुई हो वह आगम आदि को होगा। यहाँ पर प्रत्यय जो आम् है उसके आदि में होगा। राम नुट् आम् बना ट् की हलन्त्यम से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप एवं उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् से इत्संज्ञा होकर तथा तस्यलोपःसूत्र से लोप होकर राम न् आम्। वर्ण सम्मेलन होकर राम नाम् बना। अब यहाँ नामि सूत्र

से नाम् परे होने के कारण अजन्त अगं अकार को दीर्घ होकर रामा नाम बना। अट्कुप्वाड. नुम्व्यवायेऽपि इस सूत्र के द्वारा नकार है उसको णत्व होकर रामाणाम् प्रयोग बनता है। इसी प्रकार सुरेशाणाम्, अवधेशानाम्, शिवकुमाराणाम्, इत्यादि प्रयोग समझना चाहिए।

रामे - राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः परश्च, ड.याप्रातिपदिकात् इन तीनों सूत्रों के अधिकार से युक्त होकर स्वौजसमौट् इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति के एकवचन में डि प्रत्यय आया। राम डि बना। लशक्वतद्धितेः सूत्र के द्वारा डकार की इत्संज्ञा तथा लोप होकर राम इ बना उसके बाद आदगुणः सूत्र से अकार इकार दोनों के स्थान में एकार गुण होकर रामे प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार सुरेशे, अवधेशे, शिवकुमारे प्रयोग समझना चाहिए।

रामयोः -राम शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी द्विवचन की विवक्षा में ओस् प्रत्यय होता है राम ओस् बना। जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रामयोः बना है। उसी प्रकार यहाँ भी रामयोः प्रयोग बनेगा।

षत्वविधायकं विधि सूत्रम्

आदेशप्रत्ययोः ८।३।५९।

इण्कुम्यां परस्यापदान्तस्यादेशस्य प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। इषद्विवृतस्य सस्य तादृश एव षः। रामेषु। एवं कृष्णादयोप्यदन्ताः।

इण् प्रत्याहार और कवर्ग से परे अपदान्त आदेश रूप सकार या प्रत्ययावयव जो सकार ए उसके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण आदेश होता है।

जिस सकार को हम मूर्धन्यादेश ष करने जा रहे हैं वह सकार इण् इ उ ऋ लृ औ ह य् व् र ल् प्रत्याहार से परे या कवर्ग क् ख् ग् घ् ङ् से परे ह से और पद के अन्त में स्थित न हो या तो प्रत्यय का अवयव सकार हो या आदेश रूप सकार दोनों प्रकार के सकार के स्थान पर मूर्धन्यादेश षकार होता है मूर्धन्य वर्ण तो ऋटुरषाणां मूर्धा स्थानिक होने से मूर्धा कहलाते हैं। अब स्थानिक जो सकार उस सकार के स्थान में सभी मूर्धास्थानिक वर्ण प्राप्त होते हैं एक के स्थान पर अनेक की अनियम है। उस अनियम को नियमार्थ करने के लिये स्थानेअन्तरतमः सूत्र आता है। इस सूत्र से स्थान मिलता ही नहीं क्योंकि स्थानी जो सकार है उसका स्थान दन्त है और आदेश जितने है सभी मूर्धास्थानिक हैं। अब स्थान एक न होने के कारण हम आभ्यन्तर प्रयत्न में चल रहे हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न में सकार इषद्विवृत प्रयत्न तथा षकार का भी इषद्विवृत प्रयत्न है अतः आभ्यन्तर प्रयत्न में स तथा ष का

प्रयत्न एक ही है। बाहय प्रयत्न में भी इन दोनो वर्णों का विचार श्वास और अघोष प्रयत्न है अतः बाहय प्रयत्न में भी इन दोनो का एक ही प्रयत्न है। इसलिये सकार के स्थान पर षकार होता है। अन्य मूर्धास्थानिक वर्ण नहीं होते क्योंकि उन वर्णों का प्रयत्न भिन्न है।

रामेषु - राम शब्द से अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिकसंज्ञा होने के बाद प्रत्ययः परश्च, ड.याप्रातिपदिकात् इन तीनों अधिकार सूत्रों से युक्त होकर स्वौजसमौट० . इस सूत्र के द्वारा बहुषुबहुवचनम् इस सूत्र के द्वारा सप्तमी बहुवचन की विवक्षा में सुप् प्रत्यय आता है राम् राम राम सुप् सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इस सूत्र के द्वारा एक राम शब्द शेष बच जाता है अन्य राम के लोप होकर राम सुप् बना प्कार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोप से लोप होकर राम सु बना बहुवचने झल्येत् इस सूत्र के द्वारा झलादि बहुवचन सुप् ;सु प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व में जो अदन्त अगं मकारोप्तवर्ती अकार है उस अकार के स्थान में एकार होता है। रामे सु बना अब इसके बाद आदेश प्रत्ययोः इस सूत्र के द्वारा जो अकार को एकार हुआ है वह एकार इण् प्रत्याहार में आने के कारण इण् से परे जो ;सु का सकार है वह पद के अन्त में भी नहीं है ए क्योंकि रामेषु इतना पद होता है और उसके अन्त में तो सु का उकार ही आता है इसलिए अपदान्त वर्ण स् है ए अतःसकार में मूर्धन्य सभी वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त हुए और स्थानेऽन्तरतमःसूत्र के द्वारा बाहय प्रयत्न की तुल्यता से सकार के स्थान में केवल षकार ही हुआ रामेषु सिद्ध हुआ। इसी प्रकार सुरेश से सुरेशेषु, अवधेशेषु शिवकुमार से शिवकुमारेषु, कृपण से कृपणेषु इत्यादि प्रयोग समझना चाहिए।

इस प्रकार से आपने राम शब्द के सातों विभक्तियों में तीनों वचनों के इक्कीस रूपों को सूत्रों के माध्यम से सिद्ध किया। इन इक्कीस रूपों को तालिका के माध्यम से देखा जा सकता है।

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	रामः	रामौ	रामाः
द्वितीया	रामम्	रामौ	रामान्
तृतीया	रामेण	रामाभ्याम्	रामैः
चतुर्थी	रामाय	रामाभ्याम्	रामेभ्यः
पञ्चमी	रामात् रामाद्	रामाभ्याम्	रामेभ्यः
षष्ठी	रामस्य	रामयोः	रामाणसम्
सप्तमी	रामे	रामोः	रामेषु

सम्बोधन	हे राम	हे रामौ	हे रामाः
विभक्तियों का सामान्य अर्थ इस प्रकार से किया गया है।			
विभक्ति	कारक	चिह्न	
प्रथमा	कर्ता	ने	
द्वितीया	कर्म	को	
तृतीया	करण	सेएसे द्वारा	
चतुर्थी	सम्प्रदान	के लिए ए को	
पञ्चमी	अपादान	से अलग	
षष्ठी	सम्बन्ध	का के की	
सप्तमी	अधिकरण	में पै पर	
सम्बोधन	सम्बोधन	हे भो अरे आदि	

राम शब्द अकारान्त पुल्लिंग है और संसार में ह्रस्व . अकारान्त पुल्लिंग वाले जितने भी शब्द हैं उनमें केवल सर्वादि गण पठित शब्दों को छोड़कर अन्य सभी शब्द राम शब्द के समान सिद्ध किये जायेंगे और रूप भी उसी प्रकार से बनाये जायेंगे।

राम शब्द की सिद्धि आप ने कर ली है अब आप को यह विश्वास हो जाना चाहिए की संस्कृत भाषा में सर्वादियों को छोड़कर जितने भी अकारान्त शब्द हैं वे जितने रूप है वह राम के समान बनते हैं। राम शब्द के समान ही सातों विभक्तियों के रूप चलते हैं। अन्तर केवल इतना ही होता है कि तृतीया विभक्ति के एकवचन में तथा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में णत्व का विधान आता है रेफ ;र मुर्धन्य षकार ;ष और स इन दोनों वर्णों से परे नकार को णकार होता है किन्तु इस बात का ध्यान देना होगा की रकार नकार तथा षकार नकार के बीच में अट् प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग आगं नुम् इतने ही वर्ण हो तथा अन्य वर्ण न हो तो नकार को णकार होता है। अन्यत्र णत्व नहीं होता है। जैसे. रामेण चौरैण गर्भाणाम् इत्यादि किन्तु बालकेन अवधेशेन यहाँ पर नकार को णकार नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर र तथा ष से परे नकार नहीं है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

लघु . उत्तरीय प्रश्न

1. अमिपूर्वः सूत्र से क्या प्रयोग ;रुपद्ध बनता हैघ्
2. अमिपूर्वः सूत्र क्या करता हैघ्
3. णत्व के लिये किसकी अनिवार्यता आवश्यक हैघ्

4. णत्व में किन वर्णों का व्यवधान मान्य हैघ्
5. किस अवस्था में णत्व का निषेध होता हैघ्
6. रामेण मे णत्व किस सूत्र से होता हैघ्
7. अतोभिस् ऐस् सूत्र क्या करता हैघ्
8. पदान्तस्य सूत्र क्या करता हैघ्
9. टाडसि डसामिनात्स्याः इस सूत्र से ष्टा ष्के स्थान पर क्या आदेश होता हैघ्
10. प्रामरभ्याम्भ् मे मकार में जो अकार है उसका दीर्घ किस सूत्र से हुआ हैघ्
11. रामाभ्याम् किस वचन का रूप हैघ्
12. रामैः किस विभक्ति का रूप हैघ्
13. रामाय किस विभक्ति का रूप हैघ्
14. चतुर्थी एकवचन में कौन सा प्रत्यय होता हैघ्
15. ष्ङेष् के स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ से क्या आदेश हैघ्
16. रामेभ्यः किस विभक्ति का रूप हैघ्
17. रामेभ्यः में जो मकार का अकार है उसको एत्व किस सूत्र से हुआ हैघ्

रिक्त स्थानों को भरिए

1. बहुवचने झल्येत् सूत्र अकार को करता है।
2. टाडसिडसाकमनात्स्याः सूत्र डसि के स्थानकरता है।
3. रामयोः विभक्ति का रूप है।
4. डे.र्य सूत्र डे के स्थान मे..... आदेश करता है।
5. ओस् प्रत्यय वचन का प्रत्यय है।

6. राम शब्द के पचमी विभक्ति में..... रूप होता है।
7. ओसिच सूत्र अकार के स्थान पर..... करता है।
8. ह्रस्वान्त अगं से परे आम को आगम होता है।
9. अक् प्रत्याहार से अम् परे हो तो आदेश होता है।
10. यदि सुप् प्रत्यय पर में हो तो अदन्त अगं होता है।
11. रामान् में नकार के स्थान पर णत्व का निषेध सूत्र से होता है।
12. लशक्वतद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में इत्संज्ञा होती है।

बहुविकल्पा प्रश्न

1. रामम् में पूर्व रूप किस सूत्र से होता है .
(क) भिपूर्व (ख) सुपिच
(ग) चुतू (घ) लशक्वतद्धिते
2. रामान् में सकार के स्थान में नकार किस सूत्र से हुआ है .
(क) पदान्तस्य (ख) तस्माच्छसो नः पुंसि
(ग) अमिपूर्वः (घ) सुपि च
3. रामेण में कौन सा प्रत्यय हुआ है .
(क) अम् प्रत्यय (ख) औट् प्रत्यय
(ग) टा प्रत्यय (घ) भ्याम् प्रत्यय
4. अतोभिस् ऐस सूत्र क्या करता है .
(क) टा के स्थान में इन (ख) डसि के स्थान में आत्
(ग) डस् के स्थान में ष्यष् (घ) भिस् के स्थान में ऐस्
5. रामयोः में जों मकार में अकार उस अकार को एकार किस सूत्र से हुआ .
(क) ओसिच (ख) ह्रस्वनधापो तुट्
(ग) स्थानिवदादेशोऽनल्बिधौ ;घद्ध गहुवचने झल्येत्
6. रामेषु में जों मकार में अकार है उस अकार को एत्व किस सूत्र से होता है .
(क) ओसिच (ख) सुपि च
(ग) बहुवचने झल्येत (घ) पदान्तस्य
7. रामे में कौन सा प्रत्यय हुआ है .
(क) भ्याम (ख) भिमि
(ग) डि (घ) ओस
8. प्रत्यय के आदिमें ल् श् कवर्ग की इत्संज्ञा होती है
(क) प्रदान्तस्य (ख) ह्रस्व नद्यापोनुट्

- (ग) अतोदीर्घो यनि (घद) लशम्वर्ता ते
 9. आदेश प्रत्ययोः से होता है .
 (क) नकार के स्थान मे ठाकार (ख) डसि के स्थान मे आत्
 (ग) भिस् के स्थान में ऐस् (घ) स् के स्थान ष्
 10. रामे में प्रत्यय है .
 (क) डि (ख) ओस्
 (ग) सुप् (घद्) भ्यस्

2.4 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि अजन्त क्या है व्याकरण शास्त्र में पड़लिंग क्या है लिंग कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण शास्त्र में पड़लिंग प्रकरण को सुबन्त कहते हैं जिसके अन्त मे सुप् प्रत्यय हो उसे सुबन्त कहते हैं और जिसमे छः लिंग हो उसे षड्लिंग प्रकरण कहते हैं यथा १ण् अजन्त पड़लिंग ,अजन्त स्त्रीलिंग, अजन्त नपुंसक ,ह्रन्त पड़लिंग ५. हलन्त स्त्रीलिंग ,हलन्त नपुंसक लिंग। इस इकाई मे रामम् से लेकर रामेषु तक शब्दों की सिद्धियाँ की गयी हैं। द्वितीया विभक्ति के एकवचन से लेकर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन तक प्रयोगों को बताया गया है प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति , पच्चमी विभक्ति ,षष्ठी विभक्ति ,तथा सप्तमी विभक्ति ,का वर्णन किया गया। इन विभक्तियों में सूत्रों के साथ प्रयोगों को भी व्याख्यायित किया गया है। किन्तु प्रयोगोंके पढ़ने के पहले संज्ञा प्रकरण तथा सन्धि का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। और जिसे संज्ञा प्रकरण सन्धि का ज्ञान हो गया उसको अजन्त पुल्लिंगए को स्वतः पहचान जायेगा अर्थात् उसको किसी गुरु से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वह इस व्याख्या को पढ़कर स्वयं ज्ञान कर सकता है।

2.5 शब्दावली

शब्द	अर्थ	शब्द	
पदाभ्याम्	दोनो पैरो से	कुक्कुटेभ्यः	मुर्गों के लिये
अर्चकाय	पुजारी के लिए	नृपाय	राजा के लिये
चिकित्साभिः	वैधों से	मयुरस्य	मोर का
मधुपैः	भौरों से	गोपालकात्	गोपालकों से

तस्करेण	चोर से	वत्सात्	बछणा से
गर्दभाय	गदहां के लिये	वृषभात्	बैल से
याचकात्	याचक से	जनकस्य	पिता का
कृपणात्	कृपण से	अग्रजस्य	बडा भाई का
गजानाम्	गजों का	अनृजानाम्	छोटे भाइयों का
खगस्य	पक्षी का	देवानाम्	देवताओं का
विपेभ्यः	ब्राह्मणों के लिये	देवेभ्यः	देवताओं के लिये
केशवात्	श्रीकृष्ण से	आचार्याय	आचार्यों के लिये
रमेशभ्यः	रमेशों के लिये	हस्ताभ्याम्	दोनों पैरों से
कृषकेभ्यः	किसानों के लिये	पादाभ्याम्	दोनों पैरों से
कृषकाय	किसान के लिये	अर्णवे	समुद्र में
नायकात्	नायक से	विनायकस्य	गणेश का
कमेलकात्	ऊँट से	विमर्शेण	विचार से
परीश्रमशीलात्	परीश्रम शीलों से	रजक	धोबियों का
ग्रामात्	गाँव से	अर्कस्य	सूर्य का
श्रृगालेभ्यः	श्रृगालों से	आपणात्	बाजार से
अश्वात्	अश्व से	आपणिकात्	दुकानदार से
बलीवर्दम्	बैल को	रथकारस्य	बढ़ई का
बालकेभ्यः	बालको के लिये	लौहकारस्य	लोहार का
जनेभ्यः	लोगों के लिये	कुम्भकारेण	कुम्भ कार से
कुक्कुरात्	कुक्कुरों से	मार्जारस्य	बिल्ला का
मृगेषु	मृगों मे	वानरेण	वानर
काकयोः	दो कौओं का	श्येनात्	बाज से

डागनात्	आकाश से	शकात्	तोत से
दिनकरेण	सूर्य से	ब्काय	बगुला के लिये
निशाकरेण	चन्द्रमा से	तनयात्	पुत्र से
मेघात्	बादल से	छागात्	बकग से
वृक्षेषु	वृक्षों पर		

2.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. रामम्
2. पूर्वरूप एकादेश
3. र, ष, से परे
4. अट्, कवर्ग, पवर्ग, आङ् नुम्
5. पदान्त नकार
6. अट्टकुप्वाङ्गनुम्बयवायेपि
7. भिस् को ऐस
8. णकार का निषेध
9. इन
10. सुपि च
11. द्विवचन
12. तृतीया
13. चतुर्थी
14. डे.
15. य
16. चतुर्थी

17. बहुवचने झल्येत

रिक्त स्थानों की पूर्ति-

1. एकार

2. आत्

3. षष्ठी, सप्तमी

4. य

5. द्वि

6. रामात्

7. एकार

8. नुट्

9. पूर्वरूप

10. दीर्घ

11. पदान्तस्य

12. ल् श् कवर्ग

बहुविकल्पीय

1. क. 2. ख 3. ग 4. घ 5. क 6. ग 7. ग 8. घ 9. घ 10. क

2.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

श्री श्री सुरेन्द्र शास्त्री . लघुसिद्धान्त कौमुदी ; श्री वरदराजाचार्य विरचितद्ध चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन ए 37ध्117 गोपाल मन्दिर पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001

पं.गोपाल दत्त पाण्डेय . सिद्धान्त कौमुदी ; भट्टोजि दीक्षित विरचित चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन 37ध्117 गोपाल मन्दिर लेन पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001

2.8 उपयोगी पुस्तकें

श्री सुरेन्द्र कुशवाहा . लघुसिद्धान्त कौमुदी ;श्री वरदराजाचार्य विचित भारतीय विधा प्रकाशन
धूपचण्डी जगत वाराणसी 221001

2.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. रामेण की व्याख्या कीजिये ।
2. रामाणाम् की व्याख्या कीजिये ।

इकाई 3. अजन्त पुलिङ्ग सर्वादिगण

इकाई की रूप रेखा

- 3.1. प्रस्तावना
- 3.2. उद्देश्य
- 3.3. लघुसिद्धान्त कौमुदी अजन्त पुलिङ्ग सूत्रो की व्याख्या सहित सर्वादिगण पठित शब्दो की रूप सिद्धि
- 3.4. सारांश
- 3.5. शब्दावली
- 3.6. अभ्यासार्थ प्रश्न
- 3.7. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.8. उपयोगी पुस्तके
- 3.9. निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

व्याकरण शास्त्र से सम्बन्धित यह तीसरी इकाई है। उससे पूर्व की इकाइयों के अध्ययन से आप बता सकते हैं कि अजन्त पुलिङ्ग में सुबन्त रूबन्तों की सिद्धि कैसे हुई। इन सुबन्तों के अध्ययन से आप को क्या लाभ है। उसको आप भली भाँती समझ सकते हैं।

व्याकरण शास्त्र के महत्व को जानते हुए षड्लिङ्ग ;सुबन्तद्ध प्रकरण में सर्वादिगण में पठित पैतीस शब्दों के विषय में विस्तृत चर्चा की गयी है कि सर्वादिगण क्या है घ् प्रस्तुत इकाई में विस्तार से उनके विचारों का विश्लेषण किया गया है

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप सुबन्त के प्रयोजनों के महत्व को समझा सकेंगे। तथा सुबन्त में सर्व आदि पैतीस शब्दों का विश्लेषण कर सकेंगे

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप पाणिनि रचित व्याकरण शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणापद सूत्रों का अध्ययन कर सकेंगे

- सर्वनाम संज्ञा क्या है घ् सर्वनाम संज्ञा का प्रयोजन क्या है घ् उसका परिचय प्राप्त कर सकेंगे
- सर्वादिगण में कितने शब्द पढ़े गये हैं इसका परिचय प्राप्त कर सकेंगे
- सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसका परिचय प्राप्त कर सकेंगे
- सर्वशब्द के रूपों की सिद्धि कैसे होती है इसके विषय में समझ सकेंगे
- उस शब्द के बारे में समझ सकेंगे
- सर्व एंव पूर्व शब्द में क्या अन्तर है समझ सकेंगे

3.3 अजन्त पुलिङ्ग सर्व शब्द

जिन अकारान्त शब्दों में राम शब्द की अपेक्षा कुछ अन्तर होता है अब उन शब्दों का वर्णन करते हैं। उन शब्दों में सर्वादिगण के शब्द मुख्य हैं अतः सबसे पहले सर्वादिगण को दर्शाते हैं

सर्वनाम संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम्

सर्वादीनि सर्वनामानि १।१।२६।सर्वादीनि शब्द स्वरूपाणि सर्वनाम संज्ञानि स्युः ।

सर्वादिगण में पढ़े गये जो शब्द स्वरूप हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादिगण में कौन-कौन से शब्द है यह भी यहाँ पर बताया गया है। सर्वनाम संज्ञा क्यों होती है इसकी आवश्यकता क्या है इन सबका प्रयोजन आगे बताया जायेगा। सर्वादिगण में कौन से शब्द आते हैं। देखिये सर्व, विश्व, पुत्र, उभय डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम ये चौदह सर्वादिगण में तो पढ़े गये ही है साथ ही आगे भी अन्यगण सूत्रों के अनुसार कुछ विशेष शब्द भी माने गये हैं।

गणसूत्रम्- पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्।

पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर शब्द की सर्वादिगण में गणना की जाती है। अतः इन सातों शब्दों की उक्त अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है अन्य अर्थों में नहीं।

गणसूत्रम्- स्वमज्ञातिधनारव्यायाम्।

यदि स्व शब्द का अर्थ धन और ज्ञाति ;बन्धु हो तो उस अवस्था में सर्वादिगण में माना जायेगा। अतः उक्त अर्थ से भिन्न अर्थ में सर्वनाम संज्ञा हो जायेगी।

गणसूत्रम्- अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः।

अन्तर शब्द का अर्थ बाहर या पहनने योग्य ऐसा अर्थ हो तो वह सर्वादिगण में माना जायेगा। अतः उक्त अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है।

त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम्। सर्वादिगण के अन्तर्गत त्यदादि गण है सर्वादिगण में होने के कारण इनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। इस तरह सर्वादिगण में कुल ३५ शब्द ही आते हैं। सर्वादिगण वाले शब्दों की ही सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा होने का फल क्या है आगे सूत्र में बताया जायेगा।

सर्वेः- सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः, परश्च ड.याप्रातिपदिकात् इन तीनों अधिकार सूत्रों से युक्त होकर स्वौजसमौट् सूत्र के द्वारा बहुत्व संख्या की विवक्षा में सर्व सर्व से बहुबहुवचनम् इस सूत्र के द्वारा बहुवचन जस् प्रत्यय का विधान सर्व सर्व सर्व जस् बना। सरुपाणामेकशेष एक विभक्तौ सूत्र से एक सर्व शेष बचता है तथा शेष सर्व का लोप हो जाता है। सर्व जस् बना अब यहाँ सर्वादीनि सर्वना मानि सूत्र से सर्वनाम संज्ञा हुई। सर्वनाम संज्ञा होने के बाद चुटू सूत्र से लोप होने से लोप होने के बाद चुटू सूत्र से जकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोप होने के बाद सर्व अस् बना। सकार की भी हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होता है किन्तु न विभक्तौ तुस्माः सूत्र से सकार की इत्संज्ञा का निषेध होता है। अब यहाँ सर्वनाम संज्ञा करने का फल क्या है यहाँ पर अगले सूत्र के द्वारा बताया

गया है। शीतिधायकं संज्ञा सूत्रम्

जशः शी 6।9।96॥

अदन्तात् सर्वनाम्नो जशः शीस्यात् । अनेकाल्त्वात् सर्वा देशः । सर्वे ।

सर्वनाम् संज्ञक अदन्त शब्द से परे जस् के स्थान पर शी आदेश होता है।

यहा पर शी आदेश शित् भी है और अनेकाल भी है। किन्तु यहाँ पर अनेकाल मानकर के ही अनेकाल् शित् सर्वस्य सूत्र के द्वारा सम्पूर्ण जस् सम्बन्धी अस् के स्थान पर शी आदेश होता है। क्योंकि आदेश शी के समय शकार की इत्संज्ञा प्राप्त ही नहीं थी क्योंकि लशक्वतद्धिते: सूत्र से प्रत्यय के आदि में लकार शकार और कवर्ग जो स्थित है उसकी इत्संज्ञा करता है यहाँ पर जिस तरह से प्रत्यय जस् में प्रत्ययत्व है उसी तरह से शी में प्रत्ययत्व लाने के लिए स्थानिवदादेशोडनल्लिवधौ सूत्र से स्थानिवद्भाव करना पड़ेगा। तभी शी प्रत्यय कहलायेगा। प्रत्ययत्व आ जाने के बाद ही शी में शकार की ल शक्वतद्धिते सूत्र से इत्संज्ञा होती है। इस तरह प्रत्यय के बिना इत्संज्ञा नहीं होगी और इत्संज्ञा के बिना शित् भी नहीं बनेगा अतः शित् नहीं बनेगा तो सर्वादेश भी नहीं होगा। अतः शित्मानकर के ही जश शी सूत्र के द्वारा जस् के स्थान पर सर्वादेश शी हुआ । शी आदेश हो जाने के बाद सर्व शी बना। यँहा पर प्रत्यय के आदि मे शी में शकार है उसकी लशक्वतद्धिते सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप हाकर सर्व ई बना । आदगुणः सूत्र से अवर्ण सर्व वकारोन्तकर्ती अकार तथा पर मे ईकार इन दोनो के स्थान मे एकार गुण होकर सर्वे प्रयोग की सिद्धि होती है।

सर्वम् -सर्व शब्द की अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में अम् प्रत्यय होकर सर्व अम् बना। अमिपूर्वः से पूर्वरूप होले के बाद सर्वम् प्रयोग सिद्ध होता है। सर्वम् प्रयोग रामम् शब्द के समान बनता है।

सर्वौ - द्वितीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औट् प्रत्यय होकर सर्व औट् बना। ट्कार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर सर्व औ बना। प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में सर्वौ प्रयोग बनता है उसी प्रकार यहाँ भी सर्वौ प्रयोग सिद्ध होता है।

सर्वान् - द्वितीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में सर्व शब्द से शस् प्रत्यय होकर सर्व शस् बना। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन विवक्षा में जैसे रामान् प्रयोग बनता है उसी प्रकार यहाँ भी सर्वान् प्रयोग सिद्ध होता है। सर्वेण सर्वाभ्याम् सर्वैः प्रयोग राम के समान बनता है।

स्मै विधायकं विधि सूत्रम् - सर्वनाम्नः स्मै 6।9।94॥

अतः सर्वनरम्नो डेः स्मै ।सर्वस्मै।

सर्वनाम संज्ञक अदन्त अग से परे डे. स्थान में स्मै आदेश होता है।

डे. ड.कार की इत्संज्ञा तथा लोप होने के बाद ए बचा उस डे. सम्बन्धी के स्थान पर स्मै आदेश होता है यद्यपि यह स्मै आदेश अनेकाल् होने पर भी यहाँ पर स्थानी डे. सम्बन्धी है ऐसे एक वर्ण होने के कारण अन्त्यादेश सर्वादेश का प्रश्न ही व्यर्थ है।

सर्वस्मै - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः परश्च ड.याप्प्रातिपदिकात् इन तीनों अधिकार सूत्रों से युक्त होकर स्वौजसमौट् 0.सूत्र के द्वारा सुप् प्रत्यय का विधान किया गया। चतुर्थी एकवचन की विवक्षा में द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने सूत्र के द्वारा एकवचन का प्रत्यय डे. है सर्व डे. बना। उसके बाद लशक्वतद्धितेः सूत्र के द्वारा उकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर सर्व ए बना। सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र के द्वारा सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होने के बाद सर्वनाम्नः स्मै इस सूत्र से सर्वनामसंज्ञक अदन्त शब्द सर्व से परे जो डे. सम्बन्धी ए है उस ए के स्थान पर स्मै आदेश होकर सर्वस्मै प्रयोग बनता है। इसी प्रकार सर्वादिगण में जितने अदन्त शब्द पढ़े गये हैं उन सबका प्रयोग सर्वस्मै के समान बनता है।

सर्वाभ्याम् - सर्वशब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर रामाभ्याम् के समान सर्वाभ्याम् प्रयोग बनता है।

सर्वेभ्यः - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय होकर रामेभ्यः के समान सर्वेभ्यः प्रयोग बनता है।

सर्वस्मात् - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रत्ययः परश्च ड.याप्प्रातिपदिकात् इन तीनों अधिकार सूत्रों से युक्त होकर स्वौजसमौट् ०. सूत्र के द्वारा सुप् प्रत्यय का विधान किया गया। पञ्चमी एक वचन की विवक्षा में द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने सूत्र के द्वारा एकवचन विवक्षा में ड.सि प्रत्यय हुआ। लशक्वतद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में जो ड.कार है उसकी इत्संज्ञा होकर तथा तस्य लोपः से लोप होकर असि वचा तथा इकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र के द्वारा सर्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा होने के बाद सर्वनाम संज्ञा का फल क्या है इसका फल अगले सूत्र में बताया गया है।

स्मात्स्मिन्नादेश विधायकं विधिसूत्रम्

डूसिड्योः स्मात्स्मिनौ 6।9।95। अतः सर्वनाम्न एतयो रेतौ स्तः। सर्वस्मात्।

ह्रस्व अकारान्त सर्वनाम संज्ञक शब्द से परे पञ्चमी विभक्ति के एकवचन डि के स्थान में स्मिन्

आदेश होता है। यहाँ पर स्थानी की संख्या दो है तथा आदेश की संख्या भी दो ही है अतः यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इस परिभाषा सूत्र के द्वारा क्रमशः स्थानी में प्रथम ड.सि के स्थान पर आदेश में प्रथम स्मात् आदेश और स्थानी में द्वितीय डि. के स्थान पर आदेश में द्वितीय स्मिन् आदेश होते हैं। सर्व अस् की सर्वनाम संज्ञा होने बाद ह्रस्व अकार सर्वनाम संज्ञक सर्व शब्द से परे ड्.सि सम्बन्धी अस् के स्थान पर टाड्.सिड्;सामिनात्सयाः सूत्र से आत् आदेश प्राप्त था उसे बाधकर ड्सिड्योः स्मात्स्मिनौ सूत्र के द्वारा स्मात् आदेश होकर सर्व स्मात् बना। तकार को झलांजशोऽन्ते इस सूत्र के द्वारा जश्त्व दकार होकर सर्वस्माद् बना। दकार के स्थान पर वा ऽ वसाने सूत्र से विकल्प से चर्त्वं होंकर सर्वस्मात् बना और जहाँ पर बाऽवसाने सूत्र से चर्त्वं नहीं होगाएवहाँ पर सर्वस्माद् बनता है। इस प्रकार यहाँ पर दो रूप बनते हैं।

सर्वाभ्याम् - सर्व शब्द की अर्थ वदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रादिपदिक संज्ञा हुई। प्रादिपदिक संज्ञा होने के बाद पच्चमी विभक्ति द्विवचन में भ्याम् प्रत्यय होकर चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में सर्वाभ्याम् के समान सर्वाभ्याम् यहाँ भी बनता है।

सर्वेभ्यः - सर्व शब्द की अर्थवदधातु रप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पच्चमी बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय हुआ। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में सर्वेभ्यः के समान यहाँ भी सर्वेभ्यः प्रयोग बनता है।

सर्वस्य - सर्व शब्द की अर्थवदधातु रप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति एकवचन विवक्षा में ङस् प्रत्यय होकर रामस्य के समान सर्वस्य प्रयोग बनता है।

सर्वयोः -सर्व शब्द की अर्थवदधातु रप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर रामयोरु के समान सर्वयोरु प्रयोग बनता है।

सुडागमविधायकं विधिसूत्रम्

आमि सर्वनाम्नः सुट् 6।9।५२॥

अवर्णन्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यागमः सुडागमः स्यात्। एत्वषत्वे। सर्वेषाम्। सर्वस्मिन्। शेषं रामवत्। एवं विश्वादयोप्यदन्ताः ।

अवर्णान्ति अंग से परे सर्वनाम से विहित आम् प्रत्यय को सुट् का आगम होता है।

यह सूत्र ह्रस्वनद्यापो नुट् का बाधक है अन्य जहाँ भी ह्रस्वान्त अंग से परे आम् प्रत्यय होगा वहाँ सर्वत्र नुट् का आगम होगा किन्तु जहाँ सर्वनाम संज्ञक ह्रस्वान्त अंग होगा वहाँ पर नुट् को बाधकर सुट् का आगम होगा।

सर्वेषाम् - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने बाद प्रत्ययः, परश्च ,ड.याप्रातिपदिकात् इन तीनों अधिकार सूत्रों से युक्त होकर स्वौजसमौ.ट्. सूत्र के द्वारा सुप् प्रत्यय का विधान किया गया। षष्ठी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में आम् प्रत्यय का विधान किया गया। सर्व आम् ऐसा बना। सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र के द्वारा सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हुई। सर्वनाम संज्ञा होने बाद ह्रस्वन नुट् इस ह्रस्वनद्यापोनुट्द्वारा ह्रस्वान्त अंग सर्व शब्द से परे आम् प्रत्यय पर में होने के कारण नुट् का आगम प्राप्त था किन्तु उस नुट् को बाधकर आमि सर्वनाम्नः सुट् इस सूत्र से आम् प्रत्यय को सुट् का आगम होना है। अब यहाँ प्रश्न होगा कि सुट् को कहाँ रखा जाय आम् प्रत्यय के पूर्व में या पर में प्रश्न के निवारण के लिये सूत्र लगा आद्यन्तौ टकितौ यह सूत्र कहता है कि आगम् जिसको होता है उसके आदि या अन्त में बैठता है। जिस आगम या आदेश में ट्कार की इत्संज्ञा होती है वह टित् कहलाता है और जिस आगम या आदेश में ककार की इत्संज्ञा होती है वह कित् कहलाता है। यदि आगम टित् होगा तो जिसको आगम हुआ है उसी के आदि में अर्थात् पहले होगा और कित् होगा तो अन्त में रखा जायेगा। सर्व आम् यहाँ पर आम् प्रत्यय को जो सुट् का आगम हुआ है वह सुट् टित् होने के कारण आम के आदि में बैठेगा अब यहाँ अवर्णान्त अग है सर्व सर्वनाम से विहित प्रत्यय आम् है ही उसको सुट् का आगम होकर सर्व सुट् आम् ऐसा बना। टकार की हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर सर्व सु आम बना। सु में उकार की उपदेशऽजनुनासिकइत् इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा

तस्य लोपः सूत्र से होकर सर्व स आम् बना स् तथा आम् दोनो मिलकर साम् बना सर्व साम् ऐसा हुआ। बहुवचन ने झलादि बहुवचन साम पर में होने के कारण अदन्त अंग सर्व में वकार का जो अकार है उस अकार को एत्व होकर सर्वे साम् बना। अब यहाँ अकार को एत्व हो जाने के कारण एकारान्त सर्व शब्द में इण् ;इ उ ऋ लृ ओ ऐ ए औ प्रत्याहार ए हो गया क्योंकि एकार इण् प्रत्याहार में आता है। अब सूत्र लगा आदेशप्रत्ययोः इस सूत्र के द्वारा इण् प्रत्याहार से परे प्रत्यय के अवयव साम् के सकार को षत्व हो जाने के कारण सर्वेषाम् वर्ण सम्मेलन होकर सर्वेषाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

सर्वस्मिन् - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में ङि प्रत्यय होकर सर्व ङि बना। सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा होमा है। लशक्वतद्धितेः सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में जो कवर्ग का ङ् उसकी इत्संज्ञा होकर तथा तस्य लोपः से लोप होकर सर्व

इ बना। उसके बाद आद गुणरू से गुण प्राप्त है एस गुण को बाधकर के ड.सिड;यो:समात्समिनौ सूत्र के द्वारा अदन्त सर्वनामसंज्ञक शब्द सर्व शब्द से परे जो डि उस डि सम्बन्धी इकार के स्थान पर स्मिन् आदेश होता है। सर्व स्मिन् ऐसा बना। वर्ण सम्मेलन होने के बाद सर्व स्मिन् ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है।

सर्वयोः - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञर होने के बाद सप्तमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होने के बाद सर्व ओस् बना। जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में सर्वयोः बना है उसी प्रकार यहाँ भी सर्वयोः रूप बनता है।

सर्वेषु . - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में सुप् प्रत्यय होकर सर्व सुप् बना। प् कार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर सर्व सु बना। अब यहाँ बहुवचने झल्येत् सूत्र से झलादि बहुवचन सुप् सु प्रत्यय परे होने के कारण अदन्त अंग वकार में जो अकार है उस अकार को एत्व होकर सर्वसु बना। अब इसके बाद आदेशप्रत्ययो इस सूत्र के द्वारा जो अकार को एकार हुआ है वह एकार इण् प्रत्याहार में आने के कारण इण् प्रत्याहार से परे जो सु का सकार है अतः सकार को मूर्धन्य षकार होकर सर्वेषु प्रयोग बनता है।

हे सर्व सर्व शब्द की अर्थवद धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा के एकवचन में सु प्रत्यय होकर हे सर्व सु बना तथा सु में उकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर :हे सर्व स् बना। उसके बाद सर्व शब्द की अंगसंज्ञा तथा एकवचनसम्बुद्धिः सूत्र से सम्बुद्धि संज्ञा करके एङ् हस्वात् सम्बुद्धेः सूत्र के द्वारा स् का लोप होकर हे सर्व प्रयोग सिद्ध होता है।

हे सर्वौ - सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ प्रत्यय होकर सर्व औ बना। इसके बाद जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में सर्वौ बना है उसी प्रकार यहाँ भी हे शब्द का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे सर्वौ बना।

हे सर्वे- सर्व शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन विवक्षा में जस् प्रत्यय होकर सर्व जस् बना। इसके बाद चुटू सूत्र के जकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर सर्व अस् बना। सकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप प्राप्त होती है किन्तु न विभक्तौ

तुस्मा इस सूत्र से निषेध होकर तथा सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होकर के जसः शी सूत्र के द्वारा जस् सम्बन्धी अस् के स्थान पर शी होने के बाद सर्व शी बना। शी में शकार की लशम्बतद्धितेः सूत्र द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर सर्व ई बना। आद् गुण से गुण होकर सर्वे बना। हे का पूर्व प्रयोग होने के बाद हे सर्वे प्रयोग सिद्ध होता है।

इस प्रकार सर्व शब्द के इक्कीस रूपों को सिद्ध किया गया। ध्यान रहे कि सर्वादिगण के अजन्त शब्दों का प्रायः पाँच विभक्तियों का रूप राम शब्द के भिन्न चलता है तथा इन पाँचों विभक्तियों को छोड़कर राम शब्द के समान रूप चलता है फिर मैंने सर्व शब्द के इक्कीस रूपों को सामान्य नियम से सिद्ध किये हैं विशेष रूप से देखना हो तो राम शब्द का रूप देखकर ज्ञान कर सकते हैं।

इस प्रकार आपने अकारान्त पुल्लिंगं सर्व शब्द की सिद्धि की। ये सर्वनाम संज्ञक शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। विशेषण होते हैं विशेष्य जिस लिंग विभक्ति वचन के होते हैं उसी लिंग विभक्ति वचन के विशेषण होते हैं। अतः विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार भी लिंग विभक्ति वचन बदलते हैं। सर्वादिगण रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यहाँ पर केवल पुल्लिंगं के रूप बनाये हैं अन्य लिंगों के रूप उसी प्रकरण से बनाये जायेंगे।

एवंविश्वाद्योऽप्यदन्ताः ॥ अब अदन्त पुल्लिंगं सर्वनाम शब्दों के विषय में कहते हैं कि विश्व आदि अदन्त ; सर्वनाम भी इसी तरह चलते हैं। विश्व शब्द का अर्थ सम्पूर्ण है। सर्वादि गण में पाठ होने से सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र द्वारा सर्वनाम संज्ञा होकर शी स्मै सर्वनाम प्रयुक्त कार्य होंगे। शेष समान रूप चलेगा सम्पूर्ण रूपमाला दे रहे हैं सबसे पहले सर्व शब्द .सर्व शब्द की रूपमाला देखिए -

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	सर्व	सर्वौ	सर्वे
द्वितीया	सर्वम्	सर्वौ	सर्वान्
तृतीया	सर्वेण	सर्वाभ्याम्	सर्वैः
चतुर्थी	सर्वस्मै	सर्वाभ्याम्	सर्वेभ्यः
पंचमी	सर्वस्मात्	सर्वाभ्याम्	सर्वेभ्यः
षष्ठी	सर्वस्य	सर्वयोः	सर्वेषाम्
सप्तमी	सर्वस्मिन्	सर्वयोः	सर्वेषु

सम्बोधन हे सर्व हे सर्वो हे सर्वे

सर्वादि गण में दूसरा शब्द है विश्व ;सम्पूर्ण उसके रूप भी सर्व शब्द के समान ही होते है।

विश्व शब्द के रूप

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	विश्व	विश्वौ	विश्वे
द्वितीया	विश्वम्	विश्वौ	विश्वान्
तृतीया	विश्वेन	विश्वाभ्याम्	विश्वैः
चतुर्थी	विश्वस्मै	विश्वाभ्याम्	विश्वेभ्यः
पंचमी	विश्वस्मात्	विश्वाभ्याम्	विश्वेभ्यः
षष्ठी	विश्वस्य	विश्वयोः	विश्वेषाम्
सप्तमी	विश्वास्मिन्	वश्वयोः	विश्वेषु
सम्बोधन	हे विश्व	हे विश्वौ	हे विश्व
विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा		उभौ	
द्वितीया		उभौ	
तृतीया		उभाभ्याम्	
चतुर्थी		उभाभ्याम्	
पंचमी		उभाभ्याम्	
षष्ठी		उभयोः	
सप्तमी		उभयोः	

सम्बोधन

हे उभौ

उभ शब्द का नित्य द्विवचन में ही रूप चलता है एकवचन या बहुवचन के रूप में नहीं चलता है।

उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति।

उभय शब्द में द्विवचन नहीं होता है अतः एकवचन एवं बहुवचन के रूप में नहीं चलता है। अतः एकवचन के रूप में नहीं चलता है।

उभय ;दो का समुदाय शब्द के रूप

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
---------	-------	---------	--------

प्रथमा	उभय		उभये
--------	-----	--	------

द्वितीया	उभयम्		उभयान्
----------	-------	--	--------

तृतीया	उभयेन		उभय
--------	-------	--	-----

चतुर्थी	उभयस्मै		उभयेभ्यः
---------	---------	--	----------

पंचमी	उभयस्मात्		उभयेभ्यः
-------	-----------	--	----------

षष्ठी	उभयस्य		उभयेषाम्
-------	--------	--	----------

सप्तमी	उभयास्मिन्		उभयेषु
--------	------------	--	--------

सम्बोधन	हे उभय		हे उभये
---------	--------	--	---------

सर्वादिगण में डतर और डतम ये दोनों प्रत्ययग्रहणे तदन्त्य ग्रहणम यह एक परिभाषा है प्रत्यय के ग्रहण से प्रत्ययान्त का ग्रहण होता है। अतः डतर और डतम से डतर और डतम प्रत्ययान्त ही लिये जायेंगे। जैसे किम् द यद् एक इन चार शब्दों से प्रत्ययान्त रूप ही लिये जायेगे जैसे किम् शब्द से डतर और डतम प्रत्यय करने के बाद कतर और कतम प्रयोग बनता है। यद् शब्द से यतर .यतम तद् शब्द से ततर .ततम प्रयोग बनता है। इनके रूप भी सर्व शब्द के समान ही बनते हैं। केवल एक कतर शब्द का ही रूप यहाँ दिया जाता है बाकी रूपों की सिद्धि आप को करनी है। .

कतर शब्द के रूप

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
---------	-------	---------	--------

प्रथमा	कतर	कतरौ	विश्वे
--------	-----	------	--------

द्वितीया	कतरम्	कतरौ	कतरे
----------	-------	------	------

तृतीया	कतरेण	कतराभ्याम्	कतरान्
चतुर्थी	कतरस्मै	कतराभ्याम्	कतरेभ्यः
पंचमी	कतरस्मात्ए	कतराभ्याम्	कतरेभ्यः
षष्ठी	कतरस्य	कतरयोः	कतरेषाम्
सप्तमी	कतरस्मिन्	कतरयोः	कतरेषु
सम्बोधन	हे कतर	हे कतरौ	हे कतरे

सर्वादिगण में अन्य , अन्यतर , इतर , त्वत् , त्व , नेम , सम , सिम , इन आठों सर्वादि गण पढ़ें गये जो शब्द है उन सबका रूप सर्व के समान बनेगा। किन्तु इन आठों में से जो त्वत् शब्द है उनका प्रयोग केवल वेद में देखा गया है इसलिये वेद में प्रयोग हाकने के कारण त्वत् शब्द से कुछ भिन्न होता है और अन्य जो सात है उनका रूप सर्व के समान ही चलता है

नेम इत्यर्थे नेम शब्द का अर्थ जहाँ पर आधा होगा वहीं पर सर्वनाम संज्ञा होगी जहाँ पर अर्थ आधा नहीं होगा वहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होगी वहाँ पर सर्व शब्द के समान रूप चलेगा जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी वहाँ पर सम शब्द के समान रूप चलता है। सम शब्द का दो अर्थ होता है 1. तुल्य 2. सर्व अर्थात् तुल्यपर्याय और सत्रपर्याय। जहाँ पर सम शब्द का तुल्य अर्थ होगा वहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी और जहाँ पर सम शब्द का अर्थ सर्वपर्याय अर्थात् सर्व का जो अर्थ है वही सम शब्द का अर्थ हो तो सर्वनाम संज्ञा होगी। तुल्यपर्याय जहाँ पर होगा वहा पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सह प्रमाण को सूत्र ही बताता है यथासंख्यमनुदे शः समानाम् । यदि तुल्यपर्याय की सर्वनाम संज्ञा मानी जाती तो पाणिनि जी समानाम् की जंगह समेषाम् लिखते। इस तरह सर्वपर्याय सम.शब्द के रूप सर्व शब्द के समान ही चलेंगे।

वैकल्पिकसर्वनाम संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम्

पूर्व.परावर.दक्षिणीन्तरापधराणि व्यवस्थामसंज्ञायाम् १।१।३४।।

एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात्सर्वत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्।
पूर्वे पूर्वाः

संज्ञाभिन्न व्यवस्था अर्थ में पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इन सात शब्दों की सर्वादिगण में

आने वाले है उनकी सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से होती है किन्तु जस् परे होने पर इस सूत्र से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी उस पक्ष में पूर्वादि इन सात शब्दों का रूप जस् परे होने पर सर्वे के समान पूर्वे परे अवरे दक्षिणे उत्तरे अपरे अधरे आदि रूप बनेंगे किन्तु जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में रामाः के समान पूर्णः परा अवराः दक्षिणाः उत्तराः अपराः अधराः आदि दो दो रूप होते हैं। केवल प्रथमा विभक्तियों में सर्व के समान रूप बनते हैं।

वैकल्पिकसर्वनाम संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम्

स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् 9।9।३५॥

ज्ञाति धनान्यवाचिनो स्व शब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वास्यात् । स्वे स्वाः। आत्मीयाः आत्मन इति वा।

स्व शब्द का बन्धु एवं धन से भिन्न अर्थ हो तो सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सभी विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है किन्तु जस् परे होने पर इनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। स्व शब्द के चार अर्थ हैं। आत्मा ;स्वयं आत्मीय ;अपना ज्ञाति ;बान्धव और धन अनमें आत्मा और आत्मीय अर्थ जहाँ पर स्व शब्द का अर्थ ज्ञाति और बान्धव अर्थ होगा वहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। सर्वादीनि सर्वनामानि गण सूत्र के अन्तर्गत स्वमज्ञातिधनाख्यायाम का पाठ होने से नित्य से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी किन्तु जस् प्रत्यय के परे होने के कारण सर्वादीनि सर्वनामानि को बाधकर स्वमज्ञातिधनाख्यायाम सूत्र से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा हुई उस पक्ष में जसःशी सूत्र से जस् के स्थान में शी होकर सर्वे के समान स्वे बना और जिस् पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई उस पक्ष में रामाः के समान स्वाः प्रयोग बनता है। इस तरह दो रूप बनका स्वे स्वाः का अर्थ हुआ स्वयं या अपना। किन्तु स्व शब्द का अर्थ जहाँ पर जाति और धन अर्थ होगा वहाँ पर वहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो रामाः के समान स्वाः ऐसा रूप बनेगा।

वैकल्पिकसर्वनाम संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम्

अन्तरं बहिर्योगोप संत्यानयोः 9।9।३६॥

बाहये परिधानीये चाऽर्धेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्। अन्तरे अन्तरा वा गृहाः वाह्या इत्यर्थः। अन्तरे अन्तरा वा शातकाः परिधानीया इत्यर्थः।

अन्तर शब्द का बाहर तथा परिधानीय अर्थ हो तो सभी विभक्तियों में सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त है किन्तु प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय जस् पर में हो तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है।

बाहय और परिधानीय अर्थ में सभी विभक्तियों में सर्वादीनि सर्वनामनि सूत्र से सर्वनाम संज्ञा नित्य

प्राप्त है किन्तु जस् प्रत्यय पर में हो तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। जग सर्वनाम संज्ञा होगी उस पक्ष में अन्तर शब्द से जसः शी सूत्र से जस् के स्थान में शी आदेश होकर सर्वे क समान अन्तरे प्रयोग बनता है। और जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी वहाँ पर रामाः के समान अन्मराः प्रयोग बनता है इसका अर्थ हो सकता है बाहर स्थित घर आदि और परिधानीय वस्त्र साड़ी आदि।

वैकल्पिक स्मात् स्मिन्नादेशविधायकं विधिसूत्रम्

पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।१।१६॥

एभ्यो डसिडयो स्मात् स्मि नौ वा स्तः।पूर्वस्मात्, पूर्वात्। पूर्वस्मिन्, पूर्वे। एवं परादीनां शेषं सर्ववत्।

पूर्व पर आदि नव शब्दों से परे डसि और डि के स्थान पर स्मात् और स्मिन् आदेश विकल्प से होते हैं। सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र के द्वारा पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्व अन्तर इन नौ शब्दों में सर्वनामसंज्ञा के नित्य होने के कारण डसिडयो स्मात्स्मिनौ सूत्र से डसि के स्थान में स्मात् तथा डि के स्थान पर स्मात् और स्मिन् ये आदेश नित्य से ही प्राप्त थे। उन्हे बाधकर पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा सूत्र से डसि के स्थान में स्मात् और डि के स्थान में स्मिन् विकल्प से होते हैं। जिस पक्ष में डसि के स्थान में स्मात् और डि के स्थान में स्मिन् आदेश होगा उस पक्ष में सर्वस्मात् सर्वस्मिन् के समान पूर्वस्मात् पूर्वस्मिन् आदेश होगा और जिस पक्ष में स्मात् स्मिन् आदेश नहीं होगा उस पक्ष तक रामात् रामे के समान पूर्वात् पूर्वे ऐसा प्रयोग बनता है इसी तरह से पर से परस्मात् परात् परस्मिन् परे इन नवों के स्थान पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन पञ्चमी विभक्ति एकवचन तथा सप्तमी विभक्ति एकवचन में दो दो रूप बनेंगे। इन नौ शब्दों में पूर्व शब्द का रूप दिये जा रहे हैं अन्य आठ शब्दों का रूप आप स्वयं बनाइये।

पूर्व शब्द के रूप

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	पूर्वः	पूर्वौ	पूर्वे
द्वितीया	पूर्वम्	पूर्वौ	पूर्वान्
तृतीया	पूर्वेण	पूर्वाभ्याम्	पूर्वैः
चतुर्थी	पूर्वस्मै	पूर्वाभ्याम्	पूर्वैभ्यः

पंचमी	पूर्वस्मात्ए	पूर्वस्माद्पूर्वाभ्याम्	पूर्वेभ्यः
षष्ठी	पूर्वस्य	पूर्वयोः	पूर्वेषाम्
सप्तमी	पूर्वस्मिन्	पूर्वयोः	पूर्वेषु
सम्बोधन	हे पूर्व	हे पूर्वो	हे पूर्वे हे पूर्वा

इस प्रकार आप ने सर्वादिगण में पठित तेइस शब्द रूपों का ज्ञान किया। शेष त्यद्, एतद्, एतद्, एतद् इदम् अदस् युष्मद् अस्मद् भवतु, भवत् किम् ये देश तो सर्वादिगण में पढ़े गये जो शब्द है वे हलन्त हैं। अतः इनके रूप हलन्त प्रकरण में दिये गये हैं। इस प्रकार हम ३३ शब्द रूपों का ज्ञान किये बाकी दो और सर्वादि गण में पठित शब्द बच गये एक और द्वि शब्दों के रूप हमे बनाने है। एक शब्द का रूप केवल एकवचन में चलेगा जो सर्व के समान चलेगा तथा द्वि शब्द को त्यदा दीनामः इस सूत्र से द्वि में जो इकार है उस इकार को अकार होकर द्व अदन्त हो जाता है जिसका रूप अदन्त अकारान्त राम शब्द के समान चलता है। अतः एक तथा द्वि शब्द का रूप दिया जा रहा है। एक का रूप एकवचन में तथा द्वि शब्द का रूप द्विवचन में ही बनेगा।

एक ; एक शब्द पुल्लिङ्ग तथा द्वि ; दो शब्द पुल्लिङ्ग का रूप

	एकशब्द	द्विशब्द
विभक्ति	एकवचन	द्विवचन
प्रथम	एकः	द्वौ
द्वितीय	एकम्	द्वौ
तृतीया	एकेन	द्वाभ्याम्
चतुर्थी	एकस्मै	द्वाभ्याम्
पंचमी	एकस्मात्	द्वाभ्याम्
षष्ठी	एकस्य	द्वयोः
सप्तमी	एकस्मिन्	द्वयोः

इस प्रकार सर्वादिगण में पठित जो त्यदादि गण है उन त्यदादि गण में पढ़े गये जो शब्द हैं उनका रूप

सम्बोधन में नहीं होता है। त्दादि गण पठित शब्द है त्यद् एतद् एयद्, एतद् इदम् अदम् एक द्वि

युष्मद् अष्मद् भवतु किम्। इन त्यदादि शब्दों में एक द्वि जो शब्द है उनका रूप सम्बोधन में नहीं बना है। इस प्रकार सर्वादि गण में पठित पैत्तीस जो शब्द है उन पैत्तीस शब्दों में से त्यद् एतद् एयद् एतद् इदम् अदस् युष्मद् अष्मद् भवतु, भवत् किम् इन त्यदादि गण में पठित दश शब्दों को छोड़कर सभी पचीस शब्दों को सूत्र एवं व्याख्या सहित अध्ययन आप ने कर लिया है।

आप को बार बार यह ध्यान देना होगा की जब तक अच्छी तरह से राम शब्द का रूप समझ नहीं लेंगे तब तक अन्य रूप समझ में नहीं आयेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सर्वनाम किसे कहते हैं
2. सर्वनाम संज्ञक शब्द कितने होते हैं।
3. सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से होता है।
4. प्रथमा बहुवचन विवक्षा में सर्वनाम संज्ञा करने कस प्रयोजन क्या है
5. जस् के स्थान में शी किस सूत्र से होता है।
6. सर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है
7. सर्वनाम्नः स्मै इस सूत्र से क्या होता है
8. द्वितीय विभक्ति एकवचन विवक्षा में रूप होता है
9. सर्व शब्द के पच्चमी विभक्ति एकवचन का रूप है
10. किस विभक्ति में सुट् का आगम होता है

बहुविकल्पात्मक प्रश्न

1. सर्वादीनि सर्वनामनि सूत्र क्या करता है.

(क) सर्वनाम संज्ञा (ख) स्मै

(ग) सर्वनाम स्थान संज्ञा (घ) संयोग संज्ञा

2. जसः शी सूत्र से जस् के स्थान में आदेश होता है.

(क) स्मात् (ख) स्मै

(ग) स्मिन् (घ) शी

3. सर्वनाम संज्ञा पच्चमी विभक्ति डसि के स्थान में आदेश होता है.

(क) आत् (ख) स्मात्

(ग) स्मिन् (घ) स्मै

4. सर्वनाम संज्ञक डि के स्थान में आदेश होता है.

(क) स्य (ख) इन

(ग) ऐस् (घ) स्मिन्

5. विश्व शब्द का रूप किसके समान चलता है.

(क) राम के समान (ख) हरि के समान

(ग) सर्व के समान (घ) पितृ के समान

6. स्व शब्द के कितने अर्थ होते हैं.

(क) छः (ख) चार

(ग) पाँच (घ) तीन

7. पूर्व शब्द का रूप किसके समान चलता है.

(क) रमा के समान (ख) ज्ञान के समान

(ग) सर्व पूर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कितने रूप होते है.

(क) पाँच (ख) चार

(ग) दो (घ) तीन

9. कतम शब्द में प्रत्यय है.

(क) तिप् (ख) मिप्

(ग) डतर (घ) डतम

10. सर्वनाम संज्ञक डि के स्थान में स्मिन् आदेश होता है किस सूत्र से.

(क) जसः शी (ख) डसिडयो त्स्मिनौ

(ग) सर्वनाम्नः स्मै (द) आमि सर्वनाम्नः सुट्

3.4 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि सर्वादिगण क्या है सर्वनाम संज्ञा कहाँ किया जाता है सर्वादिगण में पठित कितने शब्द हैं इनके बारे में आप भली भाँति जान चुके हैं। जो संज्ञा के बदले बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम संज्ञक जो शब्द होते हैं वह विशेषण होते हैं विशेष्य जिस लिङ्. विभक्ति वचन का होता है उसी लिङ्ड विभक्ति वचन के अनुसार विशेषण भी होता है। सर्वादिगण के शब्द तीनों लिङ्. में चलते हैं सर्वादिगण में पैत्तीस शब्द होते हैं इन पैत्तीस शब्दों में त्यदादि गण त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् युष्मद् अस्मद् भवतु किम् दश शब्दों को छोड़कर अन्य सभी शब्दों को आप ने सूत्र व्याख्या सहित रूपों को स्मरण कर लिया है सर्वादिगण में पैत्तीस शब्द हैं वे तीनों लिङ्. में रूप बनते हैं। आपने इन तीनों लिङ्ड. में से केवल पुल्लिङ् तथा की रूप स्मरण किया है अन्य दो लिङ्डों का स्मरण स्त्रीलिङ्. तथा नपुंसक लिङ्।

इस इकाई में आप ने शब्द शास्त्र ;व्याकरण में सर्वनाम संज्ञक पैत्तीसों शब्दों को प्रयोग जान लिया।

3.5 शब्दावली

शब्द	अर्थ
1. सर्व	सब
2. विश्व	सब
3. उभ	दो

4.	उभय	दो का समुदाय
5.	डतर	प्रत्ययान्त शब्द दो में से एक का निर्धारण
6.	डतम्	प्रत्ययान्त शब्द अनेक में से एक का निर्धारण
7.	अन्य	दूसरा
8.	अन्यतर	दो में से एक
9.	इतर	दूसरा
10.	त्वत्	अन्य
11.	त्व	अन्य
12.	नेम	आधा
13.	सम	सब
14.	सिम	सब
15.	पूर्व	पहला
16.	पर	दूसरा
17.	अवर	पश्चिम
18.	दक्षिण	दक्षिण दिशा
19.	उत्तर	उत्तर दिशा
20.	अपर	पश्चिम दिशा
21.	अधर	नीचा
22.	स्व	अपना आत्मीय
23.	अन्तर	बाहर का अधो वस्त्र

24.	एतद्	यह
25.	इदम्	यह
26.	अदस्	वह
27.	एक	एक संख्या
28.	त्यद्	वह
29.	तद्	वह
30.	यद्	जो
31.	द्वि	दो संख्या
32.	युठमद्	तुम
33.	अस्मद्	मैं
34.	भवतु	आप
35.	किम्	कौन

3.6 अभ्यासार्थ प्रश्नों के उत्तर

- 1.संज्ञा के बदले बोला जाय 2.पैंतीस 3.सर्वादीनिसर्वनामानि 4.जश के स्थान
में शी 5.जशःशी 6.सर्वे 7.डे.,स्मै 8.सर्वम् 9.सर्वस्य
10.षष्ठी

बहुविकल्पीय-

- 1.क. 2.घ 3.ख 4.घ 5.ग 6.ख 7.ग 8.ख

3.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

श्री सुरेन्द्र शास्त्री . लघुसिद्धान्त कौमुदी ;श्री लरदराजाचार्य विरचित चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन
37117 गोपाल मन्दिर लेन पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001

पं.गोपाल दत्त पाण्डेय . सिद्धान्त कौमुदी ; भट्टोजि दीक्षित विरचित चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन

37117 गोपाल मन्दिर लेन पो.बा.नं. 1129 वाराणसी 221001

3.8 उपयोगी पुस्तके.

श्री सुरेन्द्र कुशवाहा . लघुसिद्धान्त कौमुदी ; श्री वरदराजाचार्य विरचित भारतीय विद्या प्रकाशन
धूपचण्डी जगत गंज वाराणसी 221001

3.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सर्वे, सर्वस्मै सर्वस्मात् इन रूपों की सूत्र सहित व्याख्या कीजिये।

इकाई 4 . अजन्त पुल्लिङ्ग सर्वादिगण हरि एंव गुरु शब्द

इकाई की रूप रेखा

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 लघुसिद्धान्त कौमुदी अजन्त पुलिङ्ग सूत्रो की व्याख्या सहित हरि एंव गुरु शब्द की रूप सिद्धि

4.4 सारांश

4.5 शब्दावली

4.6 अभ्यासार्थ प्रश्नों के उत्तर

4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.8 उपयोगी पुस्तकें

4.9 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

व्याकरण शास्त्र से सम्बन्धित यह चौथी इकाई है इससे पहले के इकाईयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि व्याकरण शास्त्र क्या है? इस व्याकरण शास्त्र के षड्लिंग सुबन्त क्या है? उसकी रचना कैसे होती है?

व्याकरण शास्त्र के महत्व को जानते हुए षड्लिंग सुबन्त प्रकरण में सुबन्त के विषय में स्पष्ट रूप से विस्तृत चर्चा की गयी है कि सुबन्त क्यों पढ़ा - लिखा जाता है प्रस्तुत इकाई में विस्तार से उनके विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

इस इकाई में हरि एवं गुरु शब्द की सिद्धि की गयी है। हरि एवं गुरु शब्द की सिद्धि के बाद उनके महत्व को समग्र रूप से समझाते हुए उनका विश्लेषण कर सकेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप पाणिनि रचित व्याकरण शास्त्र में महत्वपूर्ण एवं प्रेरणा प्रद सूत्रों का अध्ययन करेंगे -

- अजन्त पुल्लिङ्ग हरि शब्द के रूपों के आप समझ सकेंगे
- हरि शब्द के तृतीया विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- हरि शब्द के पंचमी विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- हरि एवं गुरु में क्या अन्तर है इसके बारे में समझ सकेंगे
- अजन्त पुल्लिङ्ग, गुरु शब्द के रूपों के आप समझ सकेंगे
- गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे

4.3 अजन्त पुल्लिङ्ग हरि एवं गुरु शब्द

'हरि' शब्द

अब ह्रस्व इकारान्त शब्दों की सुबन्त प्रक्रिया का विवेचन प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम 'हरि' शब्द के रूपों को विवेचन कर रहे हैं। 'हरि' शब्द के अनेक अर्थ लिखे हैं। यथा -

हरि विष्णाव हाविन्द्रे भेके सिंहें हये रवौ।

चन्द्रे कोले प्लवङ्गे च यमे बाते चकीर्णितः॥

हरि शब्द के बारह अर्थ प्रसिद्ध हैं - १. भगवान् विष्णु, २. सांप, ३. इन्द्र, ४. मेढ़क, ५. शेर, ६. घोड़ा, ७. सूर्य, ८. सुअर, ९. वानर, १०. चन्द्र, ११. यमराज, १२. वायु।

हरि शब्द के रूप सिद्ध करने के पहले राम शब्द तथा सर्व शब्द, के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों को स्मरण करना अत्यन्त आवश्यक है सूत्र - व्याख्या, रूप यदि स्मरण नहीं रहेगा तो आप भटक (भूल) सकते हैं इस लिये इन सूत्रों को स्मरण करना अत्यन्त आवश्यक है।

हरिः - हरि शब्द की अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदि संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षा में सु प्रत्यय का विधान किया गया, तब हरि ङसु बना। उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र के द्वारा सु मं जो डकार है उस डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः होकर हरि स् बना। ससजुषो रुः इस सूत्र के द्वारा स् कार के स्थान में रु होकर हरि रु बना। उसके बाद पुनः उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र के द्वारा रु में जो उकार है उसकी इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर हरि र् बना। उसके बाद खरवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्र से 'र्' के स्थान में विसर्ग होकर हरिः प्रयोग बनता है।

हरी - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर हरि औ बना। अब यहाँ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इस सूत्र से अक् प्रत्याहार से प्रथमा विभक्ति तथा द्वितिया विभक्ति सम्बन्धी अच् पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है यह सूत्र कहता है। अक् प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में है हरि में 'इ' तथा अच् प्रत्याहार का वर्ण है पर मे प्रथमा विभक्ति सम्बन्धी औग हरि औ में पूर्व इकार, पर में है औकार, पूर्व का सवर्ण औ के स्थान में पूर्व का सवर्ण दीर्घ 'ई' एकादेश होकर हर् 'ई' बना तथा वर्ण सम्मेलन होकर हरी प्रयोग सिद्ध होता है।

हरयः - अर्थ वदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र के द्वारा हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस् प्रत्यय हुआ हरि जस् बना। चुतू सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग टवर्ग इसकी इत्संज्ञा करता है यहाँ प्रत्यय हुआ जस् उसके आदि में चवर्ग का वर्ण है 'ज्' इस इकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर अस् बचा, तब हरि अस् बना। अब इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।

गुणविधायकं विधिसूत्रम्- जसि च १।३।१०९॥ह्रस्वान्तस्यागंस्य गुणः । हरयः।

जस् परे होने पर ह्रस्वान्त अंग को गुण आदेश होता है।

ह्रस्व वर्ण हो जिसके अन्त में उसे ह्रस्वान्त कहते हैं यथा अ, इ, उ, ऋ, ये वर्ण ह्रस्व हैं और ये वर्ण हो जिसके अन्त में, उसे ह्रस्वान्त कहते हैं। जिस प्रकार राम में म में 'अ' है, हरि में र में 'इ' है, गुरु में र में 'उ' है पितृ में त में ऋ है। अ का गुण 'अ' होगा, इ का गुण 'ए' होगा, उ का गुण 'ओ' तथा ऋ का गुण उरण रपरः की सहायता से अरा होता है यदि पर में जस् प्रत्यय हो तो। वैसे ऋकार के लिए अन्य सूत्र बनया गया है किन्तु 'इ' तथा 'उ' का गुण इसी सूत्र से ही होगा। हरि अस् इस अवस्था में जस् सम्बन्धी अस् प्रत्यय परे होने पर ह्रस्वान्त अंग जो हरि में इ है उसको गुण होता है अब यहाँ शंका होती है कि स्थानी एक है गुण सम्बन्धी आदेश वर्ण अ ए ओ तीन है अब इसमें से कौन सा होगा? अब यहाँ स्थानेऽन्तरतमः सूत्र से स्थान कृत साम्य 'ए' होगा क्योंकि 'इ' और 'ए' दोनों का स्थान एक होने से हरि में जो 'इ' है उस 'इ' को गुण ए होकर हरे अस् बना एचोऽयवायावः इस सूत्र से ए के स्थान पर अय् आदेश होकर हर् अय् अस् बना। वर्ण सम्मेलन होकर हरयस् बना स् कार को रूत्व तथा विसर्ग होकर हरयः प्रयोग सिद्ध होता है। रूत्व विसर्ग का अर्थ सम समे न आता हो तो रामः में जो सकार को हुआ है उसी को हम रूत्व विसर्ग कहते हैं।

जिस प्रकार आपने हरयः बनाया उसी प्रकार गुरवः प्रयोग बनता है जैसे आप ने गुरु शब्द से जस् लाये अस् किये गुरु अस् बना। अब आपने जिस प्रकार हरि में इकार को गुण ए किया उसी प्रकार उकार का गुण होकर गुरो अस् बना तथा एचोऽयवायावः इस सूत्र से ओकार के स्थान में अय् आदेश होकर गुरु अय् अस् बना तथा वर्ण सम्मेलन होकर गुरवस्। स् कार को रूत्व विसर्ग होकर गुरवः प्रयोग सिद्ध होता है। जिस प्रकार इकारन्त हरि का रूप चलता है उसी प्रकार उकारान्त गुरु का भी रूप चलता है।

हे हरे :- हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथम के एकवचन में सु प्रत्यय होकर हरि सु बना। सु में उकार की उपदेशेऽजनु नासिक इत् इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि स् बना। अब यहाँ एकवचन सम्बुद्धिः इस सूत्र से सम्बुद्धि संज्ञा हुई। सम्बुद्धि संज्ञा होने के बाद अगल सूत्र प्रवृत्त होता है

गुण विधायकं विधिसूत्रम्

ह्रस्वस्य गुणः ७।३।१०८॥

सम्बुद्धौ । हे हरे । हरिम् । हरी । हरीन् -सम्बुद्धि के परे रहते ह्रस्व को गुण होता है।

हरि स् यहाँ पर हे का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे हरि स् बना। यहाँ सम्बुद्धि का स् परे होने के कारण ह्रस्वान्त अंग, हरि के अन्त्य इकार को एकार गुण हो जाता है। हे हरे स् बना। अब एड.न्त हो जाने के

कारण एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इस सूत्र के सम्बुद्धि के स् का लोप हो जाने के कारण हे हरे ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है।

हे हरी - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर तथा हे का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे हरि औ बना। जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में हरी प्रयोग बना है उसी प्रकार यह समझना चाहिए।

हे हरयः - हरि शब्द की हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा बहुवचन विवक्षा में जस् प्रत्यय होकर तथा हे शब्द का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे हरि जस् बना। अब जिस प्रकार प्रथमा प्रथमा बहुवचन विवक्षा में हरयः प्रयोग बना है उसी प्रकार यहाँ भी हे हरयः ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है।

हरिम् - हरि शब्द की हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में अम् प्रत्यय हो कर हरि अम् बना। अमिपूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर हरिम् प्रयोग की सिद्धि होती है विशेष जानने के लिए 'रामम्' प्रयोग देखें।

हरी - हरि शब्द की हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औट् प्रत्यय होकर हरि औट् बना। तकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि औ बना। जिस प्रकार प्रथमा द्विवचन विवक्षा में हरी बना है उसी प्रकार यहाँ भी हरी प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार उकारान्त 'गुरू आदि प्रयोग सिद्ध हो हैं।

हरीन् - हरि शब्द की हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में शय् प्रत्यय होकर हरि शस् बना। लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा शकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि अस् बना। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इस सूत्र से पूर्वसवर्ण दीर्घ होकर हरीस् बना। इसके बाद तस्माच्छसो नः पुंसि इस सूत्र से पूर्वसवर्ण दीर्घ मे परे जो सकार उस सकार को नकार होकर हरीन् ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। विशेष रूप से देखना चाहते हो तो रामान् के प्रयोग को देख कर समझ सकते हैं।

धि संज्ञा विधायकं विधि सूत्रम्

शेषे ध्यसखि १।४।७।शेष इति स्पष्टार्थम्। ह्रस्वौ याविदुतौ तदन्तंसखिवर्जं धि संज्ञं स्यात्।

जिनकी नदी संज्ञा ना हुई हो, ऐसे जो ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार, तदन्त शब्दों की घिसंज्ञा होती है। परन्तु सखि शब्द की नहीं हाती है। शेष का अर्थ है बचा। इससे पहले के सूत्र डितिह्रस्वश्च से बचा हुआ जो ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार, उनकी घि संज्ञा होती है। कभि कभि ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार की भी नदी संज्ञा होती है डिति ह्रस्वश्च सूत्र से जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई है। ऐसे ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार उनकी घि संज्ञा होती है। किन्तु सूत्र में कहा गया है कि ह्रस्व इकारान्त होते हुए सखि शब्द की घि संज्ञा का प्रयोजन क्या है अगले सूत्र में बताया गया है।

नादेश विधायकं विधि सूत्रम्

आडोनाऽस्त्रियाम् ७।३।१२०॥

घेः परस्याडो ना स्यादस्त्रियाम् । आडिति टासंज्ञा । हरिणा । हरिभ्याम् । हरिभिः ।

घिः संज्ञक शब्द से परे आडू के स्थान पर 'ना' आदेश होता है, स्त्रीलिंग में नहीं। इस सूत्र में आडू से तृतीया एकवचन काटा लिया गया है, क्योंकि प्राचिन आचार्यों ने टा को ही आडू माना है।

हरिणा - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया एकवचन की विवक्षा में टा प्रत्यय का विधान किया गया। हरि टा बना। इसके बाद टू कार की चुटू सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि आ बना। अब ऐसी स्थिति में हरि शब्द की शेषो घ्यसखि सूत्र से घि संज्ञा हुई। घि संज्ञा होने के बाद आडो नाऽस्त्रियाम् सूत्र से टा सम्बन्धी आकार के स्थान पर ना आदेश होकर हरि ना बना। इसके बाद अटकुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि इस सूत्र के द्वारा न् कार के स्थान पर ण् कार आदेश होकर हरिणा की सिद्धि होती है।

हरिभ्याम् - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर हरिभ्याम् बना। यहाँ पर सुधि च सूत्र से दीर्घ नहीं हुआ क्यो कि हरि शब्द अदन्त नहीं है इदन्त है।

हरिभिः - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भिस् प्रत्यय होकर हरि भिस बना। अब यहाँ अतोभिस् ऐस् सूत्र के द्वारा भिस् के स्थान में ऐस् प्रत्यय नहीं हुआ। क्योंकि अदन्त अंग से परे भिस् नहीं हैं यहाँ तो अदन्त से परे भिस् है। स् कार को रूत्व विसर्ग होकर हरिभिः प्रयोग सिद्ध होता है।

हरयेः - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई।

प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डे प्रत्यय होकर हरि डे. बना। लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में कवर्ग का वर्ग जो डकार है उसकी इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि ए बना। अब यहाँ शेषो ध्यसखि इस सूत्र के द्वारा हरि शब्द की घि संज्ञा हुई। घि संज्ञा होने का फल क्या है उसके निर्णय के लिए अगला सूत्र प्रवृत्त होता है।

गुणविधायकं विधि सूत्रम्

घेर्ङिति ७।३।११॥

जहाँ पर डकार की इत्संज्ञा हुई हो उसे डित् कहते हैं। जैसे -डे, डिस, डस्, डि इन सबकी आदि में जो वर्ण है उनकी इत्संज्ञा हुई है। यदि ऐसा सुप् प्रत्यय पर में होतो इस सूत्र से घि संज्ञक जो वर्ण है उनको गुण होता है।

हरि ए इस स्थिति में डित् सुप् प्रत्यय पर में है डे सम्बन्धी 'ए' क्यों कि यहाँ पर डकार की इत्संज्ञा हुई है और पूर्व में है घि संज्ञक वर्ण हरि में र् में इ, इसलिये इकार के स्थान में गुण ए होकर हरे ए यह स्थिति बनी। अब यहाँ एचोऽयवायावः इस सूत्र से एकार के स्थान पर अय् आदेश होकर, हर् अस् ए बना तथा वर्ण सम्मेलन होकर हरये प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार जैसी आप ने हरि में इ के स्थान पर गुण इकार को एकार किया, इसी प्रकार गुरु में उकार के स्थान में गुण ओकार होकर गुरो ए बना। उसके बाद ओकार के स्थान में अवादेश होकर गुरवे प्रयोग सिद्ध होता है।

हरिभ्याम् - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर हरिभ्याम् बना। तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में जैसे हरिभ्याम् बना है उसी प्रकार यहाँ भी हरिभ्याम् प्रयोग बनता है।

हरिभ्यः - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर हरि भ्याम् बना। यहाँ पर बहुवचने झल्येत सूत्र से एत्व नहीं हुआ, क्योंकि यहा अदन्त अंग नहीं है यहाँ पर अदन्त अंग है। तथा सकार को रूत्व विसर्ग होकर हरिभ्यः ऐसा प्रयोग बनता है।

हरे - हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डसि प्रत्यय होकर हरि डसि बना। इसके बाद लशक्वतद्धितेः सूत्र से डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर हरि अस् बना तथा इकार की 'उपदेशेऽजनुनसिक इत्' इस सूत्र से इत् संज्ञा तथा 'तस्य लोपः' सूत्र से लोप

होकर हरि अस् बना। अब इसके बाद 'शेषोध्यसखि' इस सूत्र से धि संज्ञा होकर धेर्दिति इस सूत्र से इकार को गुण एकार होकर हरे अस् बना। इसके बाद एङः पदान्तादति इस सूत्र से पदान्त न होने से पूर्व रूप नहीं हो सकता। इसके बाद एचोऽयवायावः इस सूत्र से अय् आदेश प्राप्त होता है। उसको बाधकर अगला सूत्र प्रवृत्त होता है।

पूर्व रूप विधायकं विधि सूत्रम्

डसिडसोश्च ६।१।११०॥

एङो डसिडसोश्चित् पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। हरेः। हरेः। हर्योः। हर्योः। हरीणाम्।

एङ् से डसि और डस् सम्बन्धी ह्रस्व अकार पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है। हरे अस् में एङ (ए ओ) प्रत्याहार का वर्ण है हरे में र मे ए। उस ए के बाद डसि सम्बन्धी प्रत्यय पर में हे अस् अब इसके बाद डसिडसोश्च सूत्र से पूर्च मे एकार और पर मे अकार दोनों के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होकर हरेस् ऐसा बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर हरेः प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार उकारान्त गुरु शब्द से पंचमी एकवचन में डसि प्रत्यय अनुबन्ध लोप होकर अस् बचा गुरु अस् बना। गुण था पूर्वरूप एकादेश होकर गुरोस् स् कार को रूत्व विसर्ग होकर गुरोः प्रयोग बनता है।

हरिभ्याम्: हरि शब्द की अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर हरि भ्याम् ऐसा बना जिस प्रकार तृतीया विभक्ति एकवचन द्विवचन में हरिभ्याम् प्रयोग बनता है उसी प्रकार यहाँ भी हरिभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

हरिभ्यः हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पञ्चमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में हरिभ्यः प्रयोग बना है उसी प्रकार यहाँ भी हरिभ्यः प्रयोग बनता है।

हरेः -हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में डस् प्रत्यय होकर हरि डस् बना उसके बाद लशक्वतद्धिते सूत्र से डकार की इतसंज्ञा होकर हरिअस् बना अब जिस प्रकार पंचमी एकवचन विवक्षा में हरेः प्रयोग बना है। उसी प्रकार यहाँ भी हरेः प्रयोग सिद्ध होता है। जिस प्रकार हरेः प्रयोग बनता है उसी प्रकार उकारान्त का प्रयोग गुरोः भी बनता है।

हर्योः -हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई।

प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर हरि ओस् बना। अब यहाँ इकोयणचि सूत्र के द्वारा इक् (इ ड ऋ लृ) व्याहार को यण् (य् व् र् ल्) आदेश होते हैं अच् (अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ) प्रत्याहार का वर्ण में हो तो सहिता के विषय में। यहाँ पर इक् प्रत्याहार का वर्ण है हरि में र में 'इ' अच् प्रत्याहार का वर्ण है पर में ओस् का ओ। इसलिये इक् के स्थान में यण् आदेश हो कर ('इ' के स्थान में य् कार होकर) हर् य् ओस् बना। अब यहाँ र् कार को जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्योर्ध्वगमनम्- जैसे जल में तुम्बी (शुष्क लौकी) डालने पर उपर ही उपर आ जाती है उसी प्रकार देवनागरी लिपि में हल्वर्ण अर्थात् व्यञ्जन् वर्ण के परे रहते रेफ को सदा उर्ध्वगमन होता है। उसी प्रकार यहाँ भी र् कार को य् कार के उपर चले जाने के कारण तथा वर्ण सम्मेलन होकर हर्योस् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर हर्योः प्रयोग सिद्ध होता है। उसी प्रकार उकारान्त का रूप, गुरू शब्द से षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर गुरू ओस् बना। उसके बाद इकोयणचि से यण् उकार के स्थान में वकार होकर गुर्वोः प्रयोग सिद्ध होता है।

हरीणाम्:- हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में आम् प्रत्यय होकर हरि आम् बना। अब यहाँ ह्रस्वान्त अगं 'हरि' में 'इ' है और पर में आम् प्रत्यय होने के कारण ह्रस्वनधापो नुट् इस सूत्र से आम् प्रत्यय को नुट् का आगम होकर हरि नुट् आम् बना। अब यहाँ हलन्त्यम् सूत्र से टकार की इत्संज्ञा तथा उपदेशोऽजनुनासिक इत् सूत्र से उकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि न्आम् बनसा। तथा न् में आम् मिलकर हरि नाम् बना। अब यहाँ नामि सूत्र से अजन्त अगं इकार को दीर्घ होकर हरीनाम् बना। अट्कुप्वाड. नुम्ब्यवायेऽपि इस सूत्र नकार को णकार होकर हरीणाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

जिस प्रकार यहाँ इकारान्त रूप हरीणाम् बना है उसी प्रकार उकारान्त रूप गुरू शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में आम् प्रत्यय होकर गुरू आम् बना तथा नुट् का आम अनुबन्ध लोप होकर एवं सम्मेलन होकर गुरू नाम् बना तथा नामि से दीर्घ होकर, न् कार को ण् कार होकर गुरूणाम् ऐसा प्रयोग बनता है।

हरौः- हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डि प्रत्यय होकर हरि डि बना। डकार की लशक्वतद्धितेः सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर 'इ' बचा तब हरि में जो 'इ' है उसकी घि संज्ञा होकर धेडिति सूत्र से इकार को गुण प्राप्त होता है। इस पर इसके अपबाद में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।

औदादेशादिविधायकं विधि सूत्रम्

अच्चधेः ७।३।११८।।इदुद्भ्यामुत्तरस्य डेरौत् घेरच्चा हरौ हर्योः हरिषु। एवं कव्यादयः।।

ह्रस्व इकार तथा ह्रस्व उकार से परे जो डि उसको औत् आदेश होता है और घिसंज्ञक जो वर्ण उसको अत् आदेश है। ह्रस्व इकार तथा ह्रस्वडकार से परे जो सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रत्यय डि उस डि के स्थान में औत् (औ) आदेश होता है। हरि इ यहाँ पर ह्रस्व इकार है हरि में र में 'इ' उस इ से परे सप्तमी विभक्ति पर में है डि सम्बन्धी 'इ' उस इ के सन्निधान में औ आदेश होकर हरि औ, तथा पुनः इसी सूत्र से घिसंज्ञक जो वर्ण हरि में र में इ है उस 'इ' के स्थान में अत् (अकार) होकर हर् औ बना। इस अवस्था में वृद्धिरेचि सूत्र से वृद्धि एकादेश होकर हरौ प्रयोग सिद्ध होता है। जिस प्रकार आप ने इकारान्त का रूप हरौ बनाया। उसी प्रकार ह्रस्व डकारान्त रूप गुरौ बनता है। यथा गुरू शब्द से सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डि प्रत्यय होकर गुरू डि बना। डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर गुरू इ। उसके बाद अच्चधेः सूत्र से इकार के स्थान में औ तथा उकार के स्थान में अकार होकर गुरू औ बना। वृद्धिरेचिसूत्र से अकार औकार को वृद्धि रूप एकादेश होकर गुरौ प्रयोग बनता है।

हर्योः हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओम् प्रत्यय होकर हरिओम् बना। जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में हर्योः प्रयोग बना है उसी प्रकार हर्योः प्रयोग यहाँ भी बनता है।

हरिषुः- हरि शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में सुप् प्रत्यय होकर हरि सुप् बना। प् कार की हलन्त्यम् सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हरि सु बना। आदेशप्रत्ययोः सूत्र के द्वारा इण् (इ,उ,ऋ,लृ,ए, ओ,ऐ,औ,ह्,य्,व्,र्,ल्) प्रत्याहार और कवर्ग से परे जो स् कार हे उसको मूर्धन्यादेश (ष) होता है। यहाँ पर इण् प्रत्याहार का वर्ण है हरि मे र में 'इ' उस इण् परे स् कार को मूर्धन्यादेश षकार आदेश होकर हरिषु प्रयोग सिद्ध होता है। आप ने हरि शब्द के सम्बोधन के रूपों के साथ इक्कीस प्रत्ययों का रूप सिद्ध कर लिया है। इनको तालिका के माध्यम से देख सकते हैं।

हरि (विष्णु) शब्द के रूप

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	हरिः	हरी	हरयः

द्वितीया	हरिम्	हरी	हरीन्
तृतीया	हरिणा	हरिभ्याम्	हरिभि
चतुर्थी	हरये	हरिभ्याम्	हरिभ्यः
पंचमी	हरेः	हरिभ्याम्	हरिभ्यः
षष्ठी	हरेः	हर्यो	हरीणाम्
सप्तमी	हरौ	हर्यो	हरिषु
सम्बोधन	हे हरे	हे हरी	हे हरयः

हरि शब्द के समान् ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्ग के सारे शब्दों का रूप बनते हैं कुछ ही ऐसे शब्द है जो हरि शब्द के समान नहीं चलते है, जैसे पति सखि आदि। बाकी जितने पुल्लिङ्ग ह्रस्व इकारान्त है उन सबका रूप हरि के समान चलते हैं। जैसे रवि कवि अरि कपि अतिथि , निधि, पणि, यति , समाधि, विधि, रमापति, मुनि , ऋषि, ध्वनि आदि का रूप हरि के समान चलते हैं।

उकारान्त गुरु शब्द

जिस प्रकार आपने इकारान्त पुल्लिङ्गं हरि शब्द क रूप किया है उसी प्रकार उकारान्त गुरु,शम्भु आदि का रूप सिद्ध होता है इक्कीसों प्रत्ययों का रूप सामान्य नियम से बताया जा रहा है।

गुरु - गुरु शब्द से प्रथमा एकवचन विवक्षा मे सु प्रत्यय होकर गुरु सु उकार की इत्संज्ञा तथा लोप होकर गुरु स् स् कार को रुत्व विसर्ग होकर गुरुः प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरू - गुरु शब्द से प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षा मे औ प्रत्यय होकर गुरु औ बना। जिस प्रकार हरि शब्द को पूर्व सवर्ण दीर्घ 'ई' होकर हरी बना हे उसी प्रकार यहाँ भी उकार औकार के स्थान मे पूर्व सवर्ण दीर्घ ऊकार होकर गुरु प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुवः -गुरु शब्द से प्रथमा बहुवचन विवक्षा मे जस् प्रत्यय होकर गुरु जस् बना। जकार की इत्संज्ञा तथा लोप होकर गुरु अस् बना। जिस प्रकार हरि शब्द के इकार की गुण एकार तथा इय् आदेश होकर हरयः बना है। उसी प्रकार गुरु में जो उकार है उस को गुण ओकार तथा अय् आदेश होकर गुरुवस्। स् कार को रुत्व विसर्ग होकर गुरुवः प्रयोग बनता है।

गुरुम् - गुरु शब्द से द्वितीय एकवचन विवक्षा मे अम् प्रत्यय होकर तथा पूर्वरूप होकर गुरुम् प्रयोग सिद्ध होता है ।

गुरू - जिस प्रकार प्रथमा द्विवचन विवक्षा में गुरु बना है उसी प्रकार यहाँ भी गुरु रूप सिद्ध होता है।

गुरून् - गुरु शब्द के द्वितीय बहुवचन विवक्षा में शस् प्रत्यय होकर गुरु शस् तथा शकार की इत्संज्ञा तथा लोप होकर गुरु अस् बना। जिस प्रकार हरि शब्द के इकार के सन्निधान में दीर्घ ईकार तथा स् कार के स्थान में न् कार होकर हरीन् बना है। उसी प्रकार यहाँ भी उकार को पूर्वसवर्ण दीर्घ ऊकार होकर गुरुम् बना। सकार के स्थान में नकार होकर गुरून् प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुणा - गुरु शब्द से तृतीया विभक्ति एकवचन की विवक्षा में टा प्रत्यय होकर गुरु टा बना। जिस प्रकार हरि शब्द से टा प्रत्यय तथा टा के स्थान में ना तथा णकार होकर हरिणा बना है उसी प्रकार यहाँ भी ना होकर गुरुना तथा नकार को णकार होकर गुरुणा प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुभ्याम् - गुरु शब्द से तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर गुरुभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुभिः - गुरु शब्द से तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भिस् प्रत्यय होकर गुरुभिस् बना, तथा सकार को रूत्व विसर्ग होकर गुरुभिः प्रयोग बनता है।

गुरुवे - गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डे प्रत्यय होकर गुरु.डे बना। डकार की इत्संज्ञा तथा लोप होकर गुरु ए बना। अब यहाँ कार की धिसंज्ञा मका घेकडिति से उकार को गुण ओकर होकर गुरो ए तथा एचोऽयवायावः इस सूत्र से 'ओ' के स्थान में अच् आदेश होकर गुरुवे प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुभ्याम् - गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर गुरुभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुभ्यः - गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर गुरुभ्याम् बना, तथा सकार को रूत्व विसर्ग होकर गुरुभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरोः - गुरु शब्द से पञ्चमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डसि प्रत्यय होकर गुरू डसि बना इकार डकार की इत्संज्ञा तथा लोप होकर अस् बना। धिसंज्ञा तथा धेडिति सूत्र से पूर्वरूप एकादेश होकर गुरोस् बना तथा सकार को रूत्व विसर्ग होकर गुरोः प्रयोग बनता है।

गुरुभ्याम् - गुरु शब्द के पञ्चमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर गुरुभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरोः - गुरु शब्द के षष्ठी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डस प्रत्यय होकर गुरू डस बना। तथा डकार

की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपःसे लोप होकर गुरु अस् बना। जिस प्रकार पच्चमी पच्चमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा गुरोः प्रयोग बनता है उसी प्रकार यहा भी बनता है।

गुर्वो - गुरु शब्द के षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा मे ओस् प्रत्यय होकर गुरू ओस् बना। अब यहाँ इकोयणचि सूत्र से उकार के स्थान में यण् होकर गूर् व् ओस् बना, तथा वर्ण सम्मेलन एवं सकार को रूत्व विसर्ग होकर गुर्वोः प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुणाम् - गुरु शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन विवक्षा मे आस् प्रत्यय होकर गुरूआस् बना। एवं ह्रस्वनाधारों नुट् इस सूत्र से नुट् प्रत्यय तथा अनुबन्ध लोप होकर गुरु न आम् तथा वर्ण सम्मेलन होकर गुरू नाम् बना। नामि च सूत्र से उकार को दीर्घ होकर गुरुणाम् बना। तथा अट् कुप्वाडनुम्बयवायेऽपि सूत्र से नकार को णकार होकर गुरुणाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरौ - गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा मे डि प्रत्यय होकर गुरू डि बना। तथा डकार की लशक्वतद्धिते सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लापः से लोप होरि गुरु इ बना। अब यहाँ अच्च घेः सूत्र से डि सम्बन्धी 'इ' के स्थान में औ तथा उकार क स्थान में अकार हेकर गुर औ बना। वृद्धिरेचि सूत्र से वृद्धि होकर गुरौ प्रयोग सिद्ध होता है।

गुर्वोः - गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर गुरूओस् बना। जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में गुर्वोः बना है उसी प्रकार यहाँ गुर्वोः प्रयोग सिद्ध होता है।

गुरुषुः - गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा मे सुप् प्रत्यय होकर गुरु सुप बना। पकार की हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तथा तस्य लापः से लोप होरि गुरु सु बना। अब आदेश प्रत्यय प्रत्ययोः सूत्र से सकार के स्थान में मूर्धन्य षकार आदेश होकर गुरुषु प्रयोग सिद्ध होता है। अब गुरु शब्द क रुपों को तालिका के माध्यम से देख सके है।

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	गुरु	गुरू	गुरुवः
द्वितीया	गुरुम्	गुरू	गुरुन्
तृतीया	गुरुणा	गुरुभ्याम्	गुरुभि
चतुर्थी	गुरुवे	गुरुभ्याम्	गुरुभ्यः
पंचमी	गुरोः	गुरुभ्याम्	गुरुभ्यः

षष्ठी	गुरोः	गुर्वोः	गुरुणाम्
सप्तमी	गुरौः	गुर्वोः	गुरुषु
सम्बोधन	हे गुरोः	हे गुरु	हे गुरुवः

गुरु शब्द के सामान्य नियम हरि के समान होता है विशेष उकारान्त पुल्लिङ्ग के सारे रूप गुरु शब्द के सारे रूपों को सिद्ध कर लिया। ह्रस्व उकारान्त पुल्लिङ्ग के समान चलते हैं। यथा- पशु, शम्भु, शत्रु, इन्दु, आदि के रूप गुरु के समान चलते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. हरि शब्द के कितने अर्थ होते हैं?
2. हरि शब्द के द्वितीया विभक्ति द्विवचन में क्या रूप होता है?
3. हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है?
4. जसि च कैसा सूत्र है?
5. ह्रस्वान्त किसे कहते हैं?
6. ह्रस्वस्य गुणः क्या परे रहते ह्रस्व को गुण करता है?
7. हरि शब्द के बहुवचन में क्या रूप होता है?

रिक्त स्थानों को भरिये-

1. जस् परे होने पर को गुण होता है।
2. डसिडसोइच विधायक विधि सूत्र है।
3. हरि शब्द के पच्चमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है।
4. गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है।
5. गुर्वोः सप्तमी विभक्ति वचन का रूप है।

बहुविकल्पात्मक प्रश्न

1. जसि चं सूत्र से ह्रस्वान्त अगं

(क) ए	(ख) ओ
(ग) ऐ	(घ) औ
2. शेषोध्यसखि सूत्र करता है -

(क) टि संज्ञा	(ख) घि संज्ञा
(ग) गुण संज्ञा	(घ) वृद्धि संज्ञा
3. आडोनाऽस्त्रियाम् सूत्र से होता है -

(क) टा के स्थान में ना	(ख) डसि के स्थान में आत्
(ग) डस के स्थान में स्य	(घ) डि के स्थान में आम्
4. हरि शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप होता है -

(क) हरिभिः	(ख) हरये
(ग) हरौ	(घ) हरेः
5. घेर्दित कैसा सूत्र है -

(क) वृद्धि विधायक	(ख) गुण विधायक
(ग) दीर्घ विधायक	(घ) पररूप विधायक

4.4 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपा जान चुके हैं कि ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्ग हरि शब्द का रूप तथा ह्रस्व उकारान्त पुल्लिङ्गं हरि शब्द कस रूप किस प्रकार सिद्ध होते हैं। इस सगके बारे मे आप भली-भाति जान चुके है। इस इकाई में सुबन्त शब्दों के पुल्लिङ्गं, प्रकरण अजन्त पुल्लिङ्गं में केवल हरि शब्द तथा गुरु शब्दों का रूप, सूत्रो सहित व्याख्या किया गया। हरि शब्द तथा गुरु शब्द दोनों में

अन्तर इतना ही है कि हरि में जो इकार है इस इकार का गुण 'ए' होता है। तथा गुरू में जो उकार है इस उकार का गुण 'ओ' होता है। अन्य कोई अन्तर नहीं है। इन सबकी व्याख्या इस इकाई में की गयी है।

4.5 शब्दावली

हरि शब्द के समान ही यहाँ सभी शब्द तथा उनका अर्थ दे रहे हैं।

शब्द	अर्थ
सप्ति	घोड़ा
सन्धि	मेल
सनाभि	जात भाई
शीतरश्मि	चन्द्र
शकुनि	पक्षी
ब्रीहि	चावल
विधि	ब्रह्मा
वारिराशि	समुद्र
रमापति	विष्णु
सेनापति	सेनानायक
समाधि	समाधि
सुमति	श्रेष्ठ बुद्धि वाला
सुरभि	बसन्त ऋतु
सभापति	सभा का प्रधान
कपि	वानर
अलि	भ्रमर
अवधि	सीमा

चक्रपाणि	विष्णुच
चुडामणि	शिरोरत्न
तराणि	सूर्य
यति	सन्या सी
मुनि	मुनि
मृगपति	शेर
मणि	मणि
मौलि	सिर
मारूति	हनुमान
भूपति	राजा
भारवि	भारवि एक कवि
पाणि	हाथ
प्रणिधि	दूत
पशुपति	शिव
पयोराशि	समुद्र
पावि	वज्र
परिधि	घेरा
पयोधि	समुद्र
अतिथि	मेहमान
कवि	कविताकार
उर्मि	मन्त्रद्रष्टा
निशापति	चन्द्र
गिरि	पहाड़

कलानिधि	चन्द्रमा
उषापति	सूर्य
वालधि	पूछं
प्रजापति	ब्रहमा
ग्रन्थि	गाठ
नृपति	राजा
दिनमणि	सूर्य
दुन्दुभि	नगारा
इषुधि	तरकस
कृमि	कीड़ा
कुक्षि	पेट
अद्रि	पहाड़
अराति	शत्रु
असि	तलवार

ह्रस्व उकारान्त पुल्लिङ्गं के शब्द दिये जा रहे हैं जिसका रूप गुरू के समान चलता है।

शब्द	अर्थ
अनधु	कुँआ
असु	प्राण
अंशु	किरण
आखु	चूहा
इक्षु	गन्ना
इन्दु	चन्द्रमा
इषु	वाणा

ऋजु	सरल
ऋतु	मौसम
टोत	बिल्ला
कारु	कारीगर
कृशानु	अग्नि
ऋतु	यज्ञ
क्षवथ	खांसी
गेमायु	गीदड़
चण्डांशु	सूर्य
चरिष्जु	चालाक
चरु	हव्यान्न
जन्तु	प्राणी
जायु	औषध
तनु	पतला
तन्तु	तागा
तरु	वृक्ष
तितड	चलनी
तुहिनांशु	चन्द्र
दस्यु	डाकू
देवगुरु	वृहस्पति
भानू	सूर्य

4.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1; 12 2.हरी 3.अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् 4.गुण विधायक
5.ह्रस्व हो जिसके अन्त में 6.हरयः

रिक्त स्थान-1.ह्रस्वान्त अंग 2.पूर्वरूप 3.हरेः 4.गुरौ 5.द्वि

बहुविकल्पीय-

1.क 2.ख 3.क 4.ग 5.ख

4.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

श्री श्री सुरेन्द्र शास्त्री - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री लरदराजाचार्य विरचित)चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 37/117 गोपाल मन्दिर लेन पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001

पं.गोपाल दत्त पाण्डेय - सिद्धान्त कौमुदी (भट्टोजि दीक्षित विरचित)

चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन 37/117 गोपाल मन्दिर लेन पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001

4.8 उपयोगी पुस्तकेः -

श्री सुरेन्द्र कुशवाहा - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री वरदराजाचार्य विरचित) भारतीय विधा प्रकाशन धूपचण्डी जगत गंज

4.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1 - हरि शब्द के कितने अर्थ होते हैं उसे ज्ञान कीजिये।

2.- हरिणा एवं हरौ इन दोनों प्रयागो को सूत्र सहित व्याख्या कीजिये।

इकाई 5 . अजन्त पुल्लिङ्ग पति एवं पितृ शब्द

इकाई की रूप रेखा

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 लघुसिद्धान्त कौमुदी अजन्त पुलिङ्ग सूत्रो की व्याख्या सहित पति एवं पितृ शब्द की रूप सिद्धि
- 5.4 सारांश
- 5.5 शब्दावली
- 5.6 अभ्यासार्थ प्रश्नों के उत्तर
- 5.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 5.8 उपयोगी पुस्तकें
- 5.9 निबन्धात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

व्याकरण शास्त्र से सम्बन्धित यह पाँचवीं इकाई है इससे पहले के इकाईयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि व्याकरण शास्त्र क्या है? इस व्याकरण शास्त्र के षड्लिंग सुबन्त क्या है? उसकी रचना कैसे होती है?

व्याकरण शास्त्र के महत्व को जानते हुए षड्लिंग सुबन्त प्रकरण में सुबन्त के विषय में स्पष्ट रूप से विस्तृत चर्चा की गयी है कि सुबन्त क्यों पढ़ा - लिखा जाता है प्रस्तुत इकाई में विस्तार से उनके विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

इस इकाई में पति एवं पितृ शब्द की सिद्धि की गयी है। पति एवं पितृ शब्द के सिद्धि के बाद उनके महत्व के सम्यक् रूप समझते हुए उनका विश्लेषण कर सकेंगे।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप पाणिनि रचित व्याकरण शास्त्र में महत्वपूर्ण एवं प्रेरणापद सूत्रों का अध्ययन करेंगे -

- अजन्त पुल्लिङ्ग पति शब्द के रूपों के आप समझ सकेंगे
- पति शब्द के तृतीया विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- पति शब्द के पंचमी विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- पति एवं भूपति में क्या अन्तर है इसके बारे में समझ सकेंगे
- अजन्त पुल्लिङ्ग, पितृ शब्द के रूपों के आप समझ सकेंगे
- पितृ शब्द के प्रथमा विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे

5.3 अजन्त पुलिङ्ग पति एवं पितृ शब्द की रूप सिद्धि

पति: - पति शब्द की 'अर्थ वदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से प्रातिपदिक हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षा में सु प्रत्यय होकर पति सु बना। सु में उकार की उपदेशेऽजनुासिक इत् इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोप से लोप होकर पति स् बना। एकार को रुत्व तथा विसर्ग होकर पतिः प्रयोग बनता है।

पती - पती शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर पति औ बना। अब यहाँ प्रथमयोः पूर्व सवर्गः इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीया विभक्ति सम्बन्धी अच् प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। यह सूत्र कहता है। अक् प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में है पति में 'इ' तथा अच् प्रत्याहार का वर्ण है पर में है औकार पूर्व का सवर्णी औ के स्थान में पूर्व का सवर्ण दीर्घ 'ई' एकादेश होकर पत् ई, तथा वर्ण सम्मेलन होकर पती प्रयोग सिद्ध होता है।

पतयः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति बहुवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर पति जस् बना। चुट् सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में चवर्ग का वर्ण जकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पतिऽआ बना। जसिच सूत्र के द्वाराह स्वानत अगं पति में ति में इ कों गुण होता है क्यों कि जस् सम्बन्धी अस् प्रत्यय पर में हे पते अस् बना। एचोऽयवायावः सूत्र के द्वारा पते में ए के स्थान पर अय् आदेश होकर पत् अय् बना। वर्ण सम्मेलन होकर पतयस् तथा स् कार को रूत्व विसर्ग होकर पतयः प्रयोग सिद्ध होता है। पतयः प्रयोग हरयः के समान होता है। विशेष ज्ञान के लिये हरयः प्रयोग देख सकते है।

हे पतेः- पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथम विभक्ति एकवचन विवक्षा में सु प्रत्यय होकर पति सु बना। सु में कार की उपदेशेऽजनुनासिक इत इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति स् बना। एकवचनं सम्बुद्धिः सूत्र से सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति एकवचन सम्बुद्धि संज्ञा हुई। सम्बुद्धि संज्ञा होने के बाद 'ह्रस्वान्त गुणः' सूत्र के द्वारा सम्बुद्धि का सु प्रत्ययपर में होता ह्रस्वान्त अगं को गुण होता है। यहाँ ह्रस्वान्त अगं है पति में ति में 'इ' सम्बोधन का सु प्रत्यय पर मे है स् इसलिये ह्रस्वान्त अगं इ को गुण 'ए' होकर पते स् बना। उसके बाद एङ्ह्रस्वात सम्बुद्धेः इस सूत्र के द्वारा एङ प्रत्याहार का वर्ण ए से परे जो सकार है उसका लोप होकर, तथा हे का पूर्व प्रयोग होकर हे पते रूप सिद्ध होता है।

हे पती - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथम विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर तथा हे का पूर्व प्रयोग होकर हे पति औ बना। जिस प्रकार प्रथम विभक्ति द्विवचन विवक्षा में पती प्रयोग बनता है उसी प्रकार यहाँ भी हे पती ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है।

हे पतयः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथम विभक्ति बहुवचन विवक्षा में जस् प्रत्यय होकर पति जस् बना। तथा हे का पूर्व प्रयोग होकर हे पति जस् बना। जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति बहुवचन विवक्षा में पतयः

प्रयोग सिद्ध होता है उसी प्रकार यहाँ भी हे पतयः प्रयोग सिद्ध होता है हे हरयः एवं हे पतयः दोनो रूपों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। विशेष ज्ञान के लिये हे हरयः प्रयोग को देख सकते हैं।

पतिम् - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में अम् प्रत्यय होकर पति अम् बना। अमि पूर्वः इस सूत्र के द्वारा पूर्वरूप एकादेश होकर पतिम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पती- पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र से प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औट् प्रत्यय होकर पति औट् बना। टकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति औ बना। जिस प्रकार द्वितीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में पती शब्द बना है। उसी प्रकार यहाँ भी पती शब्द बनता है।

पतीनः- पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में शस् प्रत्यय होकर पति शस् बना। शकार की लशक्वद्धिते सूत्रके द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति अस् बना। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः इस सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर पतीस् बना। इसके बाद 'तस्माच्छसो नः पुंसि' इस सूत्र के द्वारा पूर्वसवर्ण दीर्घ से परे जो सकार उसको नकार होकर पतीन् प्रयोग सिद्ध होता है। विशेष ज्ञान के लिए रामान् के प्रयोग को देख सकते हैं।

पत्या - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में टा प्रत्यय होकर पति टा बना। टकार की चुटू सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति आ बना। अब यहाँ पति शब्द ह्रस्व इकारात् होने के कारण शेषोध्यसखि सूत्र के द्वारा धिसंज्ञा तथा टा सम्बन्धी आ के स्थान पर आडोनाऽस्त्रियाम् सूत्र के द्वारा 'ना' आदेश होकर पतिना ऐसा प्रयोग बनना चाहिए। किन्तु धिसंज्ञा होने के पहले अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।

धिसंज्ञा विधायकं नियमसूत्रम्

पतिः समास एव १।४।८॥

धि संज्ञः स्यात् । पत्या । पत्ये । पत्युः २। पत्यौ । शेषं हरिवत् । समासे तु - भूपतये ॥ पति शब्द की समास में धि संज्ञा होती है। समास से भिन्न स्थल में धि संज्ञा नहीं होती है। समास असमास दोनों स्थलों में पति शब्द की शेषाध्यासखि सूत्र से धिसंज्ञा प्राप्त है किन्तु 'पतिः समास एव' इस सूत्र से जहाँ पर समास होगा वही पर पति शब्द की धि संज्ञा होगी। जहाँ पर समास नहीं होगा वहाँ पर

पतिशब्द की धि संज्ञा होगा। धि संज्ञा का प्रयोजन क्या है? इसके बारे में बताते हैं। धिसंज्ञा के यहाँतीन प्रयोजन हैं १ - आडो नाऽस्त्रियाम् सूत्र से टा के स्थान पर ना आदेश। २ - डे, डसि, डस, में घेर्ङिति सूत्र के द्वारा गुण। ३ - अच्च घेः सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति ङि के स्थान में औकार तथा धि को अकार आदेश होता है। जहाँपर समास नहीं होगा वहाँपर पति शब्द की धि संज्ञा नहीं होगी। जब धि संज्ञा नहीं होगी तो धि संज्ञक ये तीन कार्य नहीं होंगे तो यणादि कार्य होंगे।

पति आ यहाँ पर पति शब्द समास न होने से धि संज्ञा नहीं होगी। धिसंज्ञा न होने से टा सम्बन्धी आ के स्थान पर 'ना' आदेश नहीं होगा तो इको यणचि सूत्र से घण् आदेश होकर प त् य् आ बना तथा वर्ण सम्मेलन होकर पत्या प्रयोग सिद्ध होता है।

पतिभ्याम् - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पतिभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पतिभिः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भिस् प्रत्यय होकर पति भिस् बना। वर्ण सम्मेलन होर पति भिस् तथा स् कार को रुत्व विसर्ग होकर पतिभिः प्रयोग सिद्ध होता है।

पत्ये - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षा में 'डे' प्रत्यय होकर पति डे बना। लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति ए बना। अब यहाँ शेषो ध्यसखि सूत्र से धिसंज्ञा तथा घेर्ङिति सूत्र से गुण प्राप्त है किन्तु पतिः समास एवं सूत्र के द्वारा धि संज्ञा का निषेध होकर, पुनः इकोयणचि सूत्र के द्वारा यण होकर पत्य् ए बना। वर्ण सम्मेलन होकर पत्ये प्रयोग सिद्ध होता है।

पतिभ्याम् - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पतिभ्याम् बना। वर्ण सम्मेलन होकर पतिभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पतिभ्यः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय होकर पति भ्यस् बना। वर्ण सम्मेलन तथा सकार को रुत्व विसर्ग होकर पतिभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।

पत्युः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई।

प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पति डसि बना। लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति असि बना। उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र के द्वारा इकार की प्रयोग सिद्ध होता है। इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति अस् बना। इकोयणचि सूत्र से यण् होकर पतय् अस् बना। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है

उत्वविधायकं विधि सूत्रम् - खत्यात्परस्य ६।१।१०८॥

खि- ति' शब्दाभ्यां 'खि - ती' शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य डसि - डसोरत उः। सख्युः ॥

जिनके स्थान पर यण् किया गया हो ऐसे ह्रस्व इकारान्त रिच शब्द ति शब्द अथवा दीर्घ ईकारान्त रवी शब्द या ती शब्द से परे डसि और डस् सम्बन्धी जो अस् का अकार उस अकार को उकार होता है। पतय् अस् यहाँ पर वर्ण सम्मेलन होकर 'पत्य अस् बना। यहाँ यणादेश कियाहुआ 'ति' शब्द है? अतः ति शब्द से परे डसि सम्बन्धी अस् का जो अकार है उस अकार को उकार होकर पत्य् उस् बना। अब वर्ण सम्मेलन होकर पत्युस् बना। सकार को रुत्व विसर्ग होकर पत्युः प्रयोग सिद्ध होता है।

पतिभ्याम् - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पति भ्याम् बना। वर्ण सम्मेलन होकर पतिभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पतिभ्यः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय होकर पति \$ भ्यस् बना। वर्ण सम्मेलन होकर पतिभ्यस् बना। सकार को रुत्व विसर्ग होकर पतिभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।

पत्युः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति वचन विवक्षा में डस् प्रत्यय होकर पति डस् बना। जिस प्रकार पंचमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में पत्यु प्रयोग सिद्ध होता है उसी प्रकार यहाँ भी पत्युः प्रयोग सिद्ध होता है।

पत्योः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर पतिओस् बना।

इको यणचि इस सूत्र से यणादेश होकर पतय् ओस् तथा वर्ण सम्मेलन होकर पत्योस् बना। सकार को रुत्व विसर्ग होकर पत्योः प्रयोग सिद्ध होता है।

पतीनाम् - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में आम् प्रत्यय होकर पति आम् बना। अब यहाँ ह्रस्वान्त अगं पति में 'इ' है और पर में आम् प्रत्यय होने के कारण ह्रस्वनद्यापोनुट् इस सूत्र के द्वारा नुट् का आगम होकर पति नुट् आम् बना। टकार की इत्संज्ञा हलन्त्यम् से तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति नु आम् बना। उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति न् आम् एवं वर्ण सम्मेलन होकर पति नाम् बना। 'नामि' सूत्र के द्वारा अजन्त अगं इकार को दीर्घ होकर पतीनाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पत्यौः - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डि प्रत्यय होकर पति डि बना। डकार की लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति इ बना। अब यहाँ घिसंज्ञा न होने से अच्चधेः सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है इसको बाधने के लिए अगला सूत्र प्रवृत्त हो रहा है-

औदादेश विधायकं विधिसूत्रम् -

औत् ७।३।११८॥

इदुद्वयां परस्य डेरौत् स्यात्। पत्यौ शेषं हरिवत्॥

ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार से परे 'डि' को 'औ' आदेश होता है। पति \$ इ यहाँ पर डि सम्बन्धी जो इकार है उसको औ आदेश होकर पति \$ औ बना। इको यणचि सूत्र के द्वारा औ अवृ प्रत्याहार परे होसने के कारण पति मे तिमैं जो इ है उसको यण् 'य' आदेश हो जाने के कारण प त् य औ बना। वर्ण सम्मेलन हो जाने के कारण पत्यौ प्रयोग सिद्ध होता है।

पत्यौ - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर पति ओस् बना। जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में पत्यौ प्रयोग बना है उसी प्रकार यहाँ भी पत्यौ प्रयोग सिद्ध होता है।

पतिषु - पति शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में सुप् प्रत्यय होकर पति सुप् बना। प् कार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति सु बना। आदेश प्रत्ययोः सूत्र के द्वारा सकार के स्थान में मूर्धन्य ष् कार होकर पतिषु प्रयोग सिद्ध होता है। सखि (मित्र) शब्द के रूप पति के समान है।

आपने सम्बोधन के साथ प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्तितक के इक्कीस प्रत्ययों का रूप सिद्ध कर लिया है। इनको तालिका के माध्यम से देख सकते हैं।

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	पतिः	पती	पतयः
द्वितीया	पतिम्	पती	पतीन्
तृतीया	पत्या	पतिभ्याम्	पतिभि
चतुर्थी	पत्ये	पतिभ्याम्	पतिभ्यः
पंचमी	पत्युः	पतिभ्याम्	पतिभ्यः
षष्ठी	पत्युः	पत्योः	पतीनाम्
सप्तमी	पत्यौः	पत्योः	पतिषु
सम्बोधन	हे पते	हे पती	हे पतयः

समास में 'पति' शब्द की धिसंज्ञा होती है। उसका रूप 'हरि' शब्द के समान चलता है। जैसे 'भूपति' (पृथ्वी का पति = राजा) में भुवः पतिः = भूपतिः। इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसकी रूपमाला यथा -

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	भूपतिः	भूपती	भूपतयः
द्वितीया	भूपतिम्	भूपती	भूपतयः
तृतीया	भूपतिना	भूपतिभ्याम्	भूपतीन्
चतुर्थी	भूपतये	भूपतिभ्याम्	भूपतिभि
पंचमी	भूपतेः	भूपतिभ्याम्	भूपतिभ्यः
षष्ठी	भूपतेः	भूपत्योः	भूपतिभ्यः
सप्तमी	भूपतौ	भूपत्योः	भूपतिनाम्
सम्बोधन	हे भूपते	हे भूपती	भूपतिषु

इस प्रकार - नरपति, नृपति, मृगपति, गणपति, गृहपति, पृथ्वीपति, क्षितिपति, देशपति, पशुपति, सेनापति आदि शब्दों का रूप जानना चाहिए।

ऋकारान्त पुल्लिङ्गं पितृ(पिता) शब्द

पिता - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षा में सु प्रत्यय होकर पितृ सु बना। उपदेशोऽजनुनासिक इत् इस सूत्र के द्वारा सु में उकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पितृ स् बना।

सर्वनामस्थानसंज्ञाविधायकं संज्ञासूत्रम्- सुडनपुंसकस्य १।१।४३॥

स्वादिपंचवयनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य।

सु आदि (सु, औ, जस्, अम्, औट्) पाँच वचनों की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है किन्तु नपुंसकलिङ्ग में नहीं होती हैं सर्वनामस्थान संज्ञा।

पितृ स् यहा पर सु सम्बन्धी स् हैं सकी सर्वनामस्थान संज्ञा हुई। सर्वनामस्थान संज्ञा का फल आगे बताया जायेगा।

अनडादंशविधायकं विधिसूत्रम्- ऋदुशनस्पुरुदंशोऽनेहसांच ७।१।९४॥ ऋदन्तानामुशनसादीनां चानङ् स्यादसम्बुद्धौ सौ ।

ऋत् अर्थात् ह्रस्व ऋकारान्त, उशनस्, पुरुदंसस्, और अनेहस्, शब्द रूप अगं के स्थान पर अनङ् आदेश होता है सम्बुद्धि से भिन्न सु प्रत्यय के परे रहने पर। इस आदेश में डकार की हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तस्य लोपः से लोप तथा नकारोत्तवर्ती अकार की उपदेशोऽजनुनासिक इत् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप हो जायेगा। डकार की इत्संज्ञा होने के कारण यह आदेश डित् कहा जायेगा। अतः अनेक अल्वर्ण होने के कारण यह अनेकाल् होने पर भी डिच्च सूत्र के अनुसार अन्त्य वर्ण 'ऋ' के स्थान पर ही अनङ् आदेश होता है। पितृ स् यहाँ पर हमें जो ऋकार है उस ऋकार के स्थान में अनङ् आदेश होता है क्यों कि सम्बुद्धि से भिन्न स् पर में है पितृ अनङ् स् बना। डकार अकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होता है। पितृ अन् स्, वर्ण सम्मेलन होकर पितन् स् बना।

उपधासंज्ञा विधायकं संज्ञासूत्रम् -

अलोडन्त्यात्पूर्व उपधा १।१।६५॥

अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उनधासंज्ञः स्यात्।

वर्णों के समुदाय में जो अन्तिम वर्ण उससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है।

वर्णों के किसी भी समुदाय में जो अन्त्य वर्ण हो उससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राम शब्द है उस राम के अन्त्य वर्ण है म मे अ, उस 'अ' से पूर्व वर्ण हुआ मकार उसकी उपधासंज्ञा हुई किन्तु उपधा संज्ञा करने का कोई फल नहीं है। अतः इत्संज्ञा भी नहीं की जाती। क्योंकि 'या या संज्ञा सा सा फलवती' जो भी संज्ञा की जाती है उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है संज्ञा करने के बाद भी कोई प्रयोजन सिद्ध न हो रहा हो तो संज्ञा करना ही व्यर्थ है।

यहाँ पितन् स् में अन्त्य वर्ण है न् उस न् से पूर्व वर्ण है। त में अ, उस अकार की उपधा संज्ञा हुई। इसका प्रयोजन आगे बताया जायेगा।

दीर्घ विधायक विधि सूत्रम् -सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६।४।८॥

नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे।

सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्यय के परे रहने पर नकारान्त उपधासंज्ञक वर्ण को दीर्घ होता है।

पितन् स् में यहाँ सर्वनामस्थान संज्ञक वर्ण सु सम्बन्धी स् पर में है। तथा नान्त का उपधा हुआ पितन् में न् से पूर्व वर्ण त में 'अ',। उस अकार को दीर्घ होकर पितान् स् बना। इसके बाद अगला सूत्र प्रवृत्त होता है।

अपृक्त संज्ञाविधायक संज्ञासूत्रम्- अपृक्त एकाल् प्रत्ययः । १।२।४९॥

एकाल् प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्।

एक अल् रूप जो प्रत्यय उसकी अपृक्त संज्ञा होती हैं।

अल् अर्थात् स्वर व्यंजन सभी वर्ण आते हैं। एक अल् अर्थात् एक वर्ण उसकी अपृक्त संज्ञा होती है। जैसे सु प्रत्यय है उस सु में दो वर्ण हैं। स और उ, उकार की इत्संज्ञा तथा लोपः होकर स् मात्र बचता है ह स् एक अल् (वर्ण) प्रत्यय उसकी अपृक्त संज्ञा होती है। पितान् स् यहा स् की अपृक्त संज्ञा हुई। अपृक्त संज्ञा का फल आगे बताया जायेगा।

सु लोपविधायक विधि सूत्रम् -हल्ड्याभ्यो दीर्घात्युतिस्यपृक्तं हल् ६।१।६८॥

हलन्तात्परं दीर्घौ यौ ड्यपौ तदन्ताच्च पर सुतिसीत्येतदपृक्तं हल् लुप्यते।

जिस के अन्त में हल् हो ऐसे हलन्त से परे तथा दीर्घ जो डी और आप् जिसके अन्त में हो ऐसे ड्यन्त

और आबन्त शब्दों से परे सु ति, सि का जो अपृक्त संज्ञक हल् वर्ण उसका लोप होता है। पितान् स् यहाँ पर हलन्त है पितान् में 'न्'। इस हल् वर्ण न् से परे अपृक्त संज्ञक वर्ण सु सम्बन्धी स्, इस स् का लोप होकर पितान् ऐसा बना।

न् कार लोपविधायकं विधि सूत्रम् -नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।६॥

प्रातिपदिकसंज्ञक यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः।

प्रातिपदिकसंज्ञक जो पद उसके अन्त में विद्यमान न् कार का लोप होता है।

पितान् में सु विभक्ति के लगने से सुप्तिङन्त पदम् से पद संज्ञा हुई किन्तु सु के लोप होने के बाद भी 'प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षणम्' सूत्र से स प्रत्ययत्व मानकर पर संज्ञा माना जाता है। अतः पितान् एक पद है। पद के अन्त में विद्यमान नकार है पितान् का नकार उसका नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र के द्वारा न् कार का लोप होकर पिता प्रयोग सिद्ध होता है। विशेष रूप से सिद्धान्त कौमुदी को देख सकते हैं।

पितरौ- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर पितृ औ बना।

गुण विधायकं विधिसूत्रम्-ऋतोडि-सर्वनामस्थायोः

ऋतोऽगंस्य गुणो डौ सर्वनामस्थाने चा इति प्राप्तां

ह्रस्व ऋकारान्त अंग को गुण होता है डि और सर्वनामस्थान के परे रहने पर।

पर में सर्वनामस्थान (सु औ जस् अम् औट्) और सप्तमी विभक्ति डि हो तो ऋदन्त यानि जिसके अन्त में ऋ हो उसे ऋकारान्त या ऋदन्त कहते हैं। उस ऋकार को गुण होता है। सु सर्वनाम स्थान को छोड़कर। पितृ औ में सर्वनाम स्थान पर में औ है ऋकारान्त है पितृ में तृ में ऋ के स्थान पर उरण् रपरः की सहायता से अर् गुण होकर पितृ अर् औ वर्ण सम्मेलन होकर पितरौ प्रयोग सिद्ध होता है।

पितरः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में जस् प्रत्यय होकर पितृ जस् बना। चुटू सूत्र के द्वारा जकार इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पति अस् बना। ऋतो डि-सर्वनामस्थानयोः सूत्र कि द्वारा पितृ में तृ में ऋ के स्थान में उरण् रपरः सूत्र के से अर् गुटा होकर पितृ अर् अस् बना। वर्ण सम्मेलन होकर पितरस् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर पितरः प्रयोग सिद्ध होता है।

हे पितः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षा में सु प्रत्यय होकर तथा हे का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे पितृ सु बना। सु में उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हे पितृ स् बना। ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः सूत्र से पितृ में तृ में ऋ के स्थान मे उरण् रपरः सूत्र की सहायता से अर् गुण होकर हे पित् अर् बना। वर्ण सम्मेलन होकर हे पितर् स् बना। हल्ङयाब्भ्योदीर्घात्सुतिस्य पृक्तं हल् लृ इस सूत्र से स् कार को लोप होकर हे पितर् बना। रकार को विसर्ग होकर हे पितः प्रयोग सिद्ध होता है।

हे पितरौः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर तथा हे का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे पितृ औ बना। जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में पितरौ बना। उसी प्रकार यहाँ भी हे पितरौ प्रयोग सिद्ध होता है।

हे पितरः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन प्रथमा विभक्ति बहुवचन विवक्षा में जस् प्रत्यय होकर तथा हे का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे पितृ जस् बना। जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति बहुवचन विवक्षा में पितरः प्रयोग बना। उसी प्रकार यहाँ भी हे पितरः प्रयोग सिद्ध होता है।

पितरम् :- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में अम् प्रत्यय होकर पितृ अम् बना। ऋ तो डिसर्वनामस्थानयोः सूत्र से पितृ में तृ में ऋ के स्थान मे उरण् रपरः सूत्र की सहायता से अर् गुण होकर पि अर् अम् बना। वर्ण सम्मेलन होकर हे पितरम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पितरौ :- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औट् प्रत्यय होकर टकार औट् बना। टकार की हलप्यम् से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हे पितृ औ बना। ऋ को डिसर्वनामस्थानयोः सूत्र से पितृ में तृ में ऋ के स्थान मे उरण् रपरः सूत्र की सहायता से अर् गुण होकर पित् अर् औ बना। वर्ण सम्मेलन होकर पितरौ प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृन् :- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में शस् प्रत्यय होकर पितृ शस् बना। शकार की लशक्वतद्धिते सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हे पितृ अस् बना प्रथमयोः पूर्वसवर्णः सूत्र ये पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेश होकर पितृस् बना। सकार को तस्माच्छसो नःपुंसि सूत्र से

सकार को नकार होकर पितृन् प्रयोग सिद्ध होता है।

पित्राः- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में टा प्रत्यय होकर पितृ टा बना। ट् कार की चुटू सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पितृ आ बना। इको यणचि सूत्र के द्वारा पितृ में ऋ के स्थान में र् यण होकर पितर् आ, वर्ण सम्मेलन होकर पिता प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृभ्याम् :- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पितृभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृभिः :- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भिस् प्रत्यय होकर पितृ भिस् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर पितृभिः प्रयोग सिद्ध होता है।

पित्रेः- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डे प्रत्यय होकर पितृ डे बना। डकार की लशक्वतद्धिते सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर ए बना। पितृ ए बना। इको यणचि सूत्र से ऋ के स्थान में र् यण् होकर ' पि त् र् ए' बना। वर्ण सम्मेलन होकर पित्रे प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृभ्याम् - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पितृभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृभ्यः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पितृभ्याम् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर पितृभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।

पितुः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डसि प्रत्यय होकर डकार की लशक्वतद्धिते सूत्र में इत्संज्ञा तथा इकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पितृ अस् बना। इको यणचि से यर्ण प्राप्त होता है उसके बाद अगला सूत्र प्रवृत्त हो रहा है।

उदेकादेशिधायकं विधिसूत्रम् - ऋत उत् ६।१।१११॥

ऋतो डसिडसोरति उदेकादेशः स्यात् । रपर।

ह्रस्व ऋकारान्त से डसि अथवा डस् का अत् परे हो तो पूर्व तथा पर के स्थान में उत् एकादेश होता है। उरणपरः से रपर होता है।

पितृ अस् यहाँ पर पूर्व में ह्रस्व ऋकार है पर में डसि सम्बन्धी अकार है ऋकार अकार दोनों के स्थान मके उकार एकादेश होकर तथा उरण् रपरः से रपर होकर उर् ऐसा आदेश होकर पितृउर्स् बना। इसके बाद अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है -

सलोप विषये नियमसूत्रम्- रात् सस्य ८।२।२४॥

रेफात् संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्या रेफस्य विसर्गः

रेफ से परे यदि संयोगान्त का लोप हो तो सकार का ही हो, अन्य का नहीं।

पितृ स् में यहाँ पर रात्सस्य की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से सकार का लोप होकर पितुर बना। खरवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्र से र् कार का विसर्ग होकर पितुः प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृभ्याम्:- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पचमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पितृभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृभ्यः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पचमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर पितृभ्यस् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर पितृभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।

पितुः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डस् प्रत्यय होकर पितृ डस् बना। जिस प्रकार पचमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में प्रयोग बना है उसी प्रकार यहाँ भी पितुः प्रयोग सिद्ध होता है।

पित्रोः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर पितृ ओस् बना। इकोयणाचिसूत्र से पितृ में ऋ के स्थान में र् यण् होकर पितृ ओस् बना। वर्ण सम्मेलन होकर पित्रोस्

बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर पित्रोः प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृणाम्:- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में आम् प्रत्यय होकर पितृ आम् बना। ह्रस्वनद्यापो नुट् का आगम होकर पितृ नुट् आम् बना। तकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप एवं उकार की भी इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पितृ न् आम् वर्ण सम्मेलन होकर पितृ नाम बना। नामि सूत्र से दीर्घ होकर पितृनाम बना। ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इस वार्तिक से नकार को णकार होकर पितृणाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

पितरिः- पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डि प्रत्यय होकर पितृ डि बना। डकार की लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर पितृ इ बना। ऋतो डिःसर्वनामस्थानयोः सूत्र से डि सम्बन्धी इ परे होने के कारण ऋ के स्थान में अर् गुण होकर पितृ अर् इ बना। वर्ण सम्मेलन होकर पितरि प्रयोग सिद्ध होता है।

पित्रोः - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओम् प्रत्यय होकर पितृ ओस् बना। इको यणचि सूत्र से यण् होकर पित्रोस् तथा स् कार को रूत्व विसर्ग होकर पित्रोः प्रयोग सिद्ध होता है।

पितृषु - पितृ शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में सुप् प्रत्यय होकर पितृ सुप् बना। पकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर तथा आदेशप्रत्ययोः सूत्र से सकार के स्थान में मूर्धन्य ष् कार होकर पितृषु प्रयोग सिद्ध होता है।

इस प्रकार आपने पितृ शब्द के सम्बोधन के साथ इक्कीस प्रत्ययो को सिद्ध कर लिया है। इनको तालिका के माध्यम से देख सकते हैं।

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	पिता	पितरौ	पितरः
द्वितीया	पितरम्	पितरौ	पितृन्
तृतीया	पित्रा	पितृभ्याम्	पितृभिः

चतुर्थी	पित्रे	पितृभ्याम्	पितृभ्यः
पंचमी	पितु	पितृभ्याम्	पितृभ्यः
षष्ठी	पितुः	पित्रोः	पितृणाम्
सप्तमी	पितरि	पितरौः	पितृषु
सम्बोधन	हे पितः	हे पितरौ	हे पितरः

अभ्यासार्थ प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पति शब्द का अर्थ है?
2. पति शब्द के द्वितीया विभक्ति एकवचन का रूप है?
3. पति शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप है?
4. पति शब्द के पंचमी एकवचन का रूप है?
5. पति शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है?
6. समास में पति शब्द की धिसंज्ञा होती है कि नहीं?
7. असमास में पति शब्द की धिसंज्ञा होती है?
8. पितृ शब्द के ऋ के स्थान में अनङ् आदेश किस सूत्र से होता है?

रिक्त स्थानों को भरिये

1. पति शब्द के तृतीया विभक्ति एकवचन में रूप बनता है
2. सु,औ,जस्, अम्,औट्, की संज्ञा होती है।
3. अलोडन्त्यात्पूर्व उपधा से संज्ञा होती है।
4. हलन्त से परे सु का लोप सू सूत्र से होता है।
5. पितृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनता है।

6. प्रातिपदिकान्त नकार का लोप सूत्र से होता है।
7. पितृ शब्द के पंचमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है।

बहुविकल्पात्मक प्रश्न

1. सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है।
- (क) सुविच (ख) लशक्वतद्धिते
- (ग) सुडनपुंसकस्य (घ) सर्वनाम स्थाने चा सम्बुद्धौ
2. सर्वनाम स्थान कितने होते हैं।
- (क) पाँच (ख) चार
- (ग) तीन (घ) दो
3. अलोडन्त्यात्पूर्व उपधा क्या करता है।
- (क) दीर्घ संज्ञा (ख) गुण संज्ञा
- (ग) उपधा संज्ञा (घ) वृद्धि संज्ञा
4. नान्त के उपधा को दीर्घ करता है।
- (क) अलोडन्त्यात्पूर्व उपधा (ख) सर्वनामस्थाने चासम्बु दौ
- (ग) रात् सस्य (घ) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य
5. पितृ शब्द के षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है।
- (क) पितुः (ख) पितृणाम्
- (ग) पित्रोः (घ) पितृभिः
6. पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है।
- (क) पितरि (ख) पित्रो

(ग) पितृषु

(घ) पितृभ्यः

5.4 सारांश

इस इकाई को पढने के बाद जान चुके है कि ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्ग, पति शब्द का रूप किस प्रकार सिद्ध होता है एवं पितृ शब्द का रूप किस प्रकार सिद्ध होता है इन सबके बारे में भली भाँति जान चुके है। इस इकाई में सुबन्त शब्दों के षडलिङ्ग प्रकरण अजन्त पुल्लिङ्ग में केवल पति एवं पितृ शब्दों का रूप, सूत्रों सहित व्याख्या किया गया है। पति एवं हरि दोनों ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्ग है किन्तु दोनों का रूप भिन्न होता है क्योंकि हरि शब्द की घिसंज्ञा होती है पति शब्द की समास नहीं होगा, जहाँ पति शब्द का सतास नहीं होगा, वहाँ पर घिसंज्ञा नहीं होती है। घिसंज्ञा न होने से पति शब्द का रूप भिन्न होता है और जहाँपर समास होगा वहाँ पर हरि एवं पति शब्द एक समान सिद्ध होते है। यथा भूपति यहाँ भूपति समास होने से घिसंज्ञा हो जायेगी तो हरि, भूपति शब्द का एक समान रूप चलता है। इन सबकी व्याख्या इस इकाई में की गयी है।

शब्द	अर्थ
पतिः	स्वामी
पतीन्	स्वामियों को
भूपतिः	राजा
नृपतिः	राजा
गणपतिः	गणों के स्वामी
सेनापतिः	सेना के स्वामी
हन्तृ	मारने वाला
देवृ	देवर
पितृ	पिता
मन्तृ	मन्त्रणा करने वाला
जामातृ	दामाद
भ्रातृ	भाई
नृ	मनुष्य
पितरि	पिता में
नृणाम्	मनुष्यों
भ्रातुः	भाई का
पितुः	पिता का

हन्टन्

मारने वालों को

5.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.स्वामी 2.पतिम् 3.पत्ये 4.पत्युः 5.हे पते 6.होती
है 7.नहीं

बहुविकल्पात्मक-

1.ग 2.क 3.ग 4.क 5.क 6.क

5.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

श्री श्री सुरेन्द्र शास्त्री - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री बरदराजाचार्य विरचित) चौखम्भा सुरभारती
प्रकाशन, 37/117 गोपाल मन्दिर लेन पो.बा.न. 1129 वाराणसी 221001

पं.गोपाल दत्त पाण्डेय - सिद्धान्त कौमुदी (भट्टोजि दीक्षित विरचित) चौखम्भा सुरभारती प्रकाश

5.8 उपयोगी पुस्तकें

श्री सुरेन्द्र कुशवाहा - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री वरदराजाचार्य विरचित)
भारतीय विधा प्रकाशन पचण्डी जगत गंज

5.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1 - सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ सूत्र की व्याख्या कीजिये।

2- पत्या एव पिता इन दोनों प्रयोगों को सूत्र सहित सिद्धि कीजिये।

इकाई 6 .अजन्त स्त्रीलिंग रमा शब्द

इकाई की रूप रेखा

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 लघुसिद्धान्त कौमुदी अजन्त स्त्रीलिंग सूत्रों की व्याख्या सहित रमा शब्द की रूप सिद्धि
- 6.4 सारांश
- 6.5 शब्दावली
- 6.6 अभ्यासार्थ प्रश्न
- 6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 6.8 उपयोगी पुस्तकें
- 6.9 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

व्याकरण शास्त्र से सम्बन्धित यह छठवीं इकाई है इससे पहले के इकाईयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि व्याकरण शास्त्र क्या है? इस व्याकरण शास्त्र के षड्लिंग सुबन्त क्या है? उसकी रचना कैसे होती है?

व्याकरण शास्त्र के महत्व को जानते हुए षड्लिंग सुबन्त प्रकरण में सुबन्त के विषय में स्पष्ट रूप से विस्तृत चर्चा की गयी है कि सुबन्त क्यों पढ़ा लिखा जाता है रमा शब्द की सिद्धि कैसे होती है? प्रस्तुत इकाई में विस्तार से उनके विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

इस इकाई में रमा शब्द की सिद्धि की गयी है। रमा शब्द के सिद्धि के बाद उनके महत्व के सम्यग् रूपा समझते हुए उनका विश्लेषण कर सकेंगे।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप पाणिनि रचित व्याकरण शास्त्र में महत्वपूर्ण एवं प्रेरणापद सूत्रों का अध्ययन करेंगे -

- अजन्त स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूपों के आप समझ सकेंगे
- रमा शब्द के तृतीया विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- रमा शब्द के तृतीया विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- रमा शब्द के चतुर्थी विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- रमा शब्द के पंचमी विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे
- रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के सूत्रों की व्याख्या सहित रूपों के आप समझ सकेंगे

6.3 अजन्त स्त्रीलिंग रमा शब्द

रमा - रमु क्रीडायाम् धातु से अच् प्रत्यय होकर रमु अच् बना। रमु में उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रम् अच् चकार की हलन्त्यम् से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रम् अ वर्ण सम्मेलन होकर रम बना। अब स्त्रीलिंग में कोई शब्द अकारान्त नहीं रह सकता, क्योंकि सर्वत्र अजाद्यतष्टाप् सूत्र के द्वारा अदन्तों से टाप् प्रत्यय होकर रम्

टाप् बना। ट् कार प् कार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रम् आ बना। संवर्ण दीर्घ करने पर रमा शब्द की सिद्धि होती है। रमा का अर्थ लक्ष्मी है।

रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षा में सु प्रत्यय होकर रमा सु बना। सु में उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा स् बना। अपृक्त एकाल् प्रत्ययः सूत्र से अपृक्त संज्ञा होने के बाद हल्डयाब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्वपृक्तं हल् इस सूत्र ये अपृक्त हल् वर्ण 'स' को लोप होकर रमा शब्द की सिद्धि होती है।

रमे - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर रमा औ बना। यहाँ पर 'प्रथमयोःपूर्वसवर्णः' इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। उस पूर्व सवर्ण दीर्घ को दीर्घाज्जसि सूत्र से निषेध होता है। पुनः वद्धिरेचि सूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है इस पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।

शीतिविधायकं विधिसूत्रम्

औङ्. आपः ७। १। १८ ॥

आबन्तादंगात्परस्यौङः शी स्यात्। औङित्यौकारविभक्तेः संज्ञा। रमे। रमाः।

आबन्त अंग से परे औ विभक्ति के स्थान पर शी आदेश होता है। प्राचीन आचार्यों ने औ और औट् इन दो विभक्तियों को ओङ् की संज्ञा दी है। अतः यहाँ पर औङ् से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन तथा द्वितिया विभक्ति के द्विवचन का औ लिया गया है। यह सूत्र केवल स्त्रीलिंग में लगता है, क्योंकि आबन्त अंग केवल स्त्रीलिंग में ही मिलेगा। औ के स्थान में जो शी आदेश किया गया है उस में शकार की इत्संज्ञा लशक्वतद्धिते सूत्र से होकर तथा तस्य लोपः से लोप होता है यहाँ पर औ ता प्रत्यय है किन्तु उसके स्थान पर आदेश होने वाला शी आदेश प्रत्यय नहीं है। अतः शी में स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ सूत्र से स्थानिवद्भाव होकर प्रत्ययत्व आ जाता है। अतः लशक्वतद्धितेः सूत्र से प्रत्यय का जो शी का श् कार जो शकार है उसकी इत्संज्ञा होती है। रमा औ यहाँ पर आबन्त अंग है रमा में मा में आ उस आबन्त से परे जो औङ् का औ उसके के स्थान में शी आदेश होकर रमा शी बना। शी में शकार की लशक्वतद्धिते से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा ई बना। आद् गुणः से गुण होकर रमे प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय होकर रमा जस् बना। जकार

की चुटू सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर रमा आ बना। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः से पूर्वसवर्ण दीर्घ प्राप्त है उसको दीर्घाज्जसि सूत्र से निषेध हो जाता है। अकःसवर्णे दीर्घः सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर तथा स् कार को रूत्व विसर्ग होकर रमाः प्रयोग सिद्ध होता है।

हे रमे- रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति एकवचन की विवक्षा में सु प्रत्यय होकर रमा सु बना। सु में उकार की उपदेशोऽजनुनासिक इत् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपःसूत्र से लोप होकर रमा स् तथा हे का प्रयोग होकर हे रमा स् बना। एकवचनं सम्बुद्धिः सूत्र से सम्बुद्धि संज्ञा हुई। सम्बुद्धि संज्ञा होने के बाद अगला सूत्र प्रवृत्त होता है।

एकारादेश विधयकं विधि सूत्रम्

सम्बुद्धौ च ७। ३। १०६ ॥ आप एकारः स्यात्सम्बुद्धौ। एडह्रस्वादिति सम्बुद्धि लोपः। हे रमे। हे रमे। हे रमा। रमाम्। रमे। रमाः। सम्बुद्धि परे होने पर आवन्त अगं को एकार होता है।

हे रमा स् यहाँ पर सम्बुद्धि का सु सम्बन्धी स् पर में है ही, अतः सम्बुद्धौ च सूत्र से आकार को एकार हो कर हे रमे स् बना। एडह्रस्वात्सम्बुद्धेः सूत्र से सकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हे रमे प्रयोग सिद्ध होता है।

हे रमे - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औ प्रत्यय होकर एवं हे का पूर्व प्रयोग होने के बाद हे रमा औ बना। औड आपः सूत्र से औ के स्थान में शी आदेश होकर हे रमा शी बना। शकार की लशक्वताद्धितेः सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हे रमा ई बना। आद्गुणः से गुण होकर हे रमे प्रयोग सिद्ध होता है।

हे रमाः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सम्बोधन के प्रथमा विभक्ति बहुवचन विवक्षा में जस् प्रत्यय होकर, एवं हे का पूर्व प्रयोग करने के बाद हे रमा जस् बना। चुटू सूत्र से जकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर हे रमा अस् बना। यहाँ प्रथमयोः पूर्वसवर्ण दीर्घ प्राप्त है उसका दीर्घाज्जसि च से निषेध हो जाता है। अब अकः सवर्णे दीर्घः से सवर्ण दीर्घ होकर हे रमास् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर हे रमाः प्रयोग सिद्ध होता है। रमाम्:- रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में अम् प्रत्यय होकर रमा अम् बना। अमिपूर्वःसूत्र से पूर्वरूप होकर रमाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

रमे - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र से प्रातिपदिक हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में औट् प्रत्यय होकर रमा औट् बना। ट् कार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा औ बना। जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में रमे बना है। उसी प्रकार यहाँ भी रमे प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में शस् प्रत्यय होकर रमा शस् बना। शकर की लशक्वद्विते सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा अस् बना। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः सूत्र से पूर्वसवर्ण दीर्घ से परे जो शस् का सकार उस सकार के स्थान पर तस्माच्छसोनः पुंसि इस सूत्र से नकार नहीं होगा क्योंकि सकार के स्थान पर नकारी पुल्लिंग में होता है यहाँ तो पूर्वसवर्ण दीर्घ से परे सकार स्त्रीलिंग में है इसलिए स् कार के स्थान पर न् कार नहीं होगा। स् कार को रूत्व विसर्ग होकर रमाः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमया - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति एकवचन विवक्षा में टा प्रत्यय होकर रमा टा बना। ट् कार की चुटू सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा आ बना। अब यहाँ टा सम्बन्धी आ के स्थान पर इन आदेश नहीं होगा। क्योंकि अदन्त अंग से परे टा के स्थान पर इन आदेश होता है यहाँ तो आकारान्त अंग है इसलिए टा के स्थान पर इन आदेश नहीं होगा। रमा आ यहा पर अकः सर्वेण दीर्घः सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है इसके लिए अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।

एकारादेश विधायकं नियमसूत्रम्

आडिचाप ७।३।१॥आडि और ओसि चाप एकार। रमाया। रामाभ्याम्। रमाभिः।

आड और ओस के परे रहने पर आवन्त अंग को एकार होता है।

यहा अलोऽन्त्यस्य सूत्र की सहायता से आकारान्त अंग अन्त्य वर्ण आकार के स्थान पर ही एकार आदेश होगा। इस सूत्र में आड् से तृतीया विभक्ति का एकवचन का टा ही गृहीत होता है वह आड् कहलाता है। क्योंकि प्राचीन टा की आड की संज्ञा की है।

रमा आ में आडि चापः सूत्र के द्वारा टा सम्बन्धी आड परे होने के कारण आकारान्त अंग रमा में आ के स्थान पर एकार होकर रमे आ बना। एचोऽयवायावः सूत्र से ए के स्थान पर अय् आदेश होकर रम अय् आ बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमया प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाभ्याम् - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई

प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर रमा भ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है। वर्ण सम्मेलन होकर को रमाभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाभिः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भिस् प्रत्यय होकर रमा भिस् बना। वर्ण सम्मेलन हाकेर रमाभिस् बना। सकार को रुत्व विसर्ग होकर रमाभिः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमायै - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षा में 'डे' प्रत्यय होकर रमा डे बना। लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा ए बना। यहाँ वृद्धिरेचि सुत्र से वृद्धि प्राप्त है उसको बाधकर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है -

याङापः ७। ३। ११३ ॥ आपोडितो याट् । वृद्धिः । रमायै । रमाभ्याम् । रमाभ्यः । रमायाः । रमयोः । रमाणाम् । रमासु । एवं । दुर्गाम्बिकादयः ।

आबन्त अंग से परे डित् वचनों को 'याट्' का आगम होता है।

याट् यह आगम है आगम किसी वर्ण को हटाकर नहीं होता है यह हमेशा किसी न किसी वर्ण के बगल में बैठता है। आगम मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है वह हमेशा किसी वर्ण के स्थान पर बैठता है। इस सूत्र से विभक्ति को याट् आगम का विधान हुआ है तो टित् होने के कारण अद्यन्तौ टकितौ परिभाषा सूत्र के नियम से प्रत्यय के आदि में बैठता है। एक बात का ध्यान रमा ए यहाँ पर आबन्त अंग है रमा में आ उस आकारान्त से परे डित है डे सम्बन्धी ए को याट् का आगम होकर रमा याट् ए बना। हलन्त्यम् सूत्र से टकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा या ए बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमाया ए बना। अब यहाँ या में आ और ए दोनों के स्थान में वृद्धिरेचि सूत्र के वृद्धि रूप एकादेश होकर रमायै प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाभ्याम् - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर रमाभ्याम् बना। तथा वर्ण सम्मेलन होकर रमाभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाभ्यः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय होकर रमा भ्यस् बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमा भ्यस् बना। सकार को रुत्व विसर्ग होकर रमाभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमायाः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई।

प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डसि प्रत्यय होकर रमा डसि बना। इकार की उपदेशेऽजनुनासि इत् सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा डस बना। लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा डकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा अस् बना। अब डित होने के कारा आकारान्त अंग से परे डसि सम्बन्धी अस् के पहले याडापः सूत्र से याट् का आगम होकर रमा याट् अस् बना। टकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा या अस् बना। अकः सर्वेण दीर्घः सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर रमायाम् बना। स् कार को रूत्वविसर्ग होकर रमायाः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाभ्याम् - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में भ्याम् प्रत्यय होकर रमा भ्याम् बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमाभ्याम् प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाभ्यः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद पंचमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भ्यस् प्रत्यय होकर रमा भ्यस् बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमाभ्यस् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर रमाभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमायाः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति वचन विवक्षा में डस् प्रत्यय होकर रमा डस् बना। लशक्वतद्धिते सूत्र के द्वारा डकार की इत्संज्ञा तथा तस्यः लोपः से लोप से होकर रमा अस् बना। जिस प्रकार पंचमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में रमाया बना है उसी प्रकार यहाँ भी रमायाः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमयोः - रमा शब्द की अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम् सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर रमा ओस् बना। आडि चाप सूत्र के द्वारा ओस परे होने के कारण मकार में जो आकार है उस आकार के स्थान में एकार होकर रमे ओस् बना। एचोऽयवायावः सूत्र के द्वारा अच् प्रत्याहार का ओस् परे होने के कारण एकार के स्थान में अय् आदेश होकर रम् अय् ओस् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर रमयोः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमाणाम् - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में आम् प्रत्यय होकर रमा आम् बना। इस अवस्था में रमा में मा में आ से आम् परे होने के कारण ह्रस्वनद्यापोनुट् इस सूत्र से नुट् का आगम होकर रमा नुट् आम् बना। नुट् में टकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर

रमा नु आम् बना। उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् इस सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा न् आम् बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमा नाम् बना। दीर्घ होते हुए भी नामि से पुनः दीर्घ हुआ। क्योंकि जब जब सूत्र से प्राप्त है तो आवश्यक न होते हुए भी कार्य होगा। रमानाम बना। अट्कृष्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि सूत्र से नकार के स्थान में णकार होकर रमाणाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

रमायाम् - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षा में डि प्रत्यय होकर रमा डि बना। डकार की लशक्वतद्धिते सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा इ बना। अब यहाँ अकारान्त अंग है रमा में मा में आ से परे डित सम्बन्धी 'इ' सप्तमी विभक्ति पर में होने कारण, याडापः सूत्र से याट् का आगम होकर रमा याट् इ बना। टकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा या इ बना। डेराम्नाम्नीम्यः सूत्र से अकारान्त सक परे जो डि सम्बन्धी इ। इस 'इ'के स्थान पर आम् प्रत्यय होकर रमा या आम् बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमाया आम् बना। अकः सर्वेण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर रमायाम् प्रयोग सिद्ध होता है।

रमयोः - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति द्विवचन विवक्षा में ओस् प्रत्यय होकर रमा ओस् बना। अब यहाँ आकारान्त अंग से ओस् परे होने के कारण रमा में मा में जो आ है इस आ स्थान में एकार होकर रमे ओस् बना। एचोऽयवायावः सूत्र के द्वारा अच् प्रत्याहार का वर्ण ओस् ओ परे होने के कारण एच प्रत्याहार का वर्ण रमे में 'में' में ए, इस ए के स्थान में अय आदेश होकर रम अय् ओस् बना। सकार को रूत्व विसर्ग होकर रमयोः प्रयोग सिद्ध होता है।

रमासु - रमा शब्द की 'अर्थवदधातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्' सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सप्तमी विभक्ति बहुवचन विवक्षा में सुप् प्रत्यय होकर रमा सुप् बना। पकार की हलन्त्यम् सूत्र से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर रमा सु बना। वर्ण सम्मेलन होकर रमासु बना। यहाँ आदेशप्रत्ययोः सूत्र से सकार के स्थान में मूर्धन्य ष् कार नहीं हुआ। क्योंकि मूर्धन्य ष् कार इण् प्रत्याहार और कवर्ग से परे जो अपादान्त सकार को होता है यहाँ न इण् प्रत्याहार है न कवर्ग से परे सकार है। यहाँ तो आकारान्त से पर में है सकार, इसलिए मूर्धन्य ष् कार नहीं होगा। रमासु प्रयोग सिद्ध होता है। रमा, शब्द के समान ही दुर्गा, अम्बिका, शिला, रीता, बालिका, राधा, उर्मिला, शिल्पा, आदि आकारान्त स्त्रीलिंग सबका रूप इसी के समान चलता है या बनाना चाहिये।

इस प्रकार से आबन्त अर्थात् आकारान्त स्त्रीलिंग रमा शब्द के सातों विभक्तियों रूप सिद्ध हुए हैं। इनकी रूपमाला भी देखिए -

आबन्त (आकारान्त) स्त्रीलिंग रमा (लक्ष्मी) शब्द का रूप

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	रमा	रमे	रमाः
द्वितीया	रमाम्	रमे	रमाः
तृतीया	रमाया	रमाभ्याम्	रमाभि
चतुर्थी	रमायै	रमाभ्याम्	रमाभ्यः
पंचमी	रमायाः	रमाभ्याम्	रमाभ्यः
षष्ठी	रमायाः	रमयोः	रमाणाम्
सप्तमी	रमायाम्	रमयोः	रमासु
सम्बोधन	हे रमे	हे रमे	हे रमाः

इसी प्रकार कुछ अन्य आकारान्त स्त्री लिंग का रूपमाला दे रहे हैं -

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	दुर्गा	दुर्गे	दुर्गाः
द्वितीया	दुर्गाम्	दुर्गे	दुर्गाः
तृतीया	दुर्गया	दुर्गाभ्याम्	दुर्गाभि
चतुर्थी	दुर्गायै	दुर्गाभ्याम्	दुर्गाभ्यः
पंचमी	दुर्गायाः	दुर्गाभ्याम्	दुर्गाभ्यः
षष्ठी	दुर्गायाः	दुर्गयोः	दुर्गाणाम्
सप्तमी	दुर्गायाम्	दुर्गयोः	दुर्गासु
सम्बोधन	हे दुर्गे	हे दुर्गे	हे दुर्गाः

अम्बिका माता

विभक्ति	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा	अम्बिका	अम्बिके	अम्बिका
द्वितीया	अम्बिकाम्	अम्बिके	अम्बिकाः
तृतीया	अम्बिकया	अम्बिकाभ्याम्	अम्बिकाः

चतुर्थी	अम्बिकायै	अम्बिकाभ्याम्	अम्बिकाभि
पंचमी	अम्बिकायाः	अम्बिकाभ्याम्	अम्बिकाभ्यः
षष्ठी	अम्बिकायाः	अम्बिकयोः	अम्बिकाभ्यः
सप्तमी	अम्बिकायाम्	अम्बिकयोः	अम्बिकानाम्
सम्बोधन	हे अम्बिके	हे अम्बिके	अम्बिकासु

अभ्यासार्थं प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. रमा शब्द किस धातु से बना है ?
2. रमा शब्द किस धातु किस प्रत्यय से बना है ?
3. रमा शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या रूप होगा ?
4. रमा शब्द के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या रूप होगा ?
5. रमा शब्द के तृतीया विभक्ति एकवचन में क्या रूप होगा ?
6. औड आपः सूत्र से औ के स्थान में क्या आदेश होता है ?
7. शी में शकार की इत्संज्ञा किस सूत्र से होती है ?
8. रमा इ यहाँ किस सूत्र से गुण होता है ?
9. याडापः सूत्र से क्या आगम होता है ?
10. रमाया ए यहाँ पर किस् सूत्र से वृद्धि होगी ?
11. रमायै किस विभक्ति का रूप है ?
12. रमायै किस वचन का रूप है ?
13. रमाभिः किस विभक्ति का रूप है ?
14. तृतीया विभक्ति द्विवचन में रमा शब्द का क्या रूप होगा ?
15. चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रमा शब्द का क्या रूप होगा ?
16. चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रमा शब्द का क्या रूप होगा ?

रिक्त स्थानों को भरिये

1. रमा शब्द लिंगं है।
2. रमाम् विभक्ति का रूप है।
3. रमे में औ के स्थान में आदेश है।
4. रमाः प्रथमा विभक्ति वचन का रूप है।
5. रमा शब्द के पंचमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है।

6. रमायाः में याट् का आगम सूत्र से होता है।
7. रमा में आकार को एकार सूत्र से होता है।
8. रमा शब्द के सम्बोधन में आकार को एकार सूत्र से होता है।
9. रमायाम् विभक्ति का रूप है।
10. रमायोः में प्रत्यय हुआ है।
11. षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रमा शब्द का रूप होता है।

बहविकल्पात्मक प्रश्न

1. 'सम्बुद्धौ च' सूत्र से होता है।
 (क) सम्बोधन में आ को एकार (ख) आड् पर में होतो आ को एकार
 (ग) गुण (घ) दीर्घ
2. रमा शब्द के सम्बोधन में एकवचन में रूप होते हैं।
 (क) हे रमा (ख) हे रमे
 (ग) हे रमाः (घ) रमाम्
3. आडि चापः सूत्र से होता है।
 (क)नुमागम् (ख) याडागम्
 (ग) आड् पर में हो तो आ को एकार (घ) वृद्धि
4. रमा शब्द के तृतीया विभक्ति एकवचन में का रूप है।
 (क)रमाम् (ख) रमया
 (ग) रमाये (घ) रमाभिः
5. रमे आ में यहाँ पर एचोऽयवायावः सूत्र से होता है।
 (क) अय् (ख) आव्
 (ग) आय् (घ) अव्
6. औड आपः सूत्र में औड के स्थान में आचार्यों ने क्या माना है।
 (क) आव् (ख) आय्
 (ग) औ (घ) औ और औट्
7. रमा शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होता है।
 (क) रमाभिः (ख) रमाभ्यः
 (ग) रमाणाम् (घ) रमाभ्यः
8. रमा डि यहाँ पर डे राम्नद्याभ्नीभ्यः सूत्र डि सम्बन्धी 'इ' के स्थान में क्या आदेश हुआ है।
 (क) शी (ख) स्मिन्
 (ग) स्मात् (घ) आम

9. रमा शब्द के सप्तमी द्विवचन में रूप होता है।

- | | |
|-------------|-----------|
| (क) रमायाम् | (ख) रमयोः |
| (ग) रमाणाम् | (घ) रमासु |

6.4 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद जान चुके हैं कि दीर्घ अकारान्त स्त्रीलिंग, रमा शब्द का रूप किस प्रकार सिद्ध होता है इन सम्बोधन के साथ रमा शब्द के सातों विभक्तियों में रूप भली-भाती जान चुके हैं इस इकाई में सुबन्त शब्दों के षडलिंग प्रकरण अजन्त स्त्रीलिंग में केवल दीर्घ अकारान्त रमा शब्द का रूप, सूत्रों सहित व्याख्या किया गया है। व्याख्या के साथ अकारान्त स्त्रीलिंग का कु मुख्य शब्दों का अर्थ भी दिया गया है। जिसका रूप रमा शब्द के समान चलता है रमा शब्द को सिद्ध करने के लिये पहली तथा दूसरी इकाई में जो राम शब्द को सिद्ध किया गया है उस राम शब्द को ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक सूत्र सहित व्याख्या स्मरण नहीं रहेगा, तब तक भली भाँति ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पूर्व की इकाईयों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

श्री श्री सुरेन्द्र शास्त्री - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री लखदराजाचार्य विरचित) चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 37/117 गोपाल मन्दिर पो.बा.नं. 1129 वाराणसी 221001
 पं.गोपाल दत्त पाण्डेय - सिद्धान्त कौमुदी (भट्टोजि दीक्षित विरचित) चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन 37/117 गोपाल म पो.बा.नं. 1129 वाराणसी 221001

6.8 उपयोगी पुस्तकें

श्री सुरेन्द्र कुशवाहा - लघुसिद्धान्त कौमुदी (श्री लखदराजाचार्य विरचित) भारतीय विद्या प्रकाशन

6.9 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1- अजन्त पुल्लिंग के कुछ सूत्रों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
- 2- रमा का रूप सभी विभक्तियों में लिखिए।
- 3 रमयोः तथा रमासु की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्ध कीजिए।